

प्रातः किरण

f /Pratahkiran

/Pratahkiran

/Pratahkiran

हर खबर पर पकड़

11 आईपीएल के लिए तैयार हैं...

मराठाओं को आरक्षण देने पर... 12

वर्ष : 11

अंक : 257

पटना, मंगलवार, 30 जनवरी, 2024

विक्रम संवत् 2080

पेज : 12

मूल्य ₹ : 03.00

www.pratahkiran.com

बच्चों की उपलब्धि को अपना विजिटिंग कार्ड ना बनाएं मां बाप : पीएम मोदी

पीएम ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ की बातचीत


प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की परीक्षा के तनाव से मुक्त करने में अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका रेखांकित करते हुए कहा कि मां बाप को अपने बच्चे को उपलब्धि को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनाना चाहिए और शिक्षकों को अपना काम केवल जांच नहीं बल्कि छात्रों के जीवन को संवारने की जिम्मेदारी समझना चाहिए। श्री मोदी ने सोमवार को भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए बच्चों को सीख दी कि वे अपने सहपाठियों एवं मित्रों से लेन-देन वाला व्यवहार नहीं रखें

और उनको उपलब्धियों की खुशियां मनाएं और उससे खुद आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री ने छात्रों पर बाहरी कारकों के अतिरिक्त दबाव के प्रभाव को कम करने में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला और यह भी बताया कि माता-पिता ने समय-समय पर उसका अनुभव किया है। उन्होंने खुद को दबाव से निपटने में सक्षम बनाने और जीवन के एक हिस्से के रूप में इसके लिए तैयारी करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने छात्रों से एक चरम जलवायु स्थिति से दूसरे तक यात्रा करने का उदाहरण देकर खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का आग्रह किया जहां दिमाग पहले से ही चरम मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने

तनाव के स्तर का आकलन करने और इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर आगे बढ़ने का भी सुझाव दिया ताकि छात्र की क्षमता इससे प्रभावित न हो। श्री मोदी ने छात्रों, परिवारों और शिक्षकों से एक व्यवस्थित सिद्धांत को लागू करने के बजाय प्रक्रिया को विकसित करते हुए सामूहिक रूप से बाहरी तनाव के मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि छात्रों के परिवारों को उनमें से प्रत्येक के लिए काम करने वाले विभिन्न तरीकों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बीच पारिवारिक स्थितियों में बंटा जाते हैं, जिससे भाई-बहनों के बीच विकृत प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों

के बीच तुलना से बचें। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो का उदाहरण दिया जहां बच्चे स्वस्थ तरीके से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक-दूसरे की मदद करने को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना कोई प्लस-माइनस का खेल नहीं है और प्रतिस्पर्धा स्वयं से होती है क्योंकि किसी मित्र द्वारा अच्छा प्रदर्शन क्षेत्र को अच्छा करने तक सीमित नहीं रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रवृत्ति उन लोगों से मित्रता करने की प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है जो प्रेरक नहीं होंगे। उन्होंने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से न करें और ना ही अपने बच्चों की उपलब्धि को अपना



विजिटिंग कार्ड बनाएं। श्री मोदी ने छात्रों से अपने दोस्तों की सफलता पर खुशी मनाते की नसीहत देते हुए कहा, दोस्ती कोई लेन-देन वाली भावना नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षक नौकरी की भूमिका में नहीं हैं बल्कि वे छात्रों के जीवन को संवारने की जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने अभिभावकों

के अति उत्साह या छात्रों की अति ईमानदारी के कारण होने वाली गलतियों से बचने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे परीक्षा के दिन को नए कपड़ों, रीति-रिवाजों या स्टेशनरी के नाम पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें। उन्होंने छात्रों से अंतिम क्षण तक तैयारी न करने और

शान्त मानसिकता के साथ परीक्षा देने और किसी भी बाहरी विनाश से बचने के लिए कहा जो अवांछित तनाव का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री ने उन्हें अंतिम समय में घबराहट से बचने के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने और समय आवंटन के साथ योजना बनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने छात्रों को याद दिलाया कि अधिकांश परीक्षाएं अभी भी लिखित होती हैं और कंप्यूटर और फोन के कारण लिखने की आदत कम हो रही है। उन्होंने उनसे लिखने की आदत बनाए रखने को कहा। उन्होंने उनसे अपने पढ़ने/पढ़ने के समय का 50 प्रतिशत लिखने में समर्पित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब आप कुछ लिखते हैं तभी आप उसे सही मायने में समझते हैं। उन्होंने उनसे अन्य छात्रों की गति से न घबराने को कहा। प्रधानमंत्री

अधिकतम तापमान 15°C	न्यूनतम तापमान 1°C
बाजार	
सोना 64,505	चांदी 78,800
संसेक्स 71,947	निफ्टी 21,737
संक्षिप्त खबरें	

अरमाने ओमान की दो दिन की यात्रा पर जायेंगे

नई दिल्ली। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने मंगलवार को दो दिन की ओमान यात्रा पर जायेंगे। रक्षा सचिव अरमाने ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉ. मोहम्मद बिन बतौर बिब अली अल-जाब्री के साथ 12वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान श्री अरमाने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उद्योग क्षेत्र में सहयोग जैसी नई पहलों की संभावना को तलाशेंगे। दोनों नेता साझेदारी वाले क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के हर क्षेत्र जैसे कि द्विपक्षीय अभ्यास, स्टाफ वार्ता, प्रशिक्षण के साथ-साथ नए और उभरते क्षेत्रों में रक्षा सहयोग व रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत और ओमान के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं जो रक्षा तथा सुरक्षा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों तक फैले हैं। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संपूर्ण क्षेत्र की शांति और समृद्धि में दोनों देशों के साझेदारी हैं।

राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 15 राज्यों से राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल आगामी अप्रैल में समाप्त हो रहा है। आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की सोमवार को घोषणा कर दी। चुनाव के लिए अधिसूचना 8 फरवरी को की जायेगी। नामांकन 15 फरवरी तक दायर किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को की जायेगी और उम्मीदवारों का अंतिम दिन 20 फरवरी को होगा। आयोग के अनुसार मतदान 27 फरवरी को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतों की गिनती 27 फरवरी को ही शाम पांच बजे की जायेगी। समूची चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी तक संपन्न होगी। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों को 3-3, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की एक-एक सीट के लिए चुनाव होगा।

बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे राजद सुप्रीमो

नौकरी के बदले जमीन मामला

लालू यादव से ईडी ने की पूछताछ

प्रातः किरण

पटना/एजेंसी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से सोमवार को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाळा मामले में ईडी की विशेष टीम ने पटना गांधी मैदान की इलाके के जनरल कार्यालय में करीब 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। सोमवार सुबह 11 बजे लालू प्रसाद अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ कार्यालय पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईडी कार्यालय में लालू को प्रवेश कराने के बाद भारती ने संवाददाताओं से कहा, जब भी कोई केंद्रीय जांच एजेंसी हमारे परिवार के किसी सदस्य को पूछताछ के लिए बुलाती है तो हम वहां जाते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं और उनके सभी सवालों का जवाब देते हैं। उन्होंने कहा, उनकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण उनके लिए अकेले जाना



मुश्किल है, यही कारण है कि जब भी वह कहीं जाते हैं तो किसी को उनके साथ जाना पड़ता है। उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के सवाल पर भारती ने कहा, बेहतर होगा कि आप उनसे पूछें। कहने के लिये कुछ नहीं बचा। सिंगापुर में रह रही लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी

आचार्य ने दावा कि उनकी बहन भारती के बार-बार अनुरोध के बाद भी ईडी अधिकारियों ने राजद प्रमुख के किसी भी सहायक को केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में प्रवेश करने और उनके साथ जाने की अनुमति नहीं दी। आचार्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, सब को पता है पापा की हालात बिना सहारे चल नहीं सकते फिर भी ईडी के अधिकारियों ने किसी भी सहायक को अपने कार्यालय

में प्रवेश करने और उनके साथ जाने की अनुमति नहीं दी। अनुरोध करने के बाद भी बहन मीसा या उनके सहायक को नहीं जाने दिया... कृपया आप लोग मेरी मदद करें। उन्होंने कहा, यह ईडी अधिकारियों द्वारा अमानवीय व्यवहार है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाळा मामले में राजद नेता से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम रविवार को पटना पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 19 जनवरी को मामले के संबंध में लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया था। ईडी द्वारा पटना स्थित राजद प्रमुख की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर समन सौंपा गया था। दोनों को क्रमशः 29 और 30 जनवरी को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। ईडी ने हाल ही में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दायर किया था।

हेमंत के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचा ईडी का दल

प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय का एक दल धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले में 20 जनवरी को सोरेन से रांची में उनके आधिकारिक आवास पर पूछताछ की थी और उन्हें इस सप्ताह पूछताछ के लिए नया समन जारी किया था। सूत्रों ने संकेत दिया कि इस नए पटनाक्रम को धनशोधन मामले की जांच से जोड़कर देखा जा सकता है। संघीय जांच एजेंसी के अधिकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नरों के साथ सुबह करीब नौ बजे दक्षिण दिल्ली में 5/1 शांति निकेतन भवन पहुंचे और इस दौरान कई प्रेस फोटोग्राफर, पत्रकार और कैमरा टीम बाहर खड़ी थीं। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने सोरेन को पिछले हफ्ते नया समन जारी किया था और उनसे यह बताने को कहा था कि वह पूछताछ के लिए 29 जनवरी या 31 जनवरी में से किस दिन आएंगे। सूत्रों के मुताबिक, सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र भेजा था, लेकिन पूछताछ के लिए तारीख और समय को



पुष्टि नहीं की थी। वह 27 जनवरी को रांची से दिल्ली रवाना हुए थे। केंद्रीय एजेंसी ने 20 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुख्यमंत्री का बयान उनके आधिकारिक आवास पर दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, ताजा समन इसलिए जारी किया गया क्योंकि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हुई थी। निदेशालय ने कहा कि यह जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन से जुड़े एक बड़े गिरोह से संबंधित है। ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी खर्व रंजित भी शामिल हैं। वह राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।

इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा : कांग्रेस

प्रातः किरण

किशनगंज/एजेंसी। कांग्रेस महासचिव जयशम रमेश ने सोमवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने से विपक्षी गठजोड़ इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किशनगंज में संवाददाताओं से बातचीत में रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, इसका इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं

पड़ेगा। रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि विश्वासघात की पूरी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रची गई थी। उन्होंने कहा, जब 14 जनवरी को मणिपुर के थैबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने मिलिंद देवरा को कांग्रेस से हटाने के लिए मुहूर्त तय किया। इसलिए, सुर्खियां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बजाय मिलिंद देवरा बन गईं। रमेश ने आरोप लगाया, उनकी भाजपा नजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार के किशनगंज में प्रवेश करने पर थी। इसलिए उन्होंने पलटी मारने में महारत रखने वाले नीतीश कुमार को पाला बदलने के लिए कहा उन्होंने ऐसा ही किया।

इंडिया गठबंधन में विश्वास की भारी कमी : भाजपा

प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वापस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का कारण बताते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन में विश्वास की कमी थी। जब गठबंधन पार्टी को एक-दूसरे से बात करनी चाहिए थी, तब कांग्रेस अपनी यात्रा में व्यस्त थी। कांग्रेस ने अपना पुराना आकर्षण खो दिया है लेकिन उसका अहंकार अभी भी चरम पर है। उन्होंने



कहा कि बिहार में जिस तरह से कानून-व्यवस्था चरमरा गई थी, उससे नीतीश कुमार नाखुश थे। जिस तरह से बिहार में जंगलराज की वापसी हो रही थी। लूटपाट, हत्या, बलात्कार, अपहरण और अन्य घटनाएं बढ़ रही थीं, इन चीजों को होने देने को उनकी भी एक सीमा है।

5 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र रद्द

एनडीए सरकार की पहली बैठक में तारीख को आगे बढ़ाया गया

प्रातः किरण

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में चार एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की पहली से तय तारीख को रद्द कर दिया गया। अब नई तारीख रई सरकार लगी करेगी। जिन चार एजेंडों पर मुहर लगी उसमें संसदीय कार्य से दो और वित्त विभाग के दो रहे। कैबिनेट की बैठक में पहले से तय 5 फरवरी को होने वाले बजट सत्र को आगे बढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कैबिनेट की पहली

बैठक शुरू होने से पहले उपमुख्यमंत्री स्मरत चौधरी सीएम नीतीश के ऑफिस में पहुंचे और उनसे बातचीत की। सचिवालय में लगे राजद व कांग्रेस के मंत्रियों के नेम प्लेट हटा दी गई है। जेडीयू के पुराने मंत्रियों के नेम प्लेट को हटा दिया गया है। तेजस्वी यादव के बंगले के बाहर लगी डेय्यूटी सीएम की नेम प्लेट को भी हटा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री विजेंद्र कुमार यादव, मंत्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री संतोष कुमार सुपन, डॉक्टर प्रम कुमार भी मौजूद थे। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सभा सचिव को दिया है।

संबोधन

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रैली को संबोधित करते हुए बोले, कांग्रेस नेता नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं : राहुल

कहा-आरएसएस और भाजपा की विचारधारा देश में हिंसा और नफरत फैला रही है

प्रातः किरण

किशनगंज/एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत किशनगंज में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग शासन के दौरान विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग आपस लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा देश में हिंसा और नफरत फैला रही है। गांधी ने कहा, वे आरएसएस और भाजपा को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर आपस में लड़ने के लिए उकसाते हैं। भाई-भाई



से लड़ रहे हैं उन्होंने (आरएसएस और भाजपा देश में यही माहौल बना दिया है। हम लोगों को एकजुट करने के लिए काम करते हैं हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना

चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहां बिहार आया हूँ। जब मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और 4000 किमी की यात्रा की,

तो कई लोगों ने कहा कि हमारी यात्रा उस भूमि पर नहीं गई, जो सामाजिक न्याय के लिए जानी जाती है। उन्होंने मुझसे पूर्वोत्तर क्षेत्र से महाराष्ट्र तक एक और यात्रा करने के लिए कहा और मैंने स्वीकार कर लिया और भारत जोड़ो यात्रा में न्याय जोड़कर मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। किशनगंज पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के प्रदेश इकाई के नेताओं के आग्रस की पार्टी के गठबंधन सहयोगियों राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के महासचिव दीपाकर भट्टाचार्य को पूर्णिया की रैली में आमंत्रित किया गया है।

गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की किशनगंज जिले के बाद मंगलवार को निकटवर्ती जिले पूर्णिया और फिर एक दिन बाद बुधवार को कटिहार में रैली होगी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि राहुल गांधी बहुस्पर्तिवार को अररिया जिले के रास्ते पश्चिम बंगाल रवाना होंगे और कुछ दिनों बाद झारखंड के रास्ते फिर बिहार लौटेंगे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के नेताओं के आग्रस की पार्टी के गठबंधन सहयोगियों राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के महासचिव दीपाकर भट्टाचार्य को पूर्णिया की रैली में आमंत्रित किया गया है।

2025 में बिहार में एनडीए की बनेगी सरकार : सम्राट

- डबल इंजन की सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी : विजय
- सुशासन और कानून का राज भाजपा की प्राथमिकता : प्रेम

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भाजपा दूसरी मां के समान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जदयू की ओर से समर्थन मांगा गया और दूत भी भेजा, इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद प्रदेश भाजपा ने सरकार को समर्थन दिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मंत्री प्रेम कुमार ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। श्री



चौधरी ने प्रश्नकारों के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भाजपा मेरी दूसरी मां के समान है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मेरी जन्म देने वाली मां जब हम सभी को छोड़कर जा रही थी तब मैंने मुझे छोड़ दिया था। उस समय शीर्ष नेतृत्व ने मुझे विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने खुद को कमोटेड व्यक्तित्व वाला कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उस समय मैंने

लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था। सरकार में रहने वाला दल अपनी ही सहयोगी पार्टी जदयू को 2024 तक समाप्त होने की बात कह रही थी। उन्होंने भरोसा देते हुए कहा कि हम सभी लोग मिलकर विकास का कार्य करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास को बढ़ाने और अर्थरूप सपने को पूरा करने का काम होगा। उन्होंने कहा कि 2020 के जनमत के बाद जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वह फिर वापस आ गई है। उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर भरोसा देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जे पी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बिहार विकास की ओर तेजी से अग्रसर होगा और 2024 में 40 की 40 सीटें एनडीए को और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। इधर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में जो परिवर्तन हुआ

है उससे भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व पर पूरे बिहार और भाजपा के कार्यकर्ता को विश्वास है। आज ये लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को जिस रास्ते पर लेकर राजद के लोग चले थे उससे भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व ने बचा लिया। उन्होंने कहा कि राजद की मानसिकता बिहार में अराजकता पैदा करना, सामाजिक उन्माद फैलाना, जंगलराज को गुंडाराज में तब्दील करना, अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ाने का था। आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर यह समझें कि जनादेश सुशासन, शांति, सामाजिक सौहार्द के लिए है, इसे हमें मजबूत करना है। विकास की गति को डबल इंजन की सरकार मिलकर बढ़ाएगी। केन्द्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि हमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यह अवसर पूरी तरह सेवा का है

और मेवा खाने वाली मानसिकता को समाप्त करने का है। उन्होंने कहा कि वह वातावरण बनाना है जहां बिहार में रचनात्मक और विकासवादी माहौल को खड़ा करना है। इधर, मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि 2020 में बिहार में जनादेश एनडीए को मिला था। बीच में नीतीश कुमार अलग हो गए थे, लेकिन अब नीतीश जी ने सही कदम उठाया है, जिसका स्वागत है। हम सभी मिलकर बिहार को विकास करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हो रहा है और अब बिहार में भी डबल इंजन की सरकार हो गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन और कानून का राज रहे, यही भाजपा की प्राथमिकता है। इस प्रसंग वार्ता में विधान परिषद संजय मयूख, प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता मनोज शर्मा और प्रदेश मीडिया संयोजक दानिश इकबाल भी उपस्थित रहे।

अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश का काम पूरे देश के लिए नजीर : बशिष्ठ

- जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अकलियता बेदारी कारवाा को झंडी दिखाकर किया रवाना

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य बशिष्ठ नारायण सिंह ने सोमवार को पटना स्थित अपने आवास से जदयू नेता एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मो परवेज सिद्दीकी के नेतृत्व में निकलने वाले अकलियता बेदारी कारवाा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रभुनाथ राम, जदयू के प्रदेश महासचिव जयदेव नजम, जदयू अल्पसंख्यक सचिव प्रकाश के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश त्यागी, जदयू नेता तबरेज सिद्दीकी, इरफान अहमद, नुरुल होदा, मो. मिर्जा अहमद, अख्तर अंसारी, अताउर रहमान (मुख्या), मो फेज अहमद, मौलाना सुल्तान रजा कादरी, मौलाना मकबूल अली, शकील अंसारी पूरण सिंह आदि मौजूद रहे। श्री बशिष्ठ नारायण सिंह ने



इस मौके पर हाजी मो परवेज सिद्दीकी एवं उनकी टीम को शुभकामना देते हुए कहा कि यह बेहद खूशी की बात है कि अल्पसंख्यकों के बीच जागरूकता लाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों, खासकर अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में हुए कार्यों को उन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण उत्थान के लिए बिहार में जो किया वह पूरे देश के लिए नजीर है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो, अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं

के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना हो, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था हो ए ये तमाम कार्य श्री नीतीश कुमार ने ही किए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो बजट 2004-05 में मात्र 3.45 करोड़ रु. था, वो 2022-23 में 200 गुणा से भी अधिक बढ़कर 700 करोड़ रु. हो गया। श्री बशिष्ठ नारायण सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में तालीमी परकज द्वारा अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, महरसों का आयुधनिकरण, अल्पसंख्यक समाज की बैठियों के

7 निश्चय के तहत दी गयी लाखों नौकरियां : राजीव

पटना, राजद पर पलटवार करते हुए

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज कहा है कि सता से बेदखल होते ही राजद का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। यही वजह है कि यह लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों के तहत किये गये कामों तक का श्रेय लेने के असफल प्रयास करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि 2020 में नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरियों और 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया था। जिसपर पहले दिन से ही सरकार ने तत्परता से काम शुरू कर दिया था। इसी निश्चय के तहत बिहार में शिक्षा, पंचायती राज, स्वास्थ्य, पुलिस आदि विभागों में लाखों युवाओं को नौकरियां दी गयीं। युवाओं को मिलने वाला यही फायदा राजद नेताओं को चुभने लगा था। राजद की पोल खोलते हुए जदयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार का बच्चा-बच्चा जानता है कि राजद के नेता किस तरह जमीन के बदले नौकरियों देने में विश्वास करते हैं। नीतीश सरकार में मिल रही लाखों नौकरियों के बदले हजारों एकड़ जमीन मिलने की उम्मीद थी। लेकिन नीतीश सरकार ने इनके इन्हीं मसूखों को भांपते हुए, बीपीएससी के



जरिये शिक्षकों की बहाली कवा कर इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें समझ में आ गया कि नीतीश कुमार जैसे ईमानदार व्यक्ति के मुखिया रहते युवाओं से जमीन लिखवाने का इनका सपना कभी कामयाब नहीं होने वाला। इसीलिए इन्होंने जदयू को तोड़ने के षड्यंत्र शुरू कर दिए। खुद का राज स्थापित कर युवाओं को लूटने के लिए इन्होंने एडी-चौटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन इनकी दाल गली नहीं। आज यह लोग अपनी इसी नकारात्मक राजनीति का परिणाम भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका दिमाग खुला नहीं है। नीतीश के निर्णयों का श्रेय लेने के इनके असफल प्रयास यह दिखाते हैं कि इनकी आगे की राजनीति सिर्फ झूठे प्रोपेगंडा पर चलने वाली है।

नफरत की दुकान चलाने आए हैं राहुल गांधी:मंगल

- सीमांचल की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नफरत के सौदागर हैं। श्री गांधी मणिपुर के बाद बिहार में अपनी नफरत की दुकान चलाने आए हैं। केन्द्र सरकार की कुशल रणनीति के बाद मणिपुर में संघर्ष पर विराम लगा। मगर राहुल गांधी उसे पुनः भड़का कर अपनी दुकान दर्ज की राजनीति चमकाने भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गए थे। अब बिहार में अल्पसंख्यकों के बीच नफरत के बीज बोने की कोशिश करने सीमांचल पहुंचे हैं। पूर्णिया में अपनी सभा में श्री गांधी ने अल्पसंख्यकों को बरगलाने की हरसंभव कोशिश की। वे कितनी भी कोशिश कर लें, आगामी लोकसभा चुनाव में उनके लिए नो वैकेंसी है। हाल यह है कि एक-एक कर इंडी



गठबंधन के लोग बाहर निकल रहे हैं। श्री पांडेय ने कहा कि कांग्रेस नेता को बिहार में हुए सियासी फेरबदल, सत्ता परिवर्तन और ताजा सियासी हाल पर कोई जबाब देते नहीं बन रहा। उनकी पार्टी और इंडी गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कई विधायक पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। बावजूद उसके श्री गांधी खुद को कमियां छोड़ दूसरों की कमियां गिना रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस प्रकार कांग्रेस ताने मान रही है। जिस प्रकार अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रही है। यह उनकी दिशाहीन राजनीतिक

अपरिपक्वता को दर्शाता है। इंडी गठबंधन से जिस प्रकार टिएमसी व जदयू ने किनारा कर लिया। वहीं आप भी पंजाब में गठबंधन करने से इंकार कर चुकी है। उसी प्रकार देश की जनता भी राहुल गांधी से किनारा कर चुकी है। जो पार्टी अपने सहयोगियों को संभाल नहीं सकती, वह देश क्या संभालेगी? श्री पांडेय ने कहा कि बिहार की जनता जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा के साथ खड़ी है। आज समाज का हर तबका केन्द्र की विकास की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। बिहार में युवा पीएम मोदी के नेतृत्व में नये सपने देख रहा है। मगर राहुल गांधी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता राहुल के विचारों को पहले ही नकार चुकी है। उनकी सियासी जमीन बिहार ही नहीं पूरे देश से खिसक चुकी है। सीमांचल की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है।

जनता का विश्वास राजद में था, है और रहेगा : करुणा

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. करुणा सागर ने कहा कि एनडीए गठबंधन में शामिल होकर सीएम ने जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खतम कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो भाजपा कड़े शब्दों में कहती थी कि उनके लिए उसकी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, अब उनकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों? डॉ. सागर ने कहा कि मुख्यमंत्री 2022 में महागठबंधन में आने से पहले तेजस्वी

यादव के बिहार के युवाओं को नौकरा करने थे। उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीनों में बिहार के विकास में जो ऐतिहासिक काम हुआ, उतना देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के परिणामस्वरूप बिहार में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले और पर्यटन नीति 2023 से बिहार में निवेश के रास्ते खुले। इसके साथ ही आईटी व स्पेसट्रंस पालिसी सॉफ्ट को और जाति आधारित जनगणना संपन्न हुई। राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि जो मुख्यमंत्री

2020 में मिशन मोड में तेजस्वी यादव की के नौकरा देने के एजेंडे पर हंसा करते थे, उप मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव जी ने उन्हीं से नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि राजद का एजेंडा नौकरा, रोटी, रोजगार, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था और जमीनी मुद्दों पर आधारित है और सरकार में रहते राजद ने जो कहा, वो करके दिखाया, इसलिए बिहार में जनता का विश्वास राजद में था, है और रहेगा।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज में किया प्रवेश, प्रदेश कांग्रेस ने किया स्वागत

राहुल बोले- आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता



पटना, प्रातः किरण संवाददाता

- पूर्णिया में आज और कटिहार में कल होगी रैली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश किया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में राहुल गांधी का स्वागत किया। यह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के बाद गांधी की पहली बिहार यात्रा है। यात्रा के बिहार पहुंचने पर जगह-जगह सड़क किनारे, फ्लाइंगोवरों और घर की छतों पर खड़े हजारों की संख्या में लोगों ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। जगह-जगह हजारों की संख्या में युवा और बच्चे नारे लगाते हुए यात्रा के साथ-साथ दौड़ते हुए नजर आए। सोमवार को यात्रा बिहार के किशनगंज और अररिया से गुजरती। इस दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक

ने नेतृत्व किया है। जब सामाजिक न्याय की बात होती है, तो पूरा देश बिहार की ओर देखता है। इसलिए आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना बिहार के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश की प्रगति के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिहार की जनता से बेहतर कोई नहीं समझता है। इधर, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बताया कि गांधी का किशनगंज में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जिसके बाद मंगलवार को निकटवर्ती जिले पूर्णिया में एक बड़ी रैली और एक दिन बाद कटिहार में एक और रैली होगी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि राहुल गांधी बहुसंख्यक को अररिया जिले के रास्ते पश्चिम बंगाल रवाना होंगे और कुछ दिनों बाद झारखंड के रास्ते फिर बिहार लौटेंगे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के नेताओं ने अनुसार, बिहार में पार्टी के गठबंधन सहयोगियों राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और भाकपा माले के महासचिव दीपाकर भट्टाचार्य को पूर्णिया की रैली में आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस नेता प्रेम चंद्र मिश्रा ने 22 जनवरी को बताया था कि जद-यू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी पूर्णिया में आयोजित रैली के दौरान राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेगे लेकिन न्याय यात्रा के बिहार में प्रवेश करने से एक दिन पहले ही नीतीश राज्य में महागठबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाता तोड़कर राज में चले गए।

कांग्रेस मुख्यालय में मनी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डूमर बैठा की जयंती



दिलित, अल्पसंख्यक, महिला एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिये कई कार्यक्रम चलाये। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस पूर्व विधायक लाल बाबु लाल, हरखू झा, ब्रजेश प्रसाद मुनन, डॉ विनोद शर्मा, राम विनय सिंह, रेणु बिहारी लाल, नलिन कुमार, राज कुमार झा, रमेश कुमार, नीलू कुमारी, बबिता लाल, शोभा देवी, दशरथ सिंह, कमल साव, आलोक टाकुर आदि कांग्रेसजनों ने स्व बैठा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

पटना। पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डूमर लाल बैठा की 99 वीं जयंती आज प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मुख्यालय सड़कत आश्रम पटना में मनायी गयी। इस अवसर पर स्व डूमर लाल बैठा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री, केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समाज के

कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय उद्यान प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या - 4 वर्ष- 2023-24

भवन निर्माण विभाग के निबंधित संवेदकों/ख्याति प्राप्त फर्म/कंपनी से दिनांक 05.02.2024 के अपराह्न 12:00 बजे तक निदेशानुसार आपूर्ति कार्य के लिए मुहरबंद कोटेशन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना का कार्यालय एवं अयोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा और उसी दिन 1:30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।

क्र०	कार्य का नाम	प्रकल्पित राशि (लाख रु० में)	अग्रदान की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मू० (रु० में) (अप्रत्यक्षगीय)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	S/R to Main Building Internal Surface Outer C/Wall and Ext. Building of Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	13.57	27,200=00	2,500=00	01 माह
2	Renovation of Proposed Building Brick Work, 2 Column etc. in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	14.30	28,600=00	2,500=00	01 माह
3	Renovation of Proposed Building UPVC Window, Door, Floor Tiles etc. in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	14.34	28,700=00	2,500=00	01 माह
4	Renovation of Truss Work in Residence No.- 31 Proposed Building at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	10.28	20,600=00	2,500=00	01 माह
5	Renovation of Wardrobe, Wall Mounted Storage in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	7.57	15,200=00	1,250=00	01 माह
6	Renovation of Proposed Building Internal Surface, Wall Putty, Wall Panelling, Tiles Work in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	11.91	23,900=00	2,500=00	01 माह
7	Renovation of Back Guard Room, Grill Cover, Shed, Boundary Raised in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	13.65	27,300=00	2,500=00	01 माह
8	Renovation of Parking Shed West Side in Campus in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	10.71	21,500=00	2,500=00	01 माह

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना का कार्यालय अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 99 वर्ष 2023-24

- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना।
- परिमाण-विपत्र विक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 07.02.2024 को 12:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 08.02.2024 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 08.02.2024 को 03:30 बजे अपराह्न।
- परिमाण विपत्र विक्री का स्थान : (क) अंचल कार्यालय, दक्षिण बिहार भवन अंचल, पटना। (ख) प्रमंडल कार्यालय, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना। (ग) संबंधित अवर प्रमंडल कार्यालय।
- निविदा प्राप्ति का स्थान : क्रमांक (5) के वर्णित स्थान (क) एवं (ख) पर।
- कार्य का विवरण :-

क्र०	कार्य का नाम	प्रकल्पित राशि (लाख रु० में)	अग्रदान की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मू० (रु० में) (अप्रत्यक्षगीय)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	S/R to Main Building Internal Surface Outer C/Wall and Ext. Building of Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	13.57	27,200=00	2,500=00	01 माह
2	Renovation of Proposed Building Brick Work, 2 Column etc. in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	14.30	28,600=00	2,500=00	01 माह
3	Renovation of Proposed Building UPVC Window, Door, Floor Tiles etc. in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	14.34	28,700=00	2,500=00	01 माह
4	Renovation of Truss Work in Residence No.- 31 Proposed Building at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	10.28	20,600=00	2,500=00	01 माह
5	Renovation of Wardrobe, Wall Mounted Storage in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	7.57	15,200=00	1,250=00	01 माह
6	Renovation of Proposed Building Internal Surface, Wall Putty, Wall Panelling, Tiles Work in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	11.91	23,900=00	2,500=00	01 माह
7	Renovation of Back Guard Room, Grill Cover, Shed, Boundary Raised in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	13.65	27,300=00	2,500=00	01 माह
8	Renovation of Parking Shed West Side in Campus in Residence No.- 31 at Harding Road, Patna for the year 2023-24.	10.71	21,500=00	2,500=00	01 माह

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

संक्षिप्त खबरें

अज्ञात वाहन की टोकर से एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से जख्मी कल्याणपुर, समस्तीपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर मोर के समीप अज्ञात वाहन की टोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वही अज्ञात वाहन भागने में सफल रहा। जख्मी व्यक्ति की पहचान सिंधिया गांव निवासी संजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। वही जख्मी व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए पीएससी कल्याणपुर में भर्ती कराया। जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए सरदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर करने की बात कही है। वही पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

बागमती नदी किनारे से शव को पुलिस ने किया बरामद

कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बलुआहा गांव के समीप से सोमवार की दोपहर बागमती नदी में उपलता हुआ एक किशोरी का शव पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि काफी देर तक शव की पहचान नहीं हुई थी। बताया गया की नाव से लोग नदी पर कर रहे थे इसी दौरान उन्होंने बागमती नदी में एक शव उपलता हुआ देखा। इसके बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। गांव के लोगों ने सोशल मीडिया पर किशोरी के शव की तस्वीर शेयर की थी। इसके बाद फोन पर एक युवक ने शव की पहचान की। बताया गया कि शव की पहचान दरभंगा जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतर्गत रहने वाली एक किशोरी के रूप में हुई है। लोगों के अनुसार संभावना व्यक्त की गई है कि किशोरी का घर नदी किनारे है। सुबह में परिजन किसी काम से घर से बाहर निकल थे। जिस कारण किशोरी भी पीछे-पीछे निकलकर नदी किनारे चली गई होगी और नदी में डूब गई होगी। वहीं थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि सूची केस दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है।

भारत को स्थापित करने में गांधीजी का अहम योगदान रहा

दरभंगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा देशवासियों ने सही नहीं दिया है। गुलाम राष्ट्र को अंग्रेजों के बंधन से मुक्त बनाने एवं स्वतंत्र देश के तौर पर भारत को स्थापित करने में गांधीजी का अहम योगदान रहा है। ये बातें शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर डॉ प्रभात दास फाउण्डेशन के द्वारा आयोजित संगोष्ठी सभ भाषण प्रतियोगिता में मध्य विद्यालय, बागलागढ़ के एचएम अशोक कुमार ने कही। उन्होंने भारत निर्माण में महात्मा गांधी की भूमिका विषय को स्पष्ट कर बताया कि सत्य व अहिंसा के आदर्श को माध्यम बनाकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई पहचान दी। फिर जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो गांधीजी ने एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र को स्थापित किया। इससे पूर्व भाषण प्रतियोगिता में वर्ग छह, सात एवं आठ के 37 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागी बच्चों ने मोहनदास करमचंद गांधी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनने के जीवन संघर्ष को अभिव्यक्त किया और बताया कि भारत देश की आबोहवा सदैव गांधीजी का ऋणी रहेगा। उत्कृष्ट विचार अभिव्यक्ति के लिए सातवीं कक्षा के शुभम कुमार को प्रथम, आठवीं के शिवम पाठक को द्वितीय और सातवीं की खुशी कुमारी को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। जबकि नैना कुमारी, अभिलाषा कुमारी, चंद्र कुमारी मंडल, तान्या कुमारी, गीताजित कुमारी, ऋतु कुमारी, डॉली कुमारी एवं खुशी कुमारी को चतुर्थ से 12 वें स्थान के लिए पुरस्कार मिला। मौके पर शिक्षिका श्वेता कुमारी, मधु कुमारी, निभा कुमारी, उमेश कुमारी शर्मा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन फाउण्डेशन के अनील सिंह ने किया।

राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में कहीं खुशी कहीं गम

कुशेश्वरस्थान दरभंगा: कुशेश्वरस्थान दोनों प्रखंड में सुबे में सत्ता परिवर्तन को लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बना हुआ है। भाजपा एवं जयसू कार्यकर्ताओं ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम को देश एवं राज्य के हित में लिए गए निर्णय को सही बताया। वहीं माहगठबंधन खास कर राजद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मणि कांत झा ने कहा कि विगत डेढ़ साल से विकास की गति जो रुक गई थी। वह एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के नेतृत्व में तेजी से विकास होगा। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष धनश्याम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्य की गति एक बार फिर तेजी से शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर कुशेश्वरस्थान एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के जदयू अध्यक्ष क्रमशः जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार राय एवं राजेश कुमार राय ने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया।

बदमाशों ने ई-रिक्शा सवार महिला को गोली मारकर किया गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर रिश्तेदार पर लगा साढ़े 13 धुर जमीन के विवाद में गोली मारने का आरोप

समस्तीपुर, प्रातः किरण संवाददाता

पुलिस के तमाम दावों के बीच बदमाश हत्या, लूट व गोली मारकर घायल कर दिए जाने की घटना को सरेआम अंजाम दे रहे हैं। वहीं कई मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। इस कारण बदमाशों का मोबला सातवें आसमान पर है। एक ताजा घटनाक्रम में सोमवार की सुबह बदमाशों ने नगर थाना क्षेत्र के मालगोदाम चौक के पास ई-रिक्शा सवार एक महिला को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसे उसके साथ बैठी हुई उसकी बेटी ने ई-रिक्शा से उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। घटना सुबह के 10 बजे के आसपास की बताई गई है। बदमाशों ने महिला के दाहिने हाथ में गोली मारी है। जिसका सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घायल महिला की पहचान मधुपुरा ओपी के नागरबस्ती वार्ड सात के मो.



कोसिम की पत्नी शमीना खातून के रूप में हुई है। घटना के पीछे साढ़े 13 धुर जमीन का विवाद बताया जा रहा था। वहीं घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर मामले को छानबीन में जुटी हुई थी। घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर

पहुंची महिला की बेटियों ने बताया कि शमीना खातून अपनी बड़ी बेटी के ससुराल बिनशुनपुर गई हुई थी। जहां से वह सोमवार की सुबह में बिनशुनपुर चौक से ई-रिक्शा पकड़कर वापस लौट रही थी। ई-रिक्शा में पहले से कुछ लोग सवार थे। मालगोदाम चौक के पास पहले से बाइक लगाकर दो मां गोली मार दिया और पीछे पहले

से खड़ी अपनी बाइक से फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि शमीना खातून का मायका मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के केवस निजामत भट्टी चौक पर है। वहां शमीना खातून के हिस्से का साढ़े 13 धुर जमीन था जिसे उसने काफी पहले किसी के हाथों बेच दिया था। उस जमीन में महिला के मायके के रिश्तेदार अपना हिस्सा बता रहे थे और इस सम्बन्ध में मुफ्फसिल थाने में आवेदन भी दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि उसी जमीन विवाद को लेकर महिला के रिश्तेदार ने गोली मारकर महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। शहर में खुलेआम इस तरह की घटना होने के बाद लोग पुलिस की गश्ती पर सवाल उठा रहे थे। वहीं इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि घटना की सूचना के बाद घायल महिला का कराया गया है। घटना के पीछे पूर्व से चले आ रहे जमीन का विवाद बताया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

बिहार के अमन पसंद लोग मजबूती के साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ हैं खड़े : राकेश ठाकुर

समस्तीपुर, प्रातः किरण संवाददाता

जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अपने वादे के मुताबिक बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। उन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं और युवतियों को चार लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया। जातिगत गणना करा कर आरक्षण की सीमा को बढ़ावा। स्वास्थ्य सेवा में सुधार कराया। बिहार के युवाओं के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना लागू कराया। विकास मित्र, टोला सेवक और तालीमी मरकज का मानदेय को बढ़ावा। शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था हेतु राशि आवंटित किया। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पंच, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया तथा जिला पार्षदों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि कराया। राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव 14 करोड़ बिहारवासियों के लिए काम कर रहे थे, जो नीतीश कुमार को रास नहीं आया। बिहार के अमन पसंद लोग मजबूती के साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं और 2025 में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि राजद तथा कांग्रेस के मंत्रियों ने विगत 17 महीने में बिहार में इतना ज्यादा काम किया जो विगत 17 वर्षों में भी जदयू-भाजपा गठबंधन की सरकार नहीं कर सकी। राजद प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का युवाओं को रोजगार देना तथा अपने किये गए सभी वादा को पूरा करना नीतीश कुमार को रास नहीं आया व तेजस्वी यादव को बढती लोकप्रियता से घबरा कर पला बला बल लिया। इतिहास नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगा।



महिला थानाध्यक्ष व घटहो ओपी अध्यक्ष समेत 35 दारोगा की बदली

समस्तीपुर, प्रातः किरण संवाददाता

समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी के द्वारा महिला थाने की थानाध्यक्ष पुष्पलता समेत जिले के विभिन्न थानों में कार्यरत 35 दारोगा के थानों में बदलाव किया गया है। इसमें नगर थाना में कार्यरत एसआई आफताब आलम को रोसड़ा एसआइ आफ थाना अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एसआई भगत प्रसाद यादव को मुफ्फसिल से विभूतिपुर, एसआई अशोक कुमार मिश्रा को मुफ्फसिल से उजियारपुर, एसआई उमाशंकर कुमार सिंह को ताजपुर से हसनपुर, एसआई राजेश कुमार को ताजपुर से विद्यापतिनगर, एसआई जयनन्द शर्मा को ताजपुर से विभूतिपुर, एसआई प्रमोद कुमार को तैजपुर, एसआई शशि भूषण प्रसाद को रोसड़ा थाना से मुफ्फसिल थाना, एसआई मनीष कुमार को रोसड़ा से तैजपुर, हसनपुर थाना के एसआई अजीत कुमार त्रिवेदी को पुलिस केंद्र, एसआई योगेंद्र सिंह को हसनपुर थाना से नगर थाना, एसआई विजय कुमार

सिंह को हसनपुर से मुफ्फसिल, एसआई उमेश प्रसाद सिंह को विभूतिपुर से महिला थाना, एसआई विनोद कुमार राय को विभूतिपुर से ताजपुर, एसआई मनोज कुमार को विभूतिपुर से कल्याणपुर, एसआई आफताब अहमद खां को दलसिंहसराय से बंगरा, एसआई पंकज कुमार सिंह को उजियारपुर से वैनी ओपी, एसआई राधा मोहन पासवान को उजियारपुर से ताजपुर, एसआई शंभु कुमार सिंह को अंगारघाट से कल्याणपुर, एसआई मनीष कुमार चौधरी को अंगारघाट से वारिसनगर, एसआई सुरेश पासवान को विद्यापतिनगर से महिला थाना, घटहो ओपी अध्यक्ष चंद्र भूषण को नगर थाना, एसआई लालकृष्ण यादव को पटोरी से ताजपुर एवं एसआई विषद विश्वास को मोहनपुर ओपी से कल्याणपुर थाना भेजा गया है। इन्हे अविलंब अपने नए थानों में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

ससुराल से वापस लौट रहे युवक की पिकअप की टोकर से मौत



समस्तीपुर, प्रातः किरण संवाददाता

समस्तीपुर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के चक्रनूर पुल के पास सोमवार की सुबह एक तेज रफतार पिकअप की टोकर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कपूरिया थाना क्षेत्र के बेला चकहाजी वार्ड पांच के जीरुध पासवान के पुत्र लालन पासवान (30 वर्ष) के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बिनशुनपुर पंचायत के दरियापुर गांव

स्थित अपने ससुराल में आयोजित एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गया हुआ था। सोमवार की सुबह वहां से अपने घर लौट रहे दौरान वह चक्रनूर में हादसे का शिकार हो गया। जिसे लोगों के द्वारा सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि युवक ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता था। वहीं इस घटना की सूचना के बाद पहुंचे मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ था। वहीं संबंध में मुफ्फसिल थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शव को जब को पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना के संबंध में आवेदन मिलने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

40 चयनित महिला किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया सबौर



प्रातः किरण संवाददाता

मधेपुरा मशरूम की खेती को लेकर जिले भर से चयनित की गई 40 महिला किसानों के दल को आत्मा योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए रविवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भेजा गया है। किसानों के दल को जिला कृषि पदाधिकारी पूनम कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों के दल को सबौर रवाना करने के मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी पूनम कुमारी ने कहा कि मशरूम की खेती किसानों के

निश्चित रूप से मशरूम की खेती करनी चाहिए। मशरूम की खेती को लेकर कृषि विभाग लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। वहीं मशरूम की अल्पधिक मांग होने की वजह से इसमें आने वाली लागत से काफी अधिक आमदनी होती है। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि मशरूम में कई तरह के औषधीय गुण होने की वजह से हाल के वर्षों में इसकी मांग काफी अधिक बढ़ी है। ऐसे में महिला किसानों को आगे आकर मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण लेकर इससे जुड़ना चाहिए।

सेवा निवृत्त टोला सेवक शिक्षक को विदाई किया गया

प्रातः किरण संवाददाता



मधुबनी खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गोबरीपुर उत्तरी पंचायत के मरुकिया खतवे टोला स्थित नव सृजित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय के एचएम पूनम कुमारी के अध्यक्षता में सेवा निवृत्त टोला सेवक शिक्षक मनोज कुमार सदाय को विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक राम लोचन यादव द्वारा किया गया। इस विदाई समारोह के दौरान सेवा निवृत्त टोला सेवक शिक्षक मनोज कुमार सदाय को अंग वस्त्र, पाग दोपता, किताब, कलम एवं घड़ी देकर संयुक्त रूप से विद्यालय के एचएम पूनम कुमारी, शिक्षिका किरण कुमारी वविता कुमारी, शिक्षक रामलोचन यादव एवं पंचायत के पूर्व मुखिया राधेन्द्र पंडित द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुखिया राधेन्द्र पंडित ने कहा कि सेवा निवृत्त टोला सेवक

शिक्षक को आंखे नहीं है, उन्होंने कहा कि नोकरी में जो आता है उसका एक निश्चित दिन को ही सेवा निवृत्त होना पड़ता है। उन्होंने सेवा निवृत्त शिक्षक मनोज कुमार सदाय को अपने घर पर परिवार के बीच रहकर घर परिवार की देखभाल करने की नसीहत दी। इस मौके पर शिक्षक राम लोचन यादव, शिक्षिका किरनज वविता कुमारी, समाजसेवी इंद्रजीत ठाकुर, हरगोबिंद यादव, पूर्व मुखिया राधेन्द्र पंडित सहित विद्यालय के छात्र, छात्राएं एवं अधिभावक मौजूद थे।

भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एक तस्कर को देशी कट्टा, गांजा, शराब के साथ गिरफ्तार किया



प्रातः किरण संवाददाता

मधुबनी सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी जयनगर के कार्यक्षेत्र भारत-नेपाल बाह्य सीमा चौकी मधुवापुर के जिम्मेवारी के इलाके में सशस्त्र सीमा बल के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गस्ति ड्यूटी के दौरान सहायक उप निरीक्षक राजीव कुमार की अगुवाई में की गयी कार्यवाही में भारत-नेपाल सीमा स्तम्भ संख्या 295/6 से लगभग 100 मी० भारतीय क्षेत्र की तरफ एक तस्कर विकास साहनी (उम्र-19) सुपुत्र वकील साहनी गांव-बिहारी डाकघर लालबाग पुलिस स्टेशन यूनिवर्सिटी जिला दरभंगा बिहार को निम्नलिखित सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। नेपाली शराब 300 एम एल 120 बोतल 2. देशी कट्टा 01 नग 3 गांजा. 500 ग्राम 4. मोटरसाइकिल 01 (इफ32 अ 1721) यह तस्कर उपरोक्त सामान को नेपाल से अवैध रूप

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने किया मंडल कारा का निरीक्षण

समस्तीपुर, प्रातः किरण संवाददाता

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समस्तीपुर डॉ किशोर कुणाल के द्वारा सोमवार को समस्तीपुर मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारा अधीक्षक प्रशांत कुमार ओझा एवं कारा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान मंडल कारा के पदाधिकारी के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ किशोर कुणाल को बताया गया कारा में 1092 बंदी हैं। जिसमें 1042 पुरुष व 50 महिला बंदी हैं। वहीं महिला बंदियों के साथ एक बच्चा व दो बच्ची संसीमित है। इस दौरान उन्होंने कारा अस्पताल के ओपीडी का निरीक्षण किया। कारा अस्पताल में डॉ हेमंत कुमार, प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी पूसा एवं पारा मेडिकल के कर्मी उपस्थित थे। उन्होंने कारा पाकशाला, किशोर वार्ड, महिला वार्ड एवं अन्य सभी स्थलों का निरीक्षण किया गया। बताया गया कि साफ-सफाई

बच्चों के सतत विकास और सुरक्षा के लिए अभिभावकों के बीच चलाया गया जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला

समस्तीपुर, प्रातः किरण संवाददाता



जवाहर ज्योति बाल विकास केन्द्र और क्राई-चाइड्रेड राइट्स एंड यू के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को सरायरंजन प्रखंड के भागवतपुर गांव स्थित मुसहर टोला में अभिभावकों के साथ जीवन कौशल प्रशिक्षण सत्र संचालित किया गया। इसकी अध्यक्षता मोहन सादा तथा संचालन रवीन्द्र पासवान एवं बलराम चौधरिया ने संयुक्त रूप से किया। परिचय सत्र में रिश्तों की पहचान एवं उनकी भूमिका पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित

समृद्धि माहौल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण के लिए

समुचित माहौल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी अपेक्षित सहयोग देने की अपील

मधुबनी खादी मेला में मधुबनी चित्रकला का जलवा रहा बरकरार, दो दिनों में हुई 6 लाख से ऊपर की बिक्री



प्रातः किरण संवाददाता

मधुबनी के टाउन हॉल में चल रहे 10 दिवसीय खादी मेले के दो दिन विभिन्न स्टॉल पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा राज्य स्तरीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का शुभारंभ 27 जनवरी 2024 को मधुबनी के टाउन हॉल में किया गया। मेले का उद्घाटन उप विकास आयुक्त विशाल राज द्वारा किया गया। यह मेला 27 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक चलेगा। मेले के दो दिन में करीब 6 लाख से ऊपर की बिक्री हुई है। लोग विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों का सामान खरीदने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। मेला में खास कर मधुबनी चित्रकला भागलपुरी सिल्क व पारम्परिक खादी के डिजाइनर कपड़े आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं। मेले में खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस बार विभिन्न जिलों से 87 स्टॉलें लगाई गई हैं। साथ ही खादी, हैण्डलूम एवं हैण्डक्राफ्ट, हस्तशिल्प, मुख्यमंत्री उद्यमीयोजना, पी०एम०ई०जी०पी०, जीविका समूह एवं दूसरी संस्थाओं का स्टॉल लगाया गया है। हर काउंटर पर बिहार उत्पादित अलग-अलग हस्त निर्मित एवं आधुनिक उत्पादों की बिक्री की जा रही है। मेला अवधि में कई कलाकारों व बुनकरों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ मेले की रौनक बढ़ा रही हैं। मेला के दो दिनों की बिक्री से विक्रेता काफी खुश है और उन्हें बिहार उत्पादित सामानों को इस मेला के माध्यम से लोगों तक ले जानकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खादी मेला के निरंतर आयोजन से बिहार के कलाकारों को एक प्लैट फॉर्म के साथ रोजगार भी मिल रहा है।

की गई प्रशिक्षण सत्र में भागीदारी कर रहे माताओं ने बताया कि हमारी गरीबी, हमारा अशिक्षित और विभिन्न सामाजिक कुुरीतियों का शिकार होना ही हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित रख रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था, अविवेकपूर्ण फरमान, प्राकृतिक संसाधनों से वंचित रखने की सरकार समर्थित कोशिश के कारण बच्चों का स्कूल से दूध आउट होने की मजबूर करती है। बलराम चौधरिया ने बताया कि इसी प्रकार अन्य विकसित टोलों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। मौके पर ब्रौज कोर्स सेंटर के बच्चों ने गीत-संगीत प्रस्तुत किया।

सांक्षिप्त खबरें

गाँधी शहादत दिवस पर होगी श्रद्धांजलि सभा

मधेपुरा बीएनएमयू, मधेपुरा में गाँधी शहादत दिवस के अवसर पर मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे गाँधी की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उपकुलसचिव (स्थापना) डॉ. सुधांशु शेखर ने बताया कि सभा की अध्यक्षता कुलपति प्रो. बी. एस. झा करेंगे। इसमें सभी पदाधिकारियों, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है। बैठक मंगलवार को मंगलवार को पूर्वाह्न 11:45 बजे से सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अपराह्न 02:30 बजे से सभी संकायाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों की बैठक होगी। उपकुलसचिव (स्थापना) डॉ. सुधांशु शेखर ने बताया कि सभा की अध्यक्षता कुलपति प्रो. बी. एस. झा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिसर अस्थित केन्द्रीय पुस्तकालय सभागार में होगी। दोनों बैठकों में डीएसडब्ल्यू, परीक्षा नियंत्रक, कुलसचिव, नोडल पदाधिकारी एवं उपकुलसचिव (स्थापना) भी उपस्थित रहेंगे। भूपद नारायण मंडल जन्मोत्सव गुरुवार को बीएनएमयू में गुरुवार को सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता महामना भूपद नारायण मंडल की 121 वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उपकुलसचिव (स्थापना) डॉ. सुधांशु शेखर ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक चलेगी। इस अवसर पर सर्वप्रथम भूपद नारायण मंडल की प्रतिमा के माध्यम से पुष्पांजलि की जाएगी। तत्पश्चांत दीक्षा स्थल पर कुलपति प्रो. बी. एस. झा की अध्यक्षता में भूपद नारायण मंडल के जीवन एवं दर्शन पर परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही हैं। जन्मोत्सव को लेकर 22 जनवरी से 1 फरवरी तक भूपद प्रतिमा स्थल, विश्वविद्यालय के मुख्यद्वार और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर लाइटिंग की गई है। आमंत्रण-पत्र का वितरण किया जा रहा है।

अस्पताल के अतिक्रमिit भूमि को करवाएं खाली:डीएम

प्रातः किरण, संवाददाता

मधेपुरा जिलास्तरीय साप्ताहिक समन्वय-सह-समीक्षात्मक बैठक सोमवार को जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में डीआरडीए परिसर स्थित झल्लू बाबू सभागार में हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के काम में जिलाधिकारी ने मिशन बुनियादी की सफलता को लेकर कार्रवाई करने पर लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएँ के सुदृढीकरण के संबंध में अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी किए निर्देश का अनुपालन हरहाल करने को कहा। सदर प्रखंड अंतर्गत साहुगढ़ दो एवं कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर चण्डी स्थान में अस्पताल के अतिक्रमिit भूमि को नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। बैठक में जिला निबंधन कार्यालय के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि



माडल डीड में निबंधित दस्तावेजों का लक्ष्य 100 प्रतिशत है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी को बधाई दिया गया। समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना में निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु संबंधित

पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। पशुओं का इयर टैगिंग का लक्ष्य 720000 के विरुद्ध 659163 पाया गया जो लक्ष्य का 91.55 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने को लेकर संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया।

बैठक में लोक शिकायत, जनता दरबार की समीक्षा के क्रम में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ताकि आम लोगों की समस्या का समाधान समय किया जा सके। बैठक में उच्च न्यायालय में लंबित मामलों

भापका-माले ने निकाली संविधान बचाओ यात्रा



प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। भाकपा माले के राज्यव्यापी संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जन संकल्प यात्रा के तहत आज बंदरा प्रखंड के बरियारपुर चौक से उसरा, बलहैया, फतुल्हा, करैला होते हुए बड़गांव चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। माले नेता प्रखंड सचिव रामबली मेहता के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले प्रखंड सचिव रामबली मेहता ने कहा कि मोदी सरकार देश में नरफत और विभाजन की राजनीति कर रही है जिससे संविधान लोकतंत्र

धर्मनिरपेक्षता खत्म किया जा रहा है, और दलितों आदिवासियों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला तेज कर दिया गया है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजली पानी सड़क और महंगाई के सवाल पर मोदी सरकार बात करने से भाग रही है। जिला कमिटी सदस्य संजय कुमार दास ने अपने संबोधन में कहा कि अपने समय में कपूर्ती ठाकुर ने जब बिहार में आरक्षण और सामाजिक न्याय के एजेंडा को लागू करने के लिए पहला निर्णायक कदम उठाया तो उन्हें आरएसएस के डुष्टतापूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें कभी अधिक समय तक सत्ता में नहीं रहने दिया गया,

बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके दो कार्यकाल बहुत ही अल्पकालिक थे।सिमरा पंचायत कमिटी सदस्य महेश महतो ने कहा कि आज कपूर्ती ठाकुर का सम्मान करने के नाम पर आरएसएस- भाजपा ब्रिगेड, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नितिश कुमार को प्यारे के रूप में इस्तेमाल करके, बिहार की न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई को पटरी से उतारना चाहती है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, सामाजिक व आर्थिक न्याय और जन अधिकार की पक्षधर ताकतों को इस फासीवादी षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए कपूर्ती ठाकुर को लोकतंत्रिक संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाना होगा। इस मौके पर भाकपा माले प्रखंड सचिव रामबली मेहता, संजय कुमार दास, महेश महतो, सनुधन महतो, अर्जीत कुमार सिंह, शिवचंद्र राम, सतो राम, नंदकिशोर पासवान, मोहन राम, लालबाबू कुमार, चिंता कुमारी, रघुवीर कुमार, बालवीर कुमार, छोट्टे कुमार, विश्वदेव महतो, आदि लोग उपस्थित थे।

संगम घाट टिकुलिया में पुर्सी पूर्णिमा मेला आयोजित

प्रातः किरण संवाददाता

कुमारखंड मधेपुरा कुमारखंड प्रखंड के बिशनपुर बाजार पंचायत स्थित टिकुलिया सुरसर नदी स्थित संगम घाट पर तीन दिवसीय मेला के आखरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अतिथि ब्लॉगर सोनु संगम और विकास कुमार ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में मौजूद हजारों की संख्या में दर्शकों संबोधित करते हुए मेला मेला दो दिनों का मेला है। यह मेला जगमू जी की तहजीब को जिंदा रखे हुए है। वर्षों से सभी समुदाय के लोग मेला आते हैं और मिलजुलकर मेला का आनंद लेते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुती देने के लिए एक से बढ़कर एक कलाकार आप के बीच मौजूद हैं। हिंदी, देश भक्ति, कामेडी आप के बीच प्रस्तुति देंगे। शांति पूर्वक मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले और मेला कमेटी का सहयोग करें।

शराब कांड के अभियुक्त गिरफ्तार, भेजा गया जेल

प्रातः किरण, संवाददाता



पतरघट/सहरसा। जिला थाना सौर बाजार के ओपी पतरघट में स्थानीय पुलिस ने काफी दिनों से फरार चल रहे शराब कांड के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। काफी दिनों से पुलिस उसके फिराक में थी। वहीं सोमवार की देर रात्रि 2:30 में जैसे ही उसके बारे में गुप्त सूचना मिली, पुलिस ने देरी न करते हुए उसके ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि धारा 30 एक्सडब्ल्यू का एक अभियुक्त काफी दिनों से फरार चल रहा था। वह काफी दिनों से पुलिस को चकमा देख रहा था। लेकिन पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी की फिराक में थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उक्त पतरघट ओपी अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया

कि कारोबारी पतरघट ओपी क्षेत्र के टेकनमा गाँव वार्ड 09 नंबर निवासी लालु यादव उर्फ लालु यादव पिता स्वर्गीय भोटल यादव गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अवर निरीक्षक शशिधर सिंह ने पुलिस बल के सहयोग से आरोपी के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत सहरसा भेजे गए।

नौवीं बार नीतीश कुमार के सीएम बनने पर जदयू नेताओं ने जताया हर्ष

प्रातः किरण संवाददाता



मधेपुरा नौवीं बार नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने पर सोमवार को जदयू कार्यकर्ताओं ने शहर के सुभाष चौक पर जुलूस निकाल कर खुशी व्यक्त की। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के बीच मिठाई का भी वितरण किया गया। जदयू कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राज्य में सुशासन की सरकार अब और तेजी के साथ काम करेगी। जदयू के जिला मुख्य प्रवक्ता डा. नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार अब और तेजी के साथ काम करेगी। जदयू के जिला मुख्य प्रवक्ता डा. नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार अब और तेजी के साथ काम करेगी। जदयू के जिला मुख्य प्रवक्ता डा. नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार अब और तेजी के साथ काम करेगी। जदयू के जिला मुख्य प्रवक्ता डा. नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार अब और तेजी के साथ काम करेगी। जदयू के जिला मुख्य प्रवक्ता डा. नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार अब और तेजी के साथ काम करेगी।

ने एनडीए में वापसी कर नई सरकार का गठन किया है। मौके पर जदयू के वरिय नेता नरेश पासवान, प्रदेश सचिव महेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के विकास के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। यह मांग पूरे राज्य के जनता की थी। जदयू नेता सुजो मेहता,मनोज भटनागर,अमित कुमार साह, डा. धर्मदर कुमार राम ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। अब केंद्र और राज्य की सरकार के सहयोग से विकास योजना तेजी आगे

बढ़ेगी। मौके पर नरेश पासवान, डा. नीरज कुमार प्रदेश सचिव महेंद्र पटेल, जदयू शिक्षा प्रकाष्ठ के जिलाध्यक्ष मनोज भटनागर, जदयू शिक्षा प्रकाष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रतन सिंह, जदयू के रजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य सुजो मेहता, अमित कुमार साह, डा. धर्मदर कुमार राम, लालन राम, विरेंद्र पासवान, अवधेश पासवान, युवा जदयू के जिला महासचिव मनोज कुमार राम, चंद्रेश्वरी राम, कुलदीप रजक, ठाकुर पटेल, निखिल सिंह यादव, मनोज राय, सियाराम यादव सहित कई जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे।

विद्याकर कवि ने दी थी बिहार की राजनीति को ऊर्चा

प्रातः किरण संवाददाता



आलमनगर, मधेपुरा जीवन पर्यंत राजनीतिक और जनसेवा को आधार मानने वाले और राजनीतिक विकृत चहरे ने अपने उज्वल चरित्र को स्वच्छ और बेदाग रखने वाले व्यक्तित्व के स्वामी बिहार के पूर्व मंत्री विद्याकर कवि ने बिहार की राजनीतिक में उच्च आदर्श और मूल्यों के मापदंड को स्थापित किया। सन 1942 में गांधी जी के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष गाथा का प्रारंभ करने वाले व्यक्तित्व का अंत 31 जनवरी 1986 को पूर्णिया में हिंदी द्वारा भाषा की बैठक में हृदय गति रुक जाने से हो गई। उनके अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी पुण्यतिथि 31 जनवरी को संपूर्ण राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिक्षक से बने राजनेता लंबी यात्रा में मर्यादित आचरण उदारता कुशल नेतृत्व कथनी और करनी में तालमेल सहित अनेक गुणों का अमूल्य मिश्रण के मात्र थे। अपनी प्रारंभिक जीवन में समाजसेवी व सत्य सत्कार के रूप में उन्होंने विशिष्ट पहचान बनाई।

विद्याकर कवि का जन्म सन 1923 में आलमनगर के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। पिता मनमोहन कवि वज्र भाषा के उल्लेख विद्वान थे। पिता के संस्कार से परिपूर्ण साहित्य प्रेम और जन सेवा भाव स्वर्गीय कवि ने कूट-कूट कर भरा था। विद्याकर कवि का व्यक्तित्व, त्याग, सत्य, निष्ठा, व सिद्धांत का अनुदा मिश्रण था। उच्च पदों पर विराजमान होकर भी उनकी विनम्रता व कर्तव्य परायणता कभी भी क्षीत नहीं हुई। कार्यकर्ता से मंत्री तक का सफर विद्याकर कवि 1942 से छत्र जीवन से ही राजनीतिक व सामाजिक सेवा में सक्रिय थे। आलमनगर स्थित उच्च विद्यालय

में अवैतनिक रहकर शिक्षक बनकर बच्चों में शिक्षा का अलख जगाया। 29 फरवरी 1953 को विद्यालय से अध्ययन कार्य त्याग कर राजनीतिक के समर में कूद पड़े। विद्याकर कवि कांग्रेस पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से यात्रा प्रारंभ कर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मंडल सदस्य के रूप में विशिष्ट सेवा प्रदान किए। वर्ष 1957 से 1967 तक विधान परिषद सदस्य रहे। वह 1967 से 1977 तक आलमनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर शिक्षा मंत्री व पथ निर्माण मंत्री पद पर सुशोभित किया। वह दोनों संदर्भों में प्रस्तुतीकरण और विकास टिप्पणी के लिए जाने जाते थे। बिहार कांग्रेस की दूरी जीवन पर्यंत बने रहे वर्ष 1969 में जब प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति दयनीय चल रही थी। तो इन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार पार्टी द्वारा इन्हें दिया गया। आज स्वर्गीय विद्याकर कवि की पुण्यतिथि पूरे बिहार में मनाई जा रही है, पुरैनी, फूलौत, करामा, आलमनगर आदि जगह पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने एनएच 106 कवि जी की

देन है। उन्होंने अपने कार्यकाल में आलमनगर विधानसभा में सड़क बिजली जल मीनार स्कूल आदि का निर्माण इन्होंने अपने कार्यकाल में कराया। साथ ही बीरपुर टू बीहपुर पथ की सामरिक महत्व को बताते हुए इसे राजपथ का दर्जा देने के लिए बिहार विधानसभा में पारित करवाकर केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इसके अलावा आलमनगर क्षेत्र का दक्षिण भाग जो हर वर्ष बाढ़ के अंदर से गुजरता है उसे पक्की करण का काम करवाए थे। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष महेश मोहन झा उर्फ अमर झा ने बताया कि विद्या कर कवी का देन आज भी जिंदा है। उन्होंने जो इस क्षेत्र में विकास का कार्य किए हैं उनको भूलने योग नहीं है। यही इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पुत्र वृजभूषण चौधरी ने बताया कि विद्या कर कवि एक जाने-माने नेता के रूप में जानते हैं जिनकी यादगार अभी भी है। आलमनगर प्रखंड के कई ऐसे सड़के आज भी जिंदा है जिसको क्राइम रोड से लोग जाने जाते हैं। ईश्वर से कबलता करता हूं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

आठ सौ जिंदा कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार बीएनएमयू, मधेपुरा के नवनि्युक्त कुलपति ने कार्यालयी कार्यों में सुधार हेतु उठाए कई कदम

प्रातः किरण संवाददाता

के घर पर कारतूस कि खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी बीच सूचना पर पहुंची बेनीबाद ओपी पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर सच अभियान शुरू कर दी। इससे पूर्व पुलिस की भनक लगते ही अन्य अपराधी वहां से भाग निकले। जबकि मो इसराइल अंसारी के पुत्र मो आशिक अंसारी 8 सौ चक्र जिंदा कारतूस व 11 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बेनीबाद ओपी अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार हुए तस्कर के विरुद्ध इससे पूर्व भी कई थानों में अपराधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज है। उन्होंने बताया कि इससे की गई पुछताछ के आधार पर भागे हुए अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। उन्होंने बताया की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।

मधेपुरा बीएनएमयू, मधेपुरा के नवनि्युक्त कुलपति प्रो. बी. एस. झा ने कार्यालयी कार्यों में सुधार हेतु कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में किसी भी पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, संकायाध्यक्ष, इससे पूर्व भी कई थानों में अपराधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज है। उन्होंने बताया कि इससे की गई पुछताछ के आधार पर भागे हुए अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। उन्होंने बताया की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।

(स्थापना) डॉ. सुधांशु शेखर ने बताया कि इस संबंध में कुलपति के आदेशानुसार कुलसचिव प्रो. मिहिर कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सिर्फ कुलपति के द्वारा ही किया जाएगा हरे रंग की स्थाई का प्रयोग बीएनएमयू, मधेपुरा के नवनि्युक्त कुलपति प्रो. बी. एस. झा ने कार्यालयी कार्यों में सुधार हेतु कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में कार्यालयी एवं विभागीय कार्यों के निमित सिर्फ कुलपति के द्वारा ही हरे रंग की स्थाई का प्रयोग किया जाएगा।

दो पालियों में 37 केंद्रों पर 26658 परीक्षार्थी देंगे इंटर की परीक्षा

प्रातः किरण संवाददाता



मधेपुरा शहर के कला भवन में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की ब्रिफिंग बैठक हुई। बैठक में एक से 12 फरवरी तक दो पालियों में होने वाले परीक्षा को कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण संपन्न कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि दो पालियों में होने वाली परीक्षा की प्रथम पाली 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे तक होगी। वहीं द्वितीय पाली में परीक्षा 02:00 बजे से 05:15 बजे तक होगी। 37 केंद्रों पर होगी इंटर की परीक्षा जिले में इंटर की परीक्षा 37 परीक्षा केंद्र पर होगी। मधेपुरा में 25 एवं उदाकिशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में 12 परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

इंटर की परीक्षा में कुल 26 हजार 658 अर्थर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कदाचारमुक्त परीक्षा को दंडाधिकारी नियुक्त : कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा नियंत्रण कक्ष का स्थापना किया गया है, जो परीक्षा संचालन संबंधी कार्यों का अनुश्रवण करेगा। किसी भी प्रकार

- 01 से 12 फरवरी तक दो पालियों में होगी इंटर की परीक्षा
- 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे तक होगी प्रथम पाली
- 02:00 बजे से 05:15 बजे तक होगी द्वितीय पाली
- 37 केंद्रों पर होगी इंटर की परीक्षा
- 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए उदाकिशुनगंज अनुमंडल में
- 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं मधेपुरा अनुमंडल में

जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक डीएम ने दिए कई निर्देश

प्रातः किरण संवाददाता



सहरसा। जिलाधिकारी, सहरसा, वैभव चौधरी, की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वैभव में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आहुत की गई। सर्वप्रथम सहरसा, जिला का माह जनवरी, 2024 के खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण में जिले के 20 वां स्थान/रैंक रहने के संदर्भ में समीक्षा की गई, जिसमें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नवहट्टा, सौर बाजार बनमा ईटहरी, सोनवर्षा, महिषी इत्यादि से माह जनवरी, 2024 का खाद्यान्न वितरण के संबंध में पूछा गया तथा वितरण प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सौर बाजार द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ग्राम पंचायत गम्हरिया के 01, ग्राम पंचायत काँप पूर्वी के 02 एवं ग्राम पंचायत काँप पश्चिमी के 01 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का वितरण प्रतिशत बहुत ही कम रहने के कारण प्रखंड का वितरण प्रतिशत नीचे है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। एस.आई.ओ. डिस्पैच एवं खाद्यान्न का उठाव ससमय कराने हेतु जिला प्रबंधक,

सदर सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आधार सीडिंग का कार्य अगले दो सप्ताह के अन्दर 95 प्रतिशत से उपर रखने का निर्देश दोनों अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंडों के आपूर्ति निरीक्षक को दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित समीक्षा के क्रम में उपस्थित परिवहन अधिकारताओं द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखंडों में 154 गंसा संचालन सेवी द्वारा जान-बूझकर परेशान करने एवं गलत मंशा से हमलों के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, सहरसा को दिया जाता है तथा उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, सहरसा द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की जाती है साथ ही एन.जी.ओ. द्वारा खाद्यान्न नहीं लिये जाने का भी शिकायत की गई है। उक्त संदर्भ

में प्रभारी पदाधिकारी, मध्यान भोजन योजना, सहरसा से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को एम. डी.एम. का खाद्यान्न डिस्पैच में अनियमितता होने के संदर्भ में जांच करने तथा प्रतिवेदन से अवगत कराने का निर्देश दिया गया तथा एम.डी.एम.का खाद्यान्न डिस्पैच में दिक्कत का निराकरण कराने का भी निर्देश दिया गया। आपूर्ति निरीक्षक, सोनवर्षा द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सोनवर्षा प्रखंड अन्तर्गत प्रखंड समन्वयक के नहीं रहने के कारण जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन की मरम्मत हेतु जिला कार्यालय जाना पड़ता है, जिसके कारण समय एवं वितरण प्रभावित होती है, जिसके संबंध में श्री विकास कुमार, जिला समन्वयक, विजन टेक, जिला आपूर्ति कार्यालय, सहरसा द्वारा बताया गया कि संबंधित कंपनी/विभाग से प्रखंड समन्वयक का पदस्थान करने हेतु अनुरोध किया गया है। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रतिनिधि, सहरसा एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे।

नीतीश कुमार ने नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

प्रातः किरण संवाददाता



सहरसा। 29 जनवरी को जनता दल यू ने नीतीश कुमार को नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते आपस में मिठाई बाँट कर जदयू नेताओं ने खुशी का इजहार किया है। जिला अध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया ने कहा कि नीतीश कुमार जी का हर निर्णय बिहार के हित में होता है। इनके जीवन का हर क्षण बिहार की जनता के लिए समर्पित रहा है। उदाहरण में देखें तो जातिगत गणना, आरक्षण बढ़ाने सहित बिहार के 94 लाख गरीब परिवार को स्वरोजगार हेतु दो दो लाख रुपए देने का निर्णय बिहार के प्रगति के लिए लिया

पर कोटि कोटि बधाई। आनंदी मेहता ने कहा नीतीश कुमार नीति भी है और नियत भी जिससे बिहार की छवि उच्च हुआ है। जिला महा सचिव सुशील कुमार यादव ने कहा नीतीश कुमार कभी भी परिवार को राजनीति में सक्रिय कर शाही जीवन नहीं लिया है। मीडिया प्रभारी रंजित कुमार बबलू ने

कहा नीतीश कुमार ने संसाधन विहीन बिहार को संवारा है। अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष देवेन्द्र देव ने कहा अब राज्य का सार्वगिक विकास होगा। इस अवसर पर उपस्थित हुए वरिष्ठ नेता मानवेंद्र ठाकुर, दिनेश पासवान, मोहिउद्दीन राईन, कैलाश साह, शेर अफगान मिर्जा, सीमा गुप्ता, स्मिता सिन्हा डॉक्टर शिखा सिंह, रंजना गुप्ता, अंजली जायसवाल, रेणु झा, अनिता देवी, निशा पांडे, अनिला चौधरी, अनिशा बैंगन पप्पू सिन्हा, अमरदीपशर्मा, नूर आलम राई, प्रह्लाद रमन, टुनटुन शर्मा, विकास कुमार राउत, प्रवक्ता डॉक्टर लुटफुल्ला, संजीत कुमार, मुकेश शर्मा, कुश मोदी, उदय साह आदि।

विचार मंथन

पलट के नीतीश एनडीए में

बीते बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच करीब तीन घंटे की बैठक प्रधानमंत्री आवास में हुई थी। वह असामान्य बैठक थी। उनके सामने बिहार पर सर्वे की एक रपट थी थी, जो भाजपा ने कराया था। सर्वे का निष्कर्ष था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, अपने सभी घटक दलों समेत, 20-22 सीटें ही जीत सकती है। सर्वे अयोध्या राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा से पहले कराया गया था। सर्वे में यह भी सामने आया कि उसके प्रभाव से 5-7 सीटें ही बढ़ सकती हैं। 2019 में भाजपा ने जद-यू के साथ 40 में से 39 सीटें जीती थीं। जाहिर है कि विमर्श का बिंदु बिहार और नीतीश कुमार रहे होंगे। अंततः यह तय हुआ कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का सूत्रधार ही पाला बदल कर भाजपा से मिल जाए, तो चुनावी फायदा हो सकता है। कमोबेश अति पिछड़ा वर्ग के सरप्लस वोट भी भाजपा के पक्ष में आ सकते हैं। लंबे विमर्श के बाद प्रधानमंत्री ने नए गठबंधन को ओके कह दिया। उसके बाद ही तय हो गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार कर भाजपा से जुड़ेंगे। जो पटकथा लिखी गई थी, उसी के मद्देनजर नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। नतीजतन कथित महागठबंधन की सरकार ढह गई। इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने मॉडिया से पुष्टि की और कहा कि गठबंधन में काम नहीं हो पा रहा था। यहां और वहां के लोगों को तकलीफ थी, लिहाजा हमने गठबंधन छोड़ दिया है। अब नया गठबंधन बन रहा है। आप खुद देखिए। बहरहाल रविवार को ही नीतीश कुमार का एनडीए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करना महज औपचारिकता थी। उनके साथ भाजपा के दो उपमुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम लिए गए। सम्राट बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य पूरा ही बदल गया और लालू यादव, कांग्रेस खेमा मूकदशक ही बने रहे। इस बार नीतीश का मोहभंग होने और पलटी मार कर एनडीए में लौटने में सिर्फ डेढ़ साल लगे।

नीतीश अगस्त, 2022 में भाजपा को छोड़ कर लालू यादव खेमे में गए थे। पलटी मारने की दलीलें नीतीश की वही रही हैं। जो 2022 और उससे पहले 2017 में थीं। आश्चर्य है कि भाजपा और राजद दोनों ही जद-यू को तोड़े की साजिश रचती रहती हैं और नीतीश बार-बार उन्हीं के साथ सरकार बनाते रहे हैं। दरअसल एक सवाल जनादेश, सरकार, पलटीमार राजनीति और लोकतंत्र को लेकर है। गौरतलब है कि 1995 से नीतीश कुमार ने विधायक का चुनाव ही नहीं लड़ा है। वह लगातार विधान परिषद में रहे हैं। उनके दलों को भी बहुमत का जवाबदेह कभी भी नहीं मिला है। फिर भी वह 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। यह देश का राजनीतिक रिकॉर्ड है कि एक ही नेता ने, एक ही कार्यकाल के दौरान, तीन-चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। खवाल है कि नीतीश कुमार में ऐसा क्या आकर्षण है कि भाजपा और राजद दोनों ही उन्हें पलटीहमरने को समर्थन देते रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री भी बनवा देते हैं? क्या नीतीश बिहार के राजनीतिक समीकरणों की विवशता हैं कि बहुमत न होने के बावजूद वह मुख्यमंत्री बने हुए हैं? क्या यह पलटीमार राजनीति की अक्सरवादिता नहीं है? मौजूदा जनादेश 2020 में भाजपा-जदयू को मिला था, क्योंकि दोनों ने साझा तौर पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद का घटनाक्रम देश के सामने है। वह कैसा लोकतंत्र है कि बहुमत का जनादेश पाए बिना ही एक राजनेता लगातार कई सालों से बिहार का मुख्यमंत्री है? भाजपा और राजद भी बराबर की जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुमत उनके पक्ष में भी नहीं रहा है। चूंकि बिहार में लंबे अंतराल से जुगाड़ की सरकार काम कर रही है, तो वह रसातल की ओर नहीं जाएगा, तो क्या स्थिति होगी? बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है।

रामलला के बाद सुर्खियों में गयाराम राकेश अवल

सुर्खियां लगातार बदलती रहती हैं। कभी कोई सुर्खी में तो कभी कोई सुर्खी में। सुर्खियां आदि और अनंत हैं। इनके आगे हर कोई नतमस्तक है। मोदी जी की गारंटी की तरह सुर्खियों को कोई गारंटी नहीं है। कौन सी सुर्खी, कितने दिन तक सुर्ख रहेगी ये कोई नहीं जानता। परमात्मा भी नहीं। परमात्मा खुद सुर्खियों में आता-जाता रहता है। आयाराम- गयाराम की तरह। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा वाली सुर्खी केवल पांच दिन चल पायी। पांच दिन बाद ही इसकी जगह बिहार के गयाराम यानि नीतीश बाबू ने ले ली। भारतीय राजनीति में कामयाब रहने के लिए लगातार नयी सुर्खियों की जरूरत पड़ती है। जो राजनीतिक दल इस हकीकत को जानता है वो कामयाब रहता है, जिस राजनीतिक दल को सुर्खियां पैदा करना नहीं आता उसकी कामयाबी हमेशा संदिग्ध रहती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सुर्खी आज की राजनीति का अभिन्न अंग है। मुमकिन है कि सुर्खियों को लेकर मेरी मान्यता से आप सहमत न हों किन्तु मैं अपनी मान्यताओं से पीछे नहीं हटता यद्यपि मैं अपनी मान्यताएं किसी पर थोपता भी नहीं हूँ। दुनिया के बहुत कम देश और राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सुर्खियों से परहेज करते हो। फिलवक्त मुझे तो ऐसा कोई राजनीयतिक दल दिखाई नहीं देता। जैसे रहीमदास जी कहते थे कि - पानी बिन सब सूने वैसे ही मैं कहता हूँ कि सियासत में - सुर्खी बिन सब सूने है जहाँ सुर्खी नहीं वहाँ कुछ नहीं। सुर्खी सियासत का मुख्य अवयव है। जैसे शरीर का मुख्य अवयव रक्त है वैसे ही सियासत का मुख्य अवयव सुर्खी है। दोनों का रंग एक जैसा है। भारतीय राजनीति में सुर्खियों में रहने की कला दुसरे दलों को कांग्रेस ने सिखाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब कांग्रेस खुद ही इस कला को भूल बैठी है। और इसका नतीजा भी आप साफ देख रहे है। कांग्रेस बीते एक दशक से सत्ता से बाहर है।

भारतीय लोकतंत्र में कामयाबी के लिए धर्मनिरपेक्षता या धर्मपरायणता उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, जितनी की सुर्खी में रहने की कला है। आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कोई दूसरा जनता सुर्खीहस्त नहीं है। सुर्खीहस्त शब्द सिद्धस्त बिगदरी में नया-नया शामिल कर रहा हूँ। आगे चलकर ये बहुप्रचलित भी हो सकता है। पिछले दस साल में माननीय मोदी जी ने देश को जितनी सुर्खियां दी हैं उतनी सुर्खियां नेहरु गांधी की तीन पीढ़ियां भी मिलकर नहीं दे पायीं। देश को सुर्खियों के मामले में सबसे ज्यादा समृद्ध एवं प्रथामंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने किया था। वे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थीं। श्रीमती गांधी के बाद अनेक प्रधानमंत्री आये और चले गए लेकिन उनका मुकबला यदि किसी एक ने किया तो वे हैं देश के 14 वे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। मोदी जी दो बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरी तथा अंतिम बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं।

सुर्खियां बनाना फिर उन्हें बटोरना यदि किसी नेता को सीखना है तो उसे माननीय मोदी जी के गुरुकुल में दाखिला ले लेना चाहिए। मोदी जी खुद भी सुर्खियों में रहते हैं और अपने पदचिह्न पर चलने वालों को भी सुर्खियों में बनाये रखते हैं। ताजा उदाहरण बिहार का है। मोदी जी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपने अनुयायी नीतीश कुमार को भी उन्हींने नौवीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश इसके पहले आईएनडीआईए के संयोजक बनकर सुर्खियों में आये थे, लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा सुर्खी आईएनडीआईए से बाहर निकलकर माननीय मोदी जी के साथ खड़े होकर मिली है। नीतीश बाबू को इसके लिए मेरी समझ से अगले वर्ष भारतरत्न सम्मान मिलना चाहिए। कर्पूरी ठोकर के बाद वे ही बिहार के ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को बढ़ने के बजाय किसी दुसरे के परिवार की फिफ्र की। पहले लल्लुओ के परिवार को मौका दिया और अब संघ परिवार को मौका देने जा रहे हैं। विषय से हटे बिना मैं आपको बताना चाहता हूँ की जो सुर्खियों में नहीं है उसे राजनीति छोड़ देना चाहिये। मेरा मशिवरा खासतौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब को है। उन्हें शायद सुर्खियों से एलजी है। उनसे जायदा तो सुर्खियों में ममता बहन रहती हैं , माया बहन रहती हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी भी अच्छेखाहे सुर्खीबाँज है। वे सुर्खियों के मामले में हमेशा माननीय मोदी जी को लगातार टक्कर देते रहते हैं उन्हें सुर्खियों में रहना और सुर्खियां बटोरना आता है। जब मणिपुर जल रहा था (आज भी जल रहा है) तब मणिपुर न जाकर माननीय मोदी जी ने जितनी सुर्खियां बटोरी थीं उससे ज्यादा सुर्खियां मणिपुर जाकर राहुल बाबा ने बटोर लीं थी। आज भी राहुल बाबा भारत की सड़कों पर अपनी न्याय यात्रा करिये सुर्खियां बटोरने के अभियान में लगे हैं। हकीकत यह है की सुर्खियां निशुल्क नहीं मिलती। सुर्खियों में रहने के लिए अंटी ढीली करना पड़ती है। नेता तो छोड़िये सुर्खियों में रहने के लिए बाबाओं तक को अंटी ढीली करना पड़ती है। आप टीवी चैनल के सुर्खियों देखकर अनुमान लगा सकते हैं की कौन, किनाना खरच करता है सुर्खियों पर? बेचारे रामदेव को भी पैसा देना पड़ता है सुर्खियों में बने रहने के लिए। आखिर बात ये है की आप जब एक सुर्खी प्रधान देश के मतदाता हैं तो आपको भी फैसला करते वक्त सुर्खियों को ध्यान में रखना चाहिये।

परीक्षा का तनाव कम करना: छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन


परीक्षा अवधि के दौरान यह संतुलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब छात्रों को शिक्षा संबंधी परेशानियों और अपने कार्य से जुड़ी चिंता का सामना करना पड़ता है, जिसका उनके मानसिक और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। निरसंदेह, परीक्षा की तैयारी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन और स्वस्थ जीवन के बीच एक अच्छे संतुलन बनाकर रखना है। आज, परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों के संपूर्ण दिलोदिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि उन्हें शिक्षा से जुड़े परिणामों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस तरह के अकसूर्य विचार हमारे छात्रों को बर्बाद कर देते हैं और उनकी रचनात्मकता व प्रतिभा का गला घोट देते हैं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट रूप से संपन्न है और सभी शैक्षणिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं हो सकते। परीक्षा परिणाम के आधार पर हम किसी बच्चे की प्रतिभा का अनुमान नहीं लगा सकते। परीक्षा परिणाम किसी छात्र के जीवन में सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं होना चाहिए। हम सभी- माता-पिता, शिक्षक, मित्र और परिवार- को मिलकर और एकजुटता से काम करना चाहिए ताकि बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान किया जा सके। परीक्षा में प्रदर्शन न केवल स्वानभाविक प्रतिभा पर निर्भर करता है, बल्कि स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग जैसी कई चीजों पर भी निर्भर करता है, जो शारीरिक मजबूती को बढ़ाता है और मस्तिष्क तेजी से ध्यानिकेन्द्रित करता है।



धर्मेन्द्र प्रधान,
शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार

छात्रों को अक्सर कड़े प्रतियस्पर्धा माहौल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन कायम करने की विकट चुनौती का सामना करना पड़ता है। परीक्षा अवधि के दौरान यह संतुलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब छात्रों को शिक्षा संबंधी परेशानियों और अपने कार्य से जुड़ी चिंता का सामना करना पड़ता है, जिसका उनके मानसिक और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। निरसंदेह, परीक्षा की तैयारी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन और स्वस्थ जीवन के बीच एक अच्छे संतुलन बनाकर रखना है। आज, परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों के संपूर्ण दिलोदिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि उन्हें शिक्षा से जुड़े परिणामों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस तरह के अकसूर्य विचार हमारे छात्रों को बर्बाद कर देते हैं और उनकी रचनात्मकता व प्रतिभा का गला घोट देते हैं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट रूप से संपन्न है और सभी शैक्षणिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं हो सकते। परीक्षा परिणाम के आधार पर हम किसी बच्चे की प्रतिभा का अनुमान नहीं लगा सकते। परीक्षा परिणाम किसी छात्र के जीवन में सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं होना चाहिए। हम सभी- माता-पिता, शिक्षक, मित्र और परिवार- को मिलकर और एकजुटता से काम करना चाहिए ताकि बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान किया जा सके। परीक्षा में प्रदर्शन न केवल स्वानभाविक प्रतिभा पर निर्भर करता है, बल्कि स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग जैसी कई चीजों पर भी निर्भर करता है, जो शारीरिक मजबूती को बढ़ाता है और मस्तिष्क तेजी से ध्यानिकेन्द्रित करता है। छात्र शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए परिवार, शिक्षकों और समाज की अपेक्षाओं का बोझ उठाते हैं। इससे एक अग्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो उन्हें मानसिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से थका देती है। कभी-कभी, थकान के कारण उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और इसका असर उनके स्वास्थ्य और खुशहाली पर पड़ता है। अत्यधिक तनाव मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता, डिप्रेशन और नींद संबंधी विकारों का जोखिम बढ़ाने वाला कारक माना गया है। इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, छात्र हमेशा सकारात्मक सोच रखें, एकाग्रता का स्तर बढ़ाएं और अपनी पढ़ाई को ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यायाम, ध्यान और गहरी सांस लेने की आदत बनाएं, एक सुव्यवस्थित अध्ययन दिनचर्या स्थापित करें, कार्यों को प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और हासिल करने के यथावधि शैक्षणिक लक्ष्यन बनाएं। परामर्श सेवाओं तक पहुंचें और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली जानकारी प्रदान करने से फिक्र या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक सहायक वातावरण भी बनता है। परीक्षा के दौरान छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसके लिए निम्नलिखित व्यापक तरीकों पर ध्यान देना शिक्षाप्रद होगा:

छोटे ब्रेक और शारीरिक कार्य: शारीरिक स्वास्थ्य हमारी समग्र फिटनेस और स्फूर्ति को बनाए रखने के मूलभूत तत्वों में से एक है। नियमित व्यायाम न केवल हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि तनाव को दूर करने के रूप में भी काम करता है। यह ज्ञान संबंधी कार्यों और जानकारी को याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है, दोनों ही परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय, छात्र हमेशा अपने स्वास्थ्य से अधिक प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को देते हैं। हमें उन्हें स्टूडिंग, वॉकिंग, जॉकिंग या योग जैसे कुछ शारीरिक कार्यों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे छात्रों को अपने दिमाग को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी। संतुलित आहार और पोषण: कठिन अध्ययन की मांग से निपटने और स्वस्थ रहने में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन ईंधन का काम करता है जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों को पोषण देता है। हम जो भोजन खाते हैं उसकी गुणवत्ता हमारे समग्र स्वास्थ्य पर मानसिक स्वास्थ्य का सार्थकता से निर्धारण करती है। एक सामान्य गलती जो छात्र इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अक्सर करते हैं, वह है खराब खाद्य या घर पर बने पोष्टिक भोजन के स्थान पर जंक फास्ट फूड, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक और चिप्स जैसे अस्वास्थ्यकर भोजन लेना। कभी-कभी वे चिंता और तनाव के कारण या परीक्षा की तैयारी के लिए अपना समय बचाने के लिए परीक्षा के दौरान भोजन भी छोड़ देते हैं। विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर संतुलित आहार खाने से मस्तिष्क के अधिकतम कामकाज



तैयारी करते समय, छात्र हमेशा अपने स्वास्थ्य से अधिक प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को देते हैं। हमें उन्हें स्टूडिंग, वॉकिंग, जॉकिंग या योग जैसे कुछ शारीरिक कार्यों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे छात्रों को अपने दिमाग को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी। संतुलित आहार और पोषण: कठिन अध्ययन की मांग से निपटने और स्वस्थ रहने में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन ईंधन का काम करता है जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों को पोषण देता है। हम जो भोजन खाते हैं उसकी गुणवत्ता हमारे समग्र स्वास्थ्य पर मानसिक स्वास्थ्य का सार्थकता से निर्धारण करती है। एक सामान्य गलती जो छात्र इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अक्सर करते हैं, वह है खराब खाद्य या घर पर बने पोष्टिक भोजन के स्थान पर जंक फास्ट फूड, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक और चिप्स जैसे अस्वास्थ्यकर भोजन लेना। कभी-कभी वे चिंता और तनाव के कारण या परीक्षा की तैयारी के लिए अपना समय बचाने के लिए परीक्षा के दौरान भोजन भी छोड़ देते हैं। विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर संतुलित आहार खाने से मस्तिष्क के अधिकतम कामकाज के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलता है। पर्याप्त पानी की मात्रा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नींद और जानकारी संबंधी कार्य, स्मरण शक्ति और भावनात्मक लचीलेपन के बीच सीधा संबंध है। छात्रों को रोजाना एक ही समय पर बिस्तर पर जाकर और जागकर नींद का लगातार एक ही पैटर्न बनाकर रखना चाहिए। जो छात्र रात में उचित मात्रा में नींद लेते हैं वे हमेशा बेहतर याद रखने और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। अच्छी नींद भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक न्यूनतम शर्त है। सहायक और उसाहवर्धक वातावरण: हमें एक अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए जहां छात्र अपनी चिंताओं पर चर्चा कर सकें और अपने माता-पिता और शिक्षकों से सहयोग ले सकें। तनाव, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए परामर्श सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना सर्वोच्च संस्थागत प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। हमें परीक्षा के दबाव के बारे में खुले संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए और मनोवैज्ञानिक रूप से उलझे बिना इससे प्रभावी ढंग से निपटना चाहिए। व्यायाम और ध्यान (मेडिटेशन) का अभ्यास: परीक्षा के तनाव को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण दिनचर्या हो सकती है। छात्रों को ध्यान, गहरी सांस लेना या योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए जो मन को शांत करने, एकाग्रता में सुधार लाने और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये अभ्यास तनाव को कम करने और मानसिक कल्याण को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। समय प्रबंधन: छात्रों को अंतिम समय सीमा के दौरान पढ़ाई का समय प्रबंधित करने की रणनीति अपनानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर अत्यधिक निर्भरता के कारण छात्रों का स्क्रीन टाइम कैसे बढ़ गया है। हम समझते हैं कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक आवश्यकता बन गया है। लेकिन, हमारे छात्रों को संतुलन बनाने की जरूरत है। शायद परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ गुणवत्तापूर्ण समय खाली रखने के लिए डिजिटल डिवाइस आवश्यक होगा।

चुनावी साल में अंतरिम बजट से उम्मीदें

वस्तुतः इस समय पूरे देश की निगाहें वित्तमंत्री के द्वारा पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट की ओर लगी हुई हैं। वस्तुतः देश में जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं, उस वर्ष दो बजट आते हैं। एक अंतरिम बजट और दूसरा पूर्ण बजट होता है। सामान्यतया अंतरिम बजट में नई सरकार बनने तक की व्यय जरूरतों को पूरा करने का उद्देश्य होता है। लेकिन अधिकांश अंतरिम बजटों में लोक लुभावन योजनाओं और बड़ी-बड़ी राहतों का टेर लगाया जाता रहा है। इस बार वित्तमंत्री सीतारामण वित्तीय अनुशासन के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जरूरी राहतों और आर्थिक कल्याण की योजनाओं से संतुलित अंतरिम बजट पेश करते हुए दिखाई दे सकती हैं। निःसंदेह इस समय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को अंतिम रूप देने समय दो अहम मसले वित्तमंत्री के समक्ष हैं। एक का संबंध उस राजकोषीय गुंजाइश और आकार से है जो फिलहाल केंद्र सरकार के पास अनुकूल स्थिति में है और दूसरा मुद्दा आगामी आम चुनावों में आवश्यक चुनावी लाभ हासिल करने के लिए कुछ नई व्यय योजना की घोषणा और आर्थिक कल्याण को लेकर सरकार की राजनीतिक अनिवार्यता से संबंधित है। वित्तमंत्री ने सीतारामण ने कहा है कि अंतरिम बजट लेखानुदान होगा। पूर्ण बजट लोकसभा चुनावों के परिणामों के कोई एक माह बाद आने की संभावना रहेगी। कहा है कि जिस तरह वर्ष 2000 के बाद प्रस्तुत हुए तीन अंतरिम बजटों में लोक लुभावन बड़ी घोषणाएं की गई थी और कर उपायों की अनदेखी की गई, वह वैसा नहीं करने जा रही हैं।



डा. जयतीलाल मंडारी-
स्वतंत्र लेखक

ए क फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण के द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने वाले वर्ष 2024 के अंतरिम बजट की तैयारियों का अंतिम चरण 24 जनवरी को हलवा वितरण समारोह के साथ आरंभ हुआ। पिछले तीन पूर्ण बजट की तरह नया अंतरिम बजट भी पूरी तरह से पेपरलेस होगा। वस्तुतः इस समय पूरे देश की निगाहें वित्तमंत्री के द्वारा पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट की ओर लगी हुई हैं। वस्तुतः देश में जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं, उस वर्ष दो बजट आते हैं। एक अंतरिम बजट और दूसरा पूर्ण बजट होता है। सामान्यतया अंतरिम बजट में नई सरकार बनने तक की व्यय जरूरतों को पूरा करने का उद्देश्य होता है। लेकिन अधिकांश अंतरिम बजटों में लोक लुभावन योजनाओं और बड़ी-बड़ी राहतों का टेर लगाया जाता रहा है। इस बार वित्तमंत्री



31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न रिपोर्ट 8.18 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। जहां पिछले आठ वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने हुए हैं, वहीं आय की असमानता में भी कमी आई है। वित्त वर्ष 2014-22 के दौरान व्यक्तिगत आय असमानता 0.472 प्रतिशत से घटकर 0.402 प्रतिशत हो गई है। इस दौरान 3.5 लाख रुपए के कम आय वाले समूह से 36.3 फीसदी लोग उच्च आय वाले समूह में शामिल हो गए हैं। निःसंदेह वित्तमंत्री के मुद्दियों में देश में कर सुधारों से आयकरदाताओं और आयकर संग्रहण के साथ-साथ जीएसटी में लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि की बड़ी अनुकूलताएं हैं। इसके अलावा वित्तमंत्री के पास कुछ और अनुकूलताएं भी हैं, जिसके मद्देनजर वे उपयुक्त जरूरी राहत दे सकते हैं। इस वित्त वर्ष 2023-24 में वित्तमंत्री सीतारामण वित्तीय

विपक्ष के आकुल लपोरीलालों की ना-लायकी

नरेंद्र भाई मोदी हम पर राज करने के कितने लायक हैं, कितने नहीं, इस पर तो बात तब करें, जब विपक्ष अपनी ना-लायकी से बाज आए। वे सब, जो नरेंद्र भाई के एकलखुरेपन से निजात चाहते हैं, आखि किस प्रतिस्थापन के भरोसे अपनी हड्डियों का दान करें? 28 राजनीतिक दलों के उस इंडिया-समूह के सहारे, जिस में खुद ही सब एक-दूसरे का सहारा नहीं बन पा रहे हैं? जो दमड़ी के चक्कर में अपनी चमड़ी गंवाने को अक्षमर्तवी समझ रहे हैं? जिस के अश्वमेधी रथ के तमाम दिग्गज अपने को एक-दूसरे से बड़ा लपोरीलाल साबित करने में लगे हुए हैं? दिग्गज, दिग-गज होते हैं। हमारे पुराण कहते हैं कि दिग-गज वे आठ हाथी हैं, जो आठों दिशाओं में पृथ्वी की रक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। पूर्व में ऐरावत, पश्चिम में अजय, उत्तर में सार्वभौम और दक्षिण में वामन। इन के अलावा पूर्वदक्षिण कोने में पुंडरीक, दक्षिणपश्चिम में कुमुद, पश्चिमउत्तर कोने में पुण्यदत और उत्तरपूर्व कोने में सुप्रतीक। इंडिया-समूह के दिग्गजों इ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड्गे झ में से मुझे तो ज्यादातर ऐसे लगते हैं।

हैं, जो विपक्षी-पृथ्वी की रक्षा में कम, अपनी-अपनी दिशाओं का द्वारपाल बने रहने के लिए ज्यादा आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सिंहासन के हर हाल में, हर थकंडा अपना कर, अपने कब्जे में बनाए रखने को व्याकुल नरेंद्र भाई के प्रतिकार के लिए, हम पिढी-पिढी आकांक्षाओं को मूिबंद करने के लिए उतने ही आकुल चहरों पर, अपना सर्वस्व कैसे उंडेल दें? खुद की साख पर खुद ही बड़ा लगाने में लगे इंडिया-समूह के कुछ सूत्रधारों की सिपायी कामवासानों का आँछापन देख-देख कर मैं तो पिछले कुछ दिनों से अवसन्नता के सागर में डूब-उतरा रहा हूँ। मुझे चिंता इन चिरकुटी-चेहरों की नहीं, इस बात की है कि अगर सकल-विपक्ष के एकमंचीय होने का थर मौजूदा प्रयास नाकाम रहा तो भारवासियों का विश्वास अपने वाले दस-बीस बरस के लिए समूचे विपक्ष से उठ जाएगा। समूचे यानी समूचे। अगर अखिल भारतीय उपस्थिति वाले किसी विपक्षी राजनीतिक दल को यह खामखाली हो कि लोग सिर्फ क्षेत्रीय दलों के खामखाली विराट हो गए बौने क्षत्रपों के इस पाप का भागी मानेंगे और इस से अंततः एक दिन आएगा कि उस की झोंपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे तो दिमाग के ये जाले साफ होंगे में देर नहीं लगेगी। लोग मानते हैं कि विपक्ष की जायज पर जिस की जितनी हिस्सेदारी है, उस की उतनी ही जिम्मेदारी भी है। भारतीय समाज में छोटों की तो बड़ी खराप भी माफ हो जाया करती है, मगर बड़ों की छोटा-सा कुसूर भी उन के लिए बरसों का नासूर बन जाता है। सो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि विपक्षी मंडलेश्वरों से निराशा लोग इसलिए किसी महामंडलेश्वर की शरण में चले जाएंगे कि उस के सिर पर जा बड़ा और दैशिक छत्र तना हुआ है। विश्वास के संकट का सैलबा आगगा तो सब-कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा।



सारण, चंपारण

संक्षिप्त खबरें

इसुआपुर पुलिस ने 48 कार्टून अंग्रेजी शराब किया जब

इसुआपुर । स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के निपनियां गांव के संपत पंडित के फूसनुमा दलान से 48 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस बाबत प्रभारी थाना अध्यक्ष निधि कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि निपनियां गांव के संपत पंडित के घर में अंग्रेजी शराब रखा हुआ है। जिसके आधार पर उन्होंने छापेमारी की तथा 428 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया। वहीं पुलिस बल को देखते ही धंधेबाज भागने में सफल रहा। छापेमारी दल में प्रभारी थानाध्यक्ष निधि कुमार, एसआई अर्जुन प्रसाद, एसआई एमके गिरी व पुलिस बल के जवान थे।

इसुआपुर में लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू

इसुआपुर । आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इसुआपुर प्रखंड में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रखंड निवाची पदाधिकारी सुभाषी कुमारी ने बताया कि जिला निवाची पदाधिकारी सह डीएम सारण के निर्देश के आलोक में लोकसभा आम चुनाव में पुलिस बल के उद्धार को लेकर प्रखंड में पांच स्थल चिह्नित किए गए हैं। जिनमें हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज इसुआपुर, उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज महली चकहन, पंचायत सरकार भवन छपिया, एसएनजी प्लस टू स्कूल नरपुर अटली तथा बुनियादी विद्यालय केवरां शामिल है।

बिहार में राजग सरकार के बनने पर दी बधाई : धर्मेश सिंह

छपरा। बिहार में राजग सरकार के पुनः बनने पर बधाई देते हुए सारण जिला भाजपा के मुख्य प्रवक्ता धर्मेश सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के तरफ से उपमुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौराई एवं बिहार विधानसभा के प्रतीपक्ष के नेता विजय सिन्हा को बनाने से बिहार का बिकास तेजी से होगी।

लोक सभा चुनाव का मतगणना बाजार समिति में होगा: डीएम

● विभिन्न स्थलों का डीएम ने किया निरीक्षण

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा। लोक सभा चुनाव का मतगणना बाजार समिति में कराया जाएगा। जबकि कर्मशानिं और डिस्पैच को डिसेंट्रलाइज करते हुए तीन स्थानों को चयनित किया गया है। उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सारण के निरीक्षण के बाद कहीं। उन्होंने बाजार समिति कैम्पस के साथ ही राजेंद्र कालेज का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राजेंद्र कालेज से दो विधान सभा का डिस्पैच किया जा सकता है। जबकि परसा हाई स्कूल को दो विधान सभा के लिए डिस्पैच करते के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। शेष छह विधान सभा को बाजार समिति से डिस्पैच किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। डीएम श्री समीर ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा पीसीसीपी का पद समाप्त करने का निर्देश प्राप्त है। सामग्री के साथ इवीएम भी पीटासीनी पदाधिकारी

महिलाओं के हित एवं मजबूती के लिए देश के प्रधानमंत्री ने अमृतपूर्व कार्य किये : क्रांति यादव

● भाजपा ने ही सर्वप्रथम महिलाओं को संगठन से लेकर सदन तक आरक्षण देने का काम किया - रणजीत कु. सिंह

● भाजपा सरकार में हमेशा ही महिलाओं का मान सम्मान एवं विकास बढ़ा है - धर्मेश साह

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा। भारतीय जनता पार्टी छपरा के नारी शक्ति वंदन कार्यशाला का आयोजन सोलकी बी एड कॉलेज छपरा के प्रांगण में किया गया इस कार्यक्रम के प्रभारी जिला महामंत्री धर्मेश साह एवं जिला संयोजक महिला मोर्चा अध्यक्ष पूजा शर्मा थी कार्यशाला में मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश के मंत्री सह जिला प्रभारी कुमार क्रांति यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्शपूर्ण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ आज महिलाएं सब कर्म में सशक्त एवं मजबूत हुई हैं महिलाओं का मान सम्मान देश में बढ़ा है, महिलाओं के लिए किए गए कार्य को हर महिला तक गांव-

कभी जीवन दायिनी कही जाने वाली सरिसवा नदी को पुनः मिलने जा रहा जीवन

लंबे चले आंदोलन का परिणाम निकल कर आ रहा सामने, मिलेगी प्रदूषण से मुक्ति

प्रातः किरण संवाददाता

रक्सौल। जीवन दायिनी सरिसवा नदी प्रदूषण मुक्ति आंदोलन पूरे बिहार सहित कई राज्यों के लिए एक उदाहरण है, जिसे सफलता मिलने जा रही है। नामाभि गंगे योजना प्रोजेक्ट के द्वारा सरिसवा नदी पर दो एसटीपी प्लांट बेटाने हेतु 63 करोड़ 17 लाख रुपया राशि की स्वीकृति मिल गई है, जो ऐतिहासिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता है। उक्त बातें आज काली नगरी में नदी तट पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए सरिसवा नदी बचाओ आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने कही। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि यह नदी किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होने के बावजूद स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल एवं प्रचारकों की अपार सहयोग के कारण मुक्ति आंदोलन की सफलता इस मुकाम तक पहुंच पाई है। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं समिति के वरीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उन्होंने प्रचारकों को टीका लगाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही डॉक्टर संजय जायसवाल को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषण मुक्ति के क्षेत्र में एवं तिल तिल कर करने वाले रक्सौल की जनता के हित में बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ है, जिसके चलते पूरा सीमांचल आपका आभारी रहेगा। आप अमर हो गए हैं। प्रदूषण का कु प्रभाव जलचक्र, वनस्पतियों सहित पशु पक्षी सब पर पड़ रहा है। असंभव को संभव किया है। यह आंदोलन नेपाल एवं अन्य राज्यों को दिशा निर्देश देकर कार्य करेगा। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि यह नदी नेपाल के रामबन से निकलकर



अपने अंदर हिमालय तलहटी की दुर्लभ जडी बूटियों को समाहित कर कल-कल बहती हुई छोटी-छोटी नदियों में मिलते हुए गंगा में मिल जाती थी पर नेपाल के बारा एवं परसा जिला में औद्योगिकरण का आउटलेट अवशिष्ट नदी में प्रवाहित किया जाने के कारण गंगा सा निर्मल शुद्ध जल, काली दुर्गंध युक्त एवं जहरीले रसायनों के साथ बहने लगी। इस नदी के जल से 1980-81 में कालकाता से चलकर फादर क्रिस्टो दास रक्सौल आकर कुछ रोग का इलाज किया करते थे, पर यह नदी आज कुछ रोग पैदा कर रही है। अनेक प्रकार की घातक बीमारियां जैसे लिवर सिरोसिस, फिडनी फेल, कैंसर, चर्म रोग, हेपेटाइटिस एवं गिस्टिक आदि अनेकों को पैदा कर रही है, जिससे सैकड़ों की मौत हो चुकी है और कई मौत से जुड़ा रहे हैं। प्रचारकों की पहल पर 2010 में सरिसवा नदी बचाओ आंदोलन समिति का गठन प्रमुख पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हुआ और जन सहयोग से व्यापक आंदोलन प्रारंभ हुआ। नदी के तट पर 5000 लोगों ने अपने हथेलियां

पर जल लेकर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए संकल्प लिया। साथ ही भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय मार्ग को 5 घंटे तक पूरतया जाम कर दिया गया, जिसमें स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी आंदोलनकारियों के साथ धरना पर बैठे। अनेकों भव्य कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें भारत के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, गोलोक बिहारी राय, फादर क्रिस्टो दास सहित अनेक महानुभाव ने खुलकर सहयोग किया। 2000 महिलाओं ने अपने हथेलियों पर जलते हुए दीपक को लेकर प्रदूषण मुक्ति के संकल्प लिया। कई बार विशाल रैलियों का आयोजन हुआ। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा सहित अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुलकर आंदोलन को समर्थन दिया। साथ ही नेपाल के अंदर भी आंदोलन को गति देने का कार्य किया। जन संसद 2010 में सरिसवा नदी बचाओ आंदोलन समिति का गठन प्रमुख पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हुआ और जन सहयोग से व्यापक आंदोलन प्रारंभ हुआ। नदी के तट पर 5000 लोगों ने अपने हथेलियां

कार्यक्रम नहीं बना। स्थानीय सांसद डॉक्टर जायसवाल इस विषय को बार-बार भारतीय संसद में उठाते रहे, भारत के पर्यावरण मंत्री एवं विदेश मंत्री को इस विषय से अवगत कराते रहे जिसका परिणाम हुआ कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल सरकार को कथौड़ा, नेपाल उद्योग केंद्र के बाद एसटीपी प्लांट लगाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि निर्गत की पर नेपाल में किसी भी प्रकार का कोई कार्य न हो पाया। नेपाल के अंदर आंदोलन का परिणाम हुआ कि तीन अरब रुपया नदी में एसटीपी प्लांट बैठने हेतु एवं बीरगंज के नल नालों से आने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग मिला पर वह भी कार्य रूप ना ले पाया। नेपाल के 10 लोगों की समिति रिशेस त्रिपाठी के नेतृत्व ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया कि नेपाल गंदा पानी भारत में भेज कर अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर रहा है। अनेकों बार सरिसवा नदी समिति के तरफ से नेपाल सरकार एवं भारत सरकार सहित स्थानीय सांसद डॉक्टर जायसवाल को इस विषय से अवगत कराया जाता रहा, यहां तक कि भारत के विपक्षी नेताओं को भी मांग पत्र भेजा गया, बिहार सरकार को भी बार-बार भेजा गया पर किसी ने इसकी सुधि नहीं ली। बिहार विधान परिषद में हरेंद्र प्रताप ने इस विषय को उठाया पर बिहार सरकार ने दो देशों की बात कह कर इस विषय को केंद्र के पाले में डाल दिया। डॉक्टर जायसवाल ने इसे अपनी प्रीतिष्ठ बना लिया। आज इस नदी को मुक्ति के लिए किए गए संघर्ष का परिणाम है कि नदी प्रदूषण मुक्त होने की ओर अग्रसर हो रही है रक्सौल में दो एसटीपी प्लांट लगने जा रहा है, जो 2 मिलियन टन जल को प्रतिदिन साफ करेगा। साथ

ही रक्सौल नगर परिषद से आए आ रहे नल नालों के गंदे पानी को भी यह प्लांट प्रदूषण मुक्त कर नदी में प्रवाहित करेगा। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि पूरा सीमांचल डॉक्टर जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त करता है और किहा कि आभार व्यक्त करने के लिए शब्दों का अभाव हो रहा है। उन्होंने नदी मुक्ति के अथक प्रयास के लिए स्वर्गीय फादर क्रिस्टो दास को श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिन्होंने इस आंदोलन को धार देने का काम किया। डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार धीरज कुमार सिंह, नई दिल्ली, भारत के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, गोलोक बिहारी राय एवं पूर्व विधान पार्षद हरेंद्र प्रताप का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस आंदोलन को गति देने में और देश विदेश स्तरीय विषय बनाने में अथक प्रयास किया। सबों के द्वारा नगर के विधायक प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक डा. अजय कुमार सिंह सहित सभी जन प्रतिनिधियों, सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं सभी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले बंधुओं को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया गया। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर जायसवाल का अभिनंदन भव्य समारोह में किया जाएगा एवं सभी आंदोलनकारी को धन्यवाद दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आंदोलन के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश कुमार, महासचिव प्रोफेसर मनीष दुबे एवं कोषाध्यक्ष राकेश कुमार कुशावाहा ने भी संबोधित किया। जिसमें गुरू सिंह, ध्रुव प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ बड़ा बाबू, चंचर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता, महासचिव ई. आलोक श्रीवास्तव, प्रोफेसर चंद्रमा सिंह, गणेश घनोदिया, प्रोफेसर राजकिशोर सिंह, दुर्गेश साह, नीरज कुशावाहा, राम शर्मा आदि शामिल थे।

सांसद प्रतिनिधि ने विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनने पर किया स्वागत



प्रातः किरण संवाददाता

छपरा। बिहार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर सांसद प्रतिनिधि सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश कुमार सिंह ने बाबा हरनाथ मंदिर का प्रसाद और अंगवस्त्र देखकर सम्मानित किया ' इस अवसर पर राकेश सिंह ने कहा कि श्री सिन्हा इससे पहले श्रम

मंत्री विधानसभा अध्यक्ष और विरोधी दल के दायित्व को गुणवत्त पूर्वक निवाह कर चुके हैं ' बाबा हरहरनाथ की कृपा से इनका कार्यकाल यादगार होगा, साथ ही साथ उन्होंने मंदिर आने का अभिनंदन दिया ' इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि को आभार व्यक्त किया कि जल्द ही दर्शन करेंगे ' इस अवसर पर राहुल सिंह, विकास सिंह ,सनी कुमार, आईटी सेल मोनू के साथ कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जमा थी।

आईडीए अभियान को सफल बनाने के लिए आपस में समन्वय स्थापित करें : डीएम



● आईडीए की सफलता में आपसी समन्वय स्थापित बेहद जरूरी: जिलाधिकारी

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर जिला मुख्यालय स्थित शहरी क्षेत्र स्थित अन्य सभी प्रखंडों में आगामी 10 फरवरी से शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन (आईडीए) की सफलता के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित करें। उक्त बातें सोमवार को आईडीए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारण जिला मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अमन समीर ने कही। इस अवसर पर जिलाधिकारी अमन समीर, नगर निगम छपरा के आयुक्त सुमित कुमार, सिविल सर्जन डॉ सागर दुलाल सिन्हा, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ दिलीप कुमार सिंह, डीआईओ डॉ चंदेश्वर सिंह, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ आर एन तिवारी, जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम अरविंद कुमार, डीवीबीडीसी सुधीर कुमार, डीएमएडई ब्रजेश कुमार, वीडीसीओ अनुज कुमार, फाइलेरिया इस्पेक्टर मुस्तफा अंसारी, पीएमएल स्वास्थ्य के आर एम हरिशंकर कुमार, सिफार के डीपीसी धर्मेश रस्तोगी, पीसीआई के सौरभ बनर्जी सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। जबकि जिले के सभी एसटीओ, बीडीओ, एमओआईसी, बीएचएम और बीसीएम अपने- अपने संबोधित कार्यालयों में वचुंअल को माध्यम से आईडीए की शत प्रतिशत सफलता के लिए जिला समन्वय समिति (डीसीसी) की बैठक में जुड़े हुए थे। आईडीए की सफलता में आपसी समन्वय स्थापित बेहद जरूरी: जिलाधिकारी जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि सर्वजन दवा सेवन की शत प्रतिशत सफलता में जिले के सभी नागरिकों को आईडीए के तहत दवा खिलाना सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए शहरी क्षेत्र सहित जिले के सभी प्रखंडों में आगामी 10 फरवरी से शुरू होने वाले आईडीए कार्यक्रम में आपसी समन्वय स्थापित कर अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता या स्वास्थ्य सचिवों को सफलता के लिए सारण जिला मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में शामिल होना चाहिए।

तीन दिन बूथ स्तर पर और 14 दिन गृह भ्रमण कर दवा खिलाया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों में प्राथना सभा के दौरान आईडीए को लेकर बच्चों को किया जाए जागरूक: डीएम आईडीए अभियान की शत-प्रतिशत सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के अलावा अन्य सहयोगी संस्थाओं की अहम भूमिका होती है। इसके लिए सभी लोग अपने अपने स्तर से जन जागरूकता अभियान चलाकर सामुदायिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में प्राथना सभा के दौरान इस संबंध में बच्चों को जागरूक करेंगे। जिले में जीविका समूह द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीपियों के माध्यम से जागरूकता अभियान के साथ ही अभियान के दौरान फाइलेरिया दवा के बारे में लोगों को अवगत कराएंगी। आशा कार्यकर्ता ग्रह भ्रमण कर अपने सामने फाइलेरिया की दवा खिलाएंगी: सिविल सर्जन सिविल सर्जन डॉ सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि फाइलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन (आईडीए) कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ता या स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा गृह भ्रमण कर 2 साल से अधिक उम्र के लोगों को अपने सामने फाइलेरिया की दवा खिलाएंगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों के बीच राशन वितरित करने वाले डीलर भी अपने सामने लोगों को फाइलेरिया की दवा खाने के लिए प्रेरित करेंगे। आईडीए के दौरान खाली पेट दवा का सेवन नहीं करना होगा: डॉ दिलीप सिंह जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर रोग है जिससे फाइलेरिया की दवा सेवन करने के बाद ही बचा जा सकता है। कभी- कभी ऐसा भी होता है कि फाइलेरिया के परजीवी शरीर में होने के बावजूद भी इसके लक्षण सामने आने में वर्षों लग जाता है। इसलिए फाइलेरिया की दवा का सेवन सभी लोगों के लिए लाभप्रद है। लेकिन आप लोगों को कभी भी खाली पेट दवा सेवन नहीं करना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गंभीर रोग से ग्रसित एवं गर्भवती महिला को फाइलेरिया की दवा नहीं खिलाई जाएगी।

श्री चित्रगुप्त समिति से जुड़े सदस्यों ने मेयर को किया सम्मानित

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा। सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं रचनानात्मक कार्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले चित्रांशु समाज की सबसे पुरानी संस्था श्री चित्रगुप्त समिति की तरफ से छपरा नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता का भावपूर्ण अभिनंदन किया गया' अभिनन्दन समारोह में लक्ष्मी नारायण गुप्ता को समिति के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार वर्मा द्वारा अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया जबकि कार्यक्रम संपन्न एवं सारण जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉ. विद्या भूषण श्रीवास्तव, अशोक कुमार महासचिव राकेश नारायण सिन्हा एवं अभिषेक रंजन द्वारा समिति की ओर से अभिनन्दन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने अभिनंदन के प्रत्योत्तर में नवनिर्वाचित मेयर द्वारा कहा गया कि वे अपने कार्यों, व्यवहार और जल निकासी के साथ शहर का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और शहर के लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ने में चंद्र दिनों में ही सफल होंगे। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियमांकुल कार्य होंगे। कोइ रिश्तवत्खोरी या भाई भतीजा



वाद नहीं चलेगा।उनकी जीत जनता की जीत है। समिति के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार वर्मा द्वारा शहर के सभी वार्ड से उपस्थित चित्रांशु बंधुओं का परिचय कराया और वार्ड की समस्याओं से मेयर को अवगत कराते कहा। मेयर ने समस्याओं को सुची बद्ध करते हुए शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। मेयर ने कहा कि शहर के सड़को एवं गलियों में स्ट्रीट लाइट, नाला निर्माण और जल निकासी के साथ शहरियों और सड़को का निर्माण, शहर का विकास मेरी प्राथमिकता होगी। इसके पूर्व श्री चित्रगुप्त समिति एवं अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस अभिनंदन समारोह में डॉ.विद्या भूषण श्रीवास्तव ने चित्रांशु समाज द्वारा अपने दोनों

संगठनों के द्वारा समाज में किये गए कार्यों को सविस्तार रखा तथा कहा कि यह समाज सामाजिक विकास के प्रति सदैव समर्पित करें। संवेदनशील रहता है। धन्यवाद ज्ञापन समिति के संयुक्त महासचिव राकेश नारायण सिन्हा ने किया। इस अवसर पर मनोज साह, अरुण पुरोहित आदि उपस्थित थे। प्रास्थ में मेयर ने श्री चित्रगुप्त जी महाराज के तैल चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण अर्पित किया।

सारण स्पोर्ट्स क्लब ने खिलाड़ियों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा

● सेंट जेवियर्स स्कूल रामगढ़ा, शक्ति शांति अकादमी आनी व होली ट्रिनिटी मिशन स्कूल के छात्र खिलाड़ियों ने जीता मेडल व दर्शकों का दिल

प्रातः किरण संवाददाता

दिव्यवारा नगर। राम जंगल सिंह इंटर कॉलेज परिसर में सारण स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलस्पर्धाओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को छाप छोड़ी और अपनी खेल कौशल का प्रदर्शन कर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। डे नाइट के संपन्न हुए इस भव्य मुकाबले में कबड्डी, खो खो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग आदि खेलों का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. अमृत्यु सिंह, डॉ. पंकज कुमार सिंह, डॉ. जयप्रकाश, अशोक कुमार सिंह, मुखिया अजित सिंह, कॉलेज के प्राचार्य चंद्रशेखर भारद्वाज व रौशन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में आयोजन से जुड़े लोगों के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि ऐसी प्रतियोगिता के आयोजन से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। प्रतिस्पर्धा में गड्डा प्रखंड के रामगढ़ा स्थित सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल उपविजेता बनी बॉक्सिंग में एस.एस. बॉक्सिंग




के खिलाड़ियों ने खो खो व कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तो शक्ति शांति अकादमी आनी व होली ट्रिनिटी मिशन स्कूल के खिलाड़ियों समेत कई अन्य खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया। खो-खो के पुरुष व महिला वर्ग में शक्ति शांति अकादमी आनी विजेता एवं दोनों वर्गों में सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल रामगढ़ा की टीम उपविजेता रही। कबड्डी के अंदर 14 आयु वर्ग में एकलव्य एसपी एसपी एके डमी विजेता व शक्ति शांति अकादमी उपविजेता, पुरुष के अंदर 11 आयु वर्ग में सेंट जोसेफ एके डमी विनर व एकलव्य एसपी एसपी एके डमी उपविजेता, लड़कियों के अंदर 14 आयु वर्ग में एकलव्य एसपी एसपी एके डमी विजेता व सेंट जोसेफ को विजेता वहीं अंडर 11 के आयु वर्ग में सेंट जोसेफ एके डमी विजेता व सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल उपविजेता बनी बॉक्सिंग में एस.एस. बॉक्सिंग

क्लब की संजना व अनुराग के अलावे आरजेएस बॉक्सिंग क्लब के आयुष को स्वर्ण पदक एवं आरजेएस बॉक्सिंग क्लब के मुस्कान व बाबूल के अलावे से एस.एस. बॉक्सिंग क्लब के मोहन को सिल्वर पदक दिया गया। विजित प्रतिभागियों को अशोक सिंह, प्रो. सुनील सिंह, महेश स्वर्णकार, प्रो. अखिलेश, जनार्दन सिंह चौहान, रणजय कुमार, अच्युत कादिर, विनोद कर्ण तिवारी, कुंदन पीयूष, निशांत कुं कुमार, हिमांशु दुबे, राजेश सिंह, अंशु सिंह, विकास सिंह, सोनू कुमार व प्रियंका कुमारी ने सराहनीय सहयोग दिया। इस अवसर पर सोनू सिंह, कन्हैया सिंह, विजय कुमार, रघुनाथ कुमार, चंदन कुमार छोट्टू बाबा, राहुल कुमार, खेल शिक्षक राजेश कुमार आदि मौजूद थे।

मानवाधिकार व न्याय आयोग के सचिव बने प्रिंस राज, हुये सम्मानित

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा। शहर के भगवान बाजार रेलवे कारोनी निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा कायस्थ परिवार के जुझारू एवं कर्मठ सदस्य प्रिंस राज को मानवाधिकार एवं न्याय आयोग का सारण जिले का सचिव बनने पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान श्री चित्रगुप्त पूजा समिति कामना सखी मठ, प्रभुनाथ नगर के द्वारा अध्यक्ष जय प्रकाश वर्मा के द्वारा दिया गया। प्रिंस राज को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष जय प्रकाश वर्मा ने कहा कि यह चित्रांशु के लिए एवं सभी को बात है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग आम लोग खासकर गरीब, महिला, विधवा, बुजुर्ग एवं बेसहारा लोगों के मानवाधिकार



एवं न्याय के हित में काम कार्य करती है। अपने इस सम्मान के प्रत्योत्तर में आयोग के जिला सचिव प्रिंस राज ने कहा कि उचित न्याय दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी को आभार व्यक्त किया। कानून एवं मानवाधिकार का अक्षरशः पालन होगा। श्रीप्रकाश समाज की भरपूर सराहना की। इस मौके पर उदय प्रकाश वर्मा, श्रीप्रकाश वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, मुकेश वर्मा मिलिशेख वर्मा, सुक्त्य प्रकाश वर्मा, शशि कुमार श्रीवास्तव, रवि शंकर सिंह, अरुण श्रीवास्तव, चरण दास आदि उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

पूर्व मुखिया के आक्रामक निधन पर विधायक ने किया शोक व्यक्त

आरा, भाजयुमो आरा ग्रामीण अध्यक्ष सोनु कुमार सिंह के दादा, भाजपा नेता, रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जगरनाथ सिंह के आक्रामक निधन पर पूर्व कृषि मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से मर्मोहत हूँ वि मेरे अभिन्न मित्र व परिवार के सदस्य की तरह थे। जुझारू नेता के रूप में उनकी पहचान थी और वो काफी मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे। इनका जाना पार्टी और मेरे लिए व्यक्तित्व क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और ईश्वर इस दुख की घड़ी में परिजनों को ढाँढस और धैर्य प्रदान करें। शोक व्यक्त करने वालों में ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह, पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह, सुशील कुमार मिश्र, नगर अध्यक्ष जीतु चौरसिया, गौबिन कुशवाहा, चन्दन विश्वकर्मा, अरुण कुमार सिन्हा, शिवशंकर सिंह, भोलाजी मिश्र, गणेश सिंह, रघुवर पासवान, अमरकिशोर सिंह आदि प्रमुख हैं।

मनुआ वार्ड 17 में छत से गिरकर एक किशोर घायल

मनुआ वार्ड 17 में छत से गिरकर एक किशोर गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक मनुआ शहर के वार्ड 17 निवासी नाजीर खान का 14 वर्षीय पुत्र रेहान खान बताया जाता है। वहीं साथ में आए परिवजनों ने बताया कि किशोर छत के बलरेंजर पर खड़ा था। तभी अचानक चक्कर आने से छत से नीचे गिरकर घायल हो गया। जहा इलाज के लिए मनुआ के सदर अस्पताल लाया गया। वही निरन्तरिक बाद प्राथमिक उपचार करने के द्वारा रेफर इलाज के लिए अरुण सेंटर रेफर किया गया है।

चाय दुकान में चोरी कर चोरों ने उड़ाया लाखों का समान

नोखा (रोहतास) नगर परिषद के मुख्य बाजार स्थित एक चाय दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि रविवार की रात चोरों दुकान का पिछला दरवाजा तोड़ कर लाखों का सामान चुरा फरार हो गए। इस संबंध में दुकान संचालन अरुण सिंह ने बताया कि वह प्रतिदिन की तरह रविवार की शाम दुकान बंद कर के घर चले गए। लेकिन जब सोमवार की सुबह अपनी दुकान खोलने आया तो पीछे का दरवाजा टूटा हुआ। जहां चोरों ने दुकान में चोरी कर लाखों रुपये का सामान चुरा फरार हो गए थे। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय नोखा थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। जिसके सूचना के बाद स्थानीय पुलिस अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है।

21 पशुओं के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

दो वाहन जब्त, पुलिस ने भेजा जेल, एक पशु मिला मृत

प्रातः किरण संवाददाता

रामपुर, कैमूर। प्रखंड के करमचट थाना क्षेत्र के अमाव गांव के मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान रविवार दोपहर लगभग 3 बजे पुलिस द्वारा दो वाहनों क्रूरता से लोड कर ले जा रहे पशुओं को 5 तस्करों के साथ पकड़ा गया। दोनों वाहनों पर 21 पशु मिले, जिसमें एक पशु मृत हो गया। 20 पशु जंदा पाए गए। थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि भीतरीबांध की तरफ से महिंद्रा पिकअप और



टाटा मैजिक पर पशुओं को क्रूरता से लोड कर रोहतास के खुरमाबाद ले जाया जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद वाहन जांच

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्प लेना होगा : दीपंकर भट्टाचार्य

● भाकपा - माले ने किया जनसंकल्प सभा

प्रातः किरण संवाददाता

आरा, भाकपा - माले ने लोकतंत्र बचाओ - संविधान बचाओ जनसंकल्प सभा किया। यह सभा भाकपा - माले द्वारा कपूर्नी जयंती 24 जनवरी से चल रहा जनसंकल्प अभियान का समापन पर आज गांधी जी के शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर हुई। सभा की शुरुआत गांधी जी और कपूर्नी ठाकुर के शहीद वेदी गान पर माल्यापण व श्रद्धांजलि के साथ हुई। जिसके बाद शहीद गीत हुआ। इसके पूर्व सैकड़ों छात्र - नौजवान पार्टी महासचिव को कुल्हड़िया टोल प्लाजा सह अगवानी कर सभा स्थल पहुंचाया। सभा में जिले से आये हजारों किसान - मजदूर, छात्र - नौजवान, महिलाओं ने अपने हाथों में लाल झंडा लिए लोकतंत्र बचाओ - संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ - देश बचाओ। संविधान, लोकतंत्र पर हमला बंद करो। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की साजिश मुदाबांद, देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला नहीं सहेंगे। राम के नाम पर साम्प्रदायिक उन्माद की राजनीति मुदाबांद। धर्म और राजनीति का घालमेल बंद करो। कपूर्नी - गांधी की विरासत जिंदाबाद। भगत सिंह की क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद। नए भारत के वास्ते, भगत सिंह -अंबेडकर के रास्ते आदि नारे लगा रहे थे। सभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि आज यह सभा हम कपूर्नी से गांधी जी के शहादत दिवस तक जनसंकल्प अभियान सम्पन्न पर कर रहे हैं। कपूर्नी ठाकुर ने बिहार में सबसे ज्यादा गरीबों के आरक्षण, जेल में बंद गरीबों के लिए लड़ना पड़ा। इन्होंने अरवल जनसंघार



के समय विधानसभा में इसके खिलाफ लड़ था। तब से सोशलिस्ट - कम्युनिस्ट एक साथ लड़ने की बात हुई। गांधी जी को किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि विचार ने हत्या की थी। वे हिन्दू - मुस्लिम एकता के बात करते थे। आजादी के लड़ाई का सबसे अच्छा फसल संविधान था। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान की कसम खाई और आज बोल रहे हैं पार्टी महासचिव ने भेजा है। संविधान धर्म और राजनीतिक को अलग किया और आज संघर्ष का उद्घाटन साधु - संत हजारों किसान - मजदूर, छात्र - नौजवान, महिलाओं ने अपने हाथों में लाल झंडा लिए लोकतंत्र बचाओ - संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ - देश बचाओ। संविधान, लोकतंत्र पर हमला बंद करो। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की साजिश मुदाबांद, देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला नहीं सहेंगे। राम के नाम पर साम्प्रदायिक उन्माद की राजनीति मुदाबांद। धर्म और राजनीति का घालमेल बंद करो। कपूर्नी - गांधी की विरासत जिंदाबाद। भगत सिंह की क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद। नए भारत के वास्ते, भगत सिंह -अंबेडकर के रास्ते आदि नारे लगा रहे थे। सभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि आज यह सभा हम कपूर्नी से गांधी जी के शहादत दिवस तक जनसंकल्प अभियान सम्पन्न पर कर रहे हैं। कपूर्नी ठाकुर ने बिहार में सबसे ज्यादा गरीबों के आरक्षण, जेल में बंद गरीबों के लिए लड़ना पड़ा। इन्होंने अरवल जनसंघार

बात करनेवाला देश असज चुप है। और अपने मजदूरों को इजरायल भेज रहे हैं। भजपा राज्य में मजदूरों के भेजने का अभियान चल रहा है अब बिहार में भी चलेगा। इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती के साथ 24 का चुनाव लड़ेगी। सभा को सम्बोधित करते हुए मनोज मंजिल ने कहा कि बिहार में नौकरी देने का कारवां चल पड़ा था जिसमें भाकपा माले के संघर्षों के मुख्य भूमिका था। लेकिन नीतीश कुमार पलटो मार कर सामंती ताकतों के गोद में चले गए। राजू यादव ने कहा कि जब मोदी सरकार आई तो गरीबों को पक्का मकान, किसानों के आये बढ़ाने की बात की थी। लेकिन आज ये सब जुमला साबित हुई। अजित कुशवाहा ने कहा कि आज की सरकार गांधी की सत्य - अहिंसा की हत्या कर दी। गांधी के राम राज या चाहते हैं या उनके हत्यारों की? सभा को पार्टी महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई नेताओं ने सम्बोधित किया। मनोज मंजिल अगिआंव विधायक व खेसामस राज्य अध्यक्ष, राजू यादव केंद्रीय कमिटी सदस्य, सुदामा प्रसाद तरारी विधायक, दुर्गावंध विधायक अजित कुशवाहा, इंदु सिंह ऐय्या नेत्री, कयामुद्दीन अंसारी - शिक्षा, स्वास्थ का निजीकरण कर रही है। नीतीश जी जब महागठबंधन में आये तो बोले अब सही जगह आ गए। लेकिन उन्होंने जो आज किया वह तबहुत बड़ा विश्वास घात है। जब देश लोकतंत्र - संविधान बचाने के लिए एक जुट हो रहा है, देश में तना सही थोपने का कोशिश किया जा रहा है तो समय में जाना खुरा भोकने का काम किये। आप बोल रहे हैं हम कपूर्नी के अनुयायी हैं और आप उनके विचार के हत्यारों के गोद में चले गए। ये विश्वास घाट केवल बिहार नहीं पूरे देश के साथ किया। पिछले 7 अक्टूबर से गजा पट्टी पर जनसंघार हो रहा है। पूरे दुनिया पूछ रही है गरीब देशों की

के दौरान अमाव मोड़ से दोनों ही वाहनों को पकड़ा गया। दोनों ही वाहनों से 21 पशु पाए गए। जिसमें एक पशु मृत मिला। इसके साथ ही दोनों वाहनों से पांच तस्कर पकड़े गए। इस मामले में पुलिस ने वाहनों के साथ पशुओं और तस्करों को थाना लाया। पशु तस्करों मामले में गिरफ्तार तस्करों को सोमवार को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। जबकि मैजिक और पिकअप को थाने में जप्त किया गया है। पशुओं को भी रखा गया है।

पिकअप में 13 पशु, जबकि मैजिक में 8 पशु थापिकअप में तीन लोग थे, मैजिक में दो लोग सवार थे। गिरफ्तार कर जेल भेजे तस्करों की पहचान रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के खुरमाबाद गांव के मोहम्मद जुबेर अंसारी, परवेज कु रैशी, जमशेर आलम, वारिस कु रैशी, शाहिद कुरैशी के रूप में हुई है। सभी गिरफ्तार तस्करों का रामपुर पीएचसी में मेडिकल जांच करने के बाद न्यायिक रियासत में भुआ भेज दिया गया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के साथ की बैठक



प्रातः किरण संवाददाता

आरा : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान पैन इंडिया कैपेन के तहत बालबंदी के पहचान एवं उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब्रजेश कुमार मालवीय की अध्यक्षता में सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। अवर न्यायाधीश सह सचिव, गौतम कुमार ने बताया कि हालसा के तहत चलाए गए देशव्यापी अभियान रिस्टोरिंग द यूथ 2024 के आलोक में मंडल कारा आरा में जुवेनाइल जस्टिस कानून विषय पर

जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। कार्यक्रम में सचिव, गौतम कुमार ने कहा कि जुवेनाइल आरोपी को जेल में रखा जा प्रवधान नहीं है जुवेनाइल को बाल सुधार गृह में रखा जाता है। विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों के कानूनी प्रक्रिया में हर पहलू पर बालकों के हित को ध्यान में रखा जाता है। जेल में बंद ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लगता है कि अपराध किए जाने के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी तो वह अपने को जुवेनाइल घोषित करने की मांग करें। आगे सचिव ने बताया कि यह अभियान 25 जनवरी से 24 फरवरी तक चलेगा इस दौरान जुवेनाइल को प्राधिकार की ओर से निशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्भावना आवासीय उच्च विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन



प्रातः किरण संवाददाता

आरा : स्थानीय शान्ति स्मृति सम्भावना आवासीय उच्च विद्यालय, शुभ नारायण नगर, मझौवों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन कक्षा IX, X, XI तथा XII के छात्र-छात्राओं को समारोह प्रदत्त दिखाया गया। विद्यालय के डिजिटल कॉमन हॉल में बड़े स्क्रीन के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट को

छात्र-छात्राओं के बीच प्रदर्शित किया गया। छात्र-छात्राओं ने पुरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को सुना और बीच-बीच में तालियों के साथ स्वागत भी किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से किये प्रश्नों के उत्तर को सुनकर जोरावर तालियों से स्वागत किया गया। लाइव टेलीकास्ट के दौरान छात्र-छात्रा काफी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक-शिक्षिका भी शामिल हुये। प्राचार्या डॉ॰ अर्चना सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से छात्रों को प्रेरणा मिलती है तथा उन्हें परीक्षा के तनाव से बाहर निकलने में मदद मिलती है। यह कार्यक्रम ना सिर्फ छात्र-छात्राओं के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है।

छात्र-छात्राओं का कारुसिलिंग-सह-फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन

● छात्र-छात्राओं को एनसीईआरटी की पाठ्य-पुस्तकों से सभी विषयों में रिमीजन करना चाहिए

प्रातः किरण संवाददाता

आरा, स्थानीय शान्ति स्मृति सम्भावना आवासीय उच्च विद्यालय, शुभ नारायण नगर, मझौवों, आरा में आर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा-2024 में शामिल होने वाले विद्यालय के छात्र-छात्राओं का कारुसिलिंग-सह-फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन समारोहपूर्वक किया गया। कारुसिलिंग-सह-फेयरवेल कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा-2024 के परीक्षार्थियों को उनकी भावी जीवन के लिए शुभकामनायें दीं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद सह विद्यालय के निदेशक डॉ॰ कुमार द्विजेन्द्र ने

परीक्षा विद्यार्थियों को अपने भविष्य को सफल बनाने का पहला एवं अहम पड़ाव है। यहाँ से तय होता है कि भविष्य में हमें क्या करना है या बनना है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को बताया कि प्रति वर्ष सम्भावना विद्यालय के 40 से 50 बच्चे बोर्ड परीक्षा में 90% (नब्बे प्रतिशत) से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थी विद्यालय की परम्पराओं का निर्वहन करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होकर इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करेंगे तथा विद्यालय के गौरव को और आगे बढ़ावेंगे। उन्होंने परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा पर संबंधित कई अहम-सुझाव दिये तथा सभी परीक्षार्थियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनायें दीं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद सह विद्यालय के निदेशक डॉ॰ कुमार द्विजेन्द्र ने

बोर्ड परीक्षा-2024 में शामिल होने वाले सभी छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिये। उन्होंने छात्र-छात्राओं को समय प्रबन्धन के साथ पाठयक्रम के अनसार पढ़ाई करने की सलाह दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारम्भ होने में अब बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में छात्र-छात्राओं को एनसीईआरटी के पाठ्य-पुस्तकों से सभी विषयों में रिमीजन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं को सीबीसीएसई० द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न-पत्र को हल करके लिखने का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को प्रश्न का उत्तर याद रहने के बावजूद भी समय कम रहने के कारण उत्तर नहीं लिख पाते हैं। इससे बचने के

लिए लिखने का अभ्यास जरूरी है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त तथा एकाग्र रहने के लिए सुबह में टहलने तथा योग करने की भी सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के परीक्षा-प्रभारी श्री राजेश रमण ने सभी परीक्षार्थियों को सी०बी०एसई० द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विस्तार से समझाया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय के उप-प्राचार्य श्री ऋषिकेश ओझा ने छात्र-छात्राओं को परीक्षा के दौरान अनुशासन में रहने की नसीहत दी। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री अरविन्द ओझा ने किया। कार्यक्रम के अन्त में विद्यालय की प्राचार्या तथा निदेशक द्वारा सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को उपहार प्रदान कर विदाई दिया गया। इस अवसर पर बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र-छात्रा, उनके अभिभावक तथा सभी शिक्षक/कर्मचारी उपस्थित रहे।

रैली की सफलता को लेकर विश्वकर्मा समाज ने की बैठक

प्रातः किरण संवाददाता

जगदीशपुर/अंग भारत। जगदीशपुर नगर में विश्वकर्मा समाज से जुड़े लोगों की एक बैठक आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता नगर पंचायत के पूर्व नगर अध्यक्ष शिवजी वैश्य ने किया। बैठक में आगामी फरवरी को पटना के मिलर 12 हाई स्कूल मैदान में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ संघ के महासचिव संजोय कपूर ने पत्रकारों हंकार रैली की सफलता को लेकर विचार - विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि जगदीशपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं में लोग शामिल होकर रैली को सफल बनाने के काम करेंगे। शिवजी वैश्य ने बताया कि



5 सूत्री मांगों को लेकर हंकार रैली का आयोजन किया गया है। जिसमें विश्वकर्मा आयोग या शिल्प विकास निगम बोर्ड का गठन हो, बेरोजगारों का उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याज सहित 50 प्रतिशत अनुदान के साथ ऋण एवं ग्राम सभा की जमीन का पट्टा देने सहित अन्य मांग शामिल है। मौके पर नंच उपाध्यक्ष धनुषा देवी, अर्जुन शर्मा, जितेंद्र शर्मा, मुकेश शर्मा, अरुण शर्मा, राजभूषण शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।

गंगजोत यात्रा में मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा धार्मिक ट्यूरिज्म को बढ़ाने का होगा प्रयास : कैप्टन प्रवीण

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। सनातनी गंगा फाउंडेशन के अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण ने गंग जोत यात्रा, गंगजोत मेराथन, और इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ रिवर्स पर नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। कैप्टन प्रवीण ने बताया कि गंगजोत यात्रा में हम मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा धार्मिक ट्यूरिज्म को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मंदिरों के विकास के लिए उन्होंने 8 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की प्रवीण ने कहा कि हम मंदिरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए भी संकल्पित हैं। समाज में महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने सिलाई मशीन बाटने की घोषणा की। सेंटेटरी पैड भी महिलाओं के बीच बांटा जाएगा। बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री भी बाटने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम लोगों से सनातनी पर्यावरण प्रण लेने



का आग्रह किया जिसमें लोगों ने गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। उन्होंने सभी मंदिरों में गौशाला खोलने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि गंग जोत मेराथन में कई विदेशी धावक भी भाग लेंगे। गंग जोत मेराथन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार यह पटना तक होगा। 2025 में यह यात्रा गंगा

मोहन दास को भी कैप्टन प्रवीण ने उनके सहयोग के लिए साधुवाद दिया। कार्यक्रम में आचार्य लोकेश मुनि जी ने बोलते हुए कहा कि गंगजोत यात्रा एक अनूठी यात्रा है। उन्होंने कहा कि मेरा संगठन अहिंसा सदा सनातनी गंगा फाउंडेशन का सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के लोगों से इस संस्था को दिल खोलकर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह से भारत विश्व गुरु बन सकता है। उन्होंने नदियों के संरक्षण के लिए एक योजना बनाने की घोषणा की। आचार्य अनिल जी ने सभा में विचार व्यक्त करते हुए गंगा सनातनी फाउंडेशन को इस अनूठे कार्यक्रम के लिए साधुवाद दिया। साथ ही उन्होंने रथ की व्यवस्था करने की घोषणा की। डॉक्टर संदीप मारवा चांसर ए ए एफ टी मिडिया और कला विश्वविद्यालय ने कहा कि विश्व के अनेको देश उनके

साथ जुड़े हैं और वे उन देशों से इस संगठन से जुड़ते का अनुरोध करेंगे। इस्कॉन मंदिर दिल्ली के प्रमुख ब्रज नंदन दास ने कहा कि इस महान कार्य में हम सदा सनातनी गंगा फाउंडेशन के साथ हैं। और यात्रा मार्ग में जहां भी हमारा मंदिर होगा वहां पूर्ण सहयोग भी दिया जायगा। गंगोजी धाम के अध्यक्ष और मुख्य पुरोहित हरीश जी ने कहा कि गंगोजीधाम के पुरोहित इस कार्यक्रम में सदा साथ रहेंगे और गंगा कथा होती रहेगी। उन्होंने पटना में गंगा धाम बनाने के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी धारणा है सदी के दिनों में मां गंगा से जाती है, इस दौरान हम पटना में मां गंगा को स्थापित कर सकते हैं। इस दौरान पदमश्री नलिनी कर्मलिनी जी डॉक्टर जया शुक्ला, मनोज त्यागी मुख्य संपादक संस्कार टीवी, इसिका गुप्ता राष्ट्रीय साइकिल चैंपियन, स्वामी शशि महाराज जी भारतीय सेवा धर्म परिषद,

रीता सोनी भगत लेखिका, किरण सेठी (लेडी सिंघम दिल्ली पुलिस) सहित अनेकों लोगों ने भाग लिया। फाउंडेशन के महासचिव संजोय कपूर ने पत्रकारों को बताया कि पिछले साल 2023 में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और हम प्रतिवर्ष करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर बीएस तिवारी ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए सफलता की कामना की भारत की मेराथन क्वीन सुनीता गोदरा ने संगठन के कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जो भी खिलाड़ी मेराथन में भाग लेना चाहते हैं वो 10 फरवरी तक सनातनी गंगा फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रियांशु आठेय ने कहा कि इस कार्यक्रम से भारत में सामाजिक एकता आयेगी। उन्होंने बताया कि हम रास्ते में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मानित करेंगे।

पूर्व रक्षा मंत्री की पांचवी पुण्यतिथि समारोह मनाया गया



प्रातः किरण संवाददाता

आरा, भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जार्ज फर्नांडिस की पांचवी पुण्यतिथि समारोह कार्यक्रम गांव गरीब चेतना मंच आरा भोजपुर के संयोजक सह जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह चंद्रवंशी प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में माल्यापण कार्यक्रम आयोजित की गई। सर्वप्रथम उनके तैल चित्र पर माल्यापण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंच के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जार्ज फर्नांडिस साहब का व्यक्तित्व कृतिव लोकतांत्रिक देश के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणा श्रोत है। उन्होंने 1967 से लेकर 2004 तक नौ बार लोक सभा सदस्य रहे और उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेई की प्रधान मंत्री भारत सरकार के कार्य काल में रक्षा मंत्री रहे, और उद्योग, रेल, संचार मंत्रालय के पद भी सुशोभित कर मजदूरों का मसीहा बन कर देश के कांग्रेस पार्टी की सरकार को समूल उखारने का कार्य महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जननायक कपूर्नी ठाकुर, के विचार को आजीवन सकारात्मक रूप दिया और 1974 के जे पी आंदोलन देश भर के लाखों मजदूरों को लेकर छात्र छात्राओं नव जवानों को लेकर गांवों में आंदोलित कर समता मूलक समाज के निर्माण में ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान रहा है। प्रमुख सभाी कौशल किशोर, शशि कुमार, अरुण कुमार, रणधीर मालाकार, लाल बाबू पासवान, विकास कुमार मिंटू खान सुदर्शन राम प्रमुख ने भाग लिया।

मंत्री प्रेम कुमार को अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय चंद्रवंशी ने दी बधाई

प्रातः किरण संवाददाता

नोखा (रोहतास) बिहार में एनडीए की पुनः सरकार बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में व्याप्त है। जिसको लेकर पूरे बिहार में जदयू और भाजपा के समर्थक एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए मिठाई खिला खुशियां मना रहे हैं। जिस अवसर पर नोखा प्रखंड अंतर्गत अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भाजपा प्रेम कुमार के मंत्री बनने पर खुशी व्यक्त की। जहां प्रदेश मंत्री प्रेम कुमार से मिलते हुए लोगों ने उनका अभिनंदन करते हुए क्षेत्रों में अथुरी विकास कार्य में चार चांद लगाने का गुहार लगाया। मौके पर महासभा जिला प्रवक्ता प्रेम प्रकाश चंद्रवंशी, करग्रह प्रखंड अध्यक्ष अनुप चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष गोरख चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष सह नगर अध्यक्ष मनोज चंदेल, विनय चंद्रवंशी, मंगल चंद्रवंशी, उमाशंकर चंद्रवंशी, रोहित चंद्रवंशी, मिडिया प्रभारी मणु चंद्रवंशी, अजीत चंद्रवंशी, रौशन चंद्रवंशी, युप चंद्रवंशी सहित अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी महासभा रोहतास ने भी उनके मंत्री बनने पर बधाई दी है।

मारपीट मामले में टंपती ने प्राथमिकी दर्ज कराई

प्रातः किरण संवाददाता

नावानगर (बक्सर) स्थानीय थाना के रामपुर गांव में हुए मारपीट में पति व पत्नी गंभीर रूप से जखमी हो गये। जो दोनों घायलों का इलाज पीएचसी केसठ में कराया गया। इसको लेकर घायल सपना देवी द्वारा देवर और सास पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। वहीं घायल सपना ने अपने आवेदन में लिखा है कि मैं सुबह अपने घर के पास बैठी थी। इसी क्रम मेरी सास और देवर आकर लाठी से मारने लगे मुझे बचाने जब मेरे पति भरत कुमार आये तो उन लोको द्वारा उनके साथ भी मारपीट किया गया इसकी पुष्टि करते हुए नावानगर थानाध्यक्ष राजेश रंजन राय ने बताया कि पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

भागवत कथा का आयोजन में भक्तों की उमड़ी मीड़

प्रातः किरण संवाददाता

चेनारी (रोहतास) प्रखंड क्षेत्र के नामहट सेंटर द्वारा प्रस्तावित फीस्ट प्रोग्राम में परम पूज्य भक्त सत्यपाल दास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। जो प्रत्येक सोमवार को होता है। जिस तहत वृंदावन से अन्य वैष्णव जनों का आगमन हुआ। आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का सावित्री गुण मैरिज हाल में किया गया। अक्सर पर कथा वाचक सत्यपाल दास वृंदावन से आए संत एवं हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित होकर कथा का आनंद ले रहे थे। कथा के दौरान भक्त सत्यपाल दास के द्वारा कहा गया कि कृष्ण महिमा के बारे में बताएं कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही मुख्य सार है। ये मुख्य बातें वैसे ही जो भगवान से जोड़े उक्त बातें कथा के दौरान भक्त सत्यपाल दास के द्वारा कहा गया। आयोजित कथा के समापन के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया।

दो गुटों के आपसी झड़प में हुई पत्थरबाजी

प्रातः किरण संवाददाता

सासाराम (रोहतास) स्थानीय नगर थाना क्षेत्र के बाग भाई खां मुहल्ले से रविवार की देर शाम मजहबी झंडा लगाने के दौरान दो गुटों में आपसी झड़प की घटना सामने आई है। इस दौरान असाामाजिक तत्वों द्वारा हल्की-फुल्की पत्थरबाजी की गई। जिससे घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरातफरी माहौल हो गया और लोग इधर-उधर भागने लगे। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस से घटनास्थल पर मोर्चा संभाल लिया और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों को अपने अपने घरों में जाने का सख्त निदेश दिया। जिसके बाद स्थिति नियंत्रित हो गई। बताया जाता है कि किसी बिजली के खम्भे पर मजहबी झंडा लगाने को लेकर दो गुटों में आपसी विवाद शुरू हुआ था। तभी एक पक्ष द्वारा पत्थरबाजी की जाने लगी। जिससे घटनास्थल पर भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। पत्थरबाजी की घटना से सड़कों पर काफी पत्थर इकट्ठा हो गए तथा सड़कें भी सुनसान हो गईं। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार एवं नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा भी अपने दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करते दिखे तथा दंगा नियंत्रण दल को भी घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया। वहीं मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी विनीत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण करते हुए मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद आसपास के सीसीटीवी कैमरों के वतमान स्थिति से भी अवगत हुए तथा कई लोगों से पूछताछ भी की गई।

वाहन जांच में पुलिस ने वसूला 64 हजार जुर्माना

प्रातः किरण संवाददाता

कोचस (रोहतास) परसथुआ ओपी पुलिस ने सोमवार को थाना परिसर के सड़क वाहन जांच कारा 64 हजार का जुर्माना करते हुए सभी बाइकों को छोड़ा है। इसकी जानकारी देते हुए ओपी थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा भी अपने दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करते दिखे तथा दंगा नियंत्रण दल को भी घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया। वहीं मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी विनीत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण करते हुए मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद आसपास के सीसीटीवी कैमरों के वतमान स्थिति से भी अवगत हुए तथा कई लोगों से पूछताछ भी की गई।

अरवल, औरंगाबाद, गया

संक्षिप्त खबरें

फ्राइनेस कंपनी के युवक का टैब आदि हुआ चोरी

शेरघाटी फिज केयर स्मॉल फ्राइनेस कंपनी से लोन का पैसा देने गया कर्मों का टैब और एब्ल्यूटी हुई चोरी। उक्त मामले को लेकर पीड़ित कर्मों ने सोमवार को थाने में शिकायत दर्ज करवाया है। पुलिस से की गई शिकायत में औरंगाबाद जिले के कुदुम्बा के रहने वाले सूरज कुमार ने कहा की कंपनी के द्वारा समूह के महिलाओ को लोन का पैसा देने के लिए शहर गया आईटी आई के पास दलित टोले में गए थे तभी मैं पेशाब करने गया और उस स्थान पर मौजूद रीना देवी समेत अन्य महिला सभी लोग फरार थे साथ मे मेरा समान भी गायब था.

मोबाईल छिनटई में मुकदमा हुए दर्ज

शेरघाटी श्वाला क्षेत्र के कुदई टोला के रहने वाले जयदीप कुमार ने हटिया मोहल्ला के रहने वाले राजा पांडे के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट एवं मोबाईल छिनटई का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस से की गई शिकायत में पीड़ित ने कहा है, कि मामूली कहां सुनी के बाद आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया. इधर पुलिस ने पीड़ित के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरु कर दिया है.

सूर्य राघव महोत्सव 2024 अंतर्गत खेल प्रतियोगिता का आयोजन

औरंगाबाद। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन औरंगाबाद के संयुक्त तत्वाधान में सूर्य राघव महोत्सव 2024 बडेम के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिता एवं खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद कुमार ने बताया कि 1 फरवरी को जिला स्तरीय पेंटिंग मेहेंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वाह्न 10:00 बजे से सूर्य राघव मंदिर 10:00 बजे के निकट किया गया इसके अतिरिक्त 2 फरवरी को जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इसके लिए जिले के सभी कोर्ट के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा सभी कोर्ट के महाविद्यालय को पत्र भेजा गया है इन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता दो समूह में विभक्त होगी जूनियर समूह में वर्ग 9 से 12वीं तक के प्रतिभागी भाग लेंगे जबकि सीनियर समूह में स्नातक प्रथम खंड एवं इससे ऊपर के छात्र-छात्रा भाग लेंगे कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण की जा रही इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय कलाकारों को भरपूर मौका दिया जाएगा इसके लिए प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को महोत्सव स्थल जाने के लिए वाहन की व्यवस्था समिति के द्वारा की जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जन भागीदारी तथा छात्र तथा छात्राओं की भागीदारी हेतु इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन औरंगाबाद इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके प्रतिभा को दिखाने का मंच दे रही है।

शराब के साथ, धंधेबाज गिरफ्तार

नगड़ा। खैरा थाना क्षेत्र के गोबिंदपुर गांव के समीप से खैरा पुलिस ने 8 पीएम के 180 एमएल 36 पीएम के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया. उक्त गिरफ्तार धंधेबाज थाना क्षेत्र के गोबिंदपुर गांव निवासी मनीष कुमार बताया जाता है. वहीं इस संबंध में खैरा थानाध्यक्ष अनिमा राणा ने बताया की गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर करवाई की गई कार्रवाई में 8 पीएम के 36 बोतल शराब के साथ 15 लीटर देशी शराब भी बरामद किया गया है. गिरफ्तार धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है.

खुले में मांस मछली बिक्री करना नगर पालिका एक्ट के विरुद्ध

छपरा। सड़क किनारे खुले में मांस-मछली बिक्री करना नगर पालिका के नियम के विरुद्ध है, इसे व्यवस्थित ढंग से बिक्री की जाए इसके लिए ट्रेड लाइसेंस होना आवश्यक है, अन्यथा दंड के भागी होंगे। इस आशय की जानकारी नगर निगम के हवाल से जारी पत्र के आलोक में दी गई है। खुले में मांस - मछली बिक्री करना अमानवीय रूप से सामाजिक विकृति का उदाहरण है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी पत्र के आलोक में नगर आयुक्त द्वारा जारी पत्र के अनुसार मांस एवं कचुकेट की बिक्री खुले में काले कपड़े में लटका कर या धीले काले लगाकर आम आदमी के नजरों से ओझल रखा जाए। नगर आयुक्त ने नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत मीट-मछली कटिंग कर बेचने वाले नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना सुनिश्चित करें।

प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव चढ़ा हंगामा का भेंट

प्रातः किरण संवाददाता

शेरघाटी प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन अनुमंडल इकाई के पुनर्गठन समारोह हो हंगामा का भेंट चढ़ गया। इकाई के सदस्य जैसे ही समारोह स्थल पर पहुंचे। बैनर में पुनर्गठन शब्द न लिखकर वेलकम सेरिमनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा देखकर कई लोगों को आश्चर्य हुआ। क्योंकि जिला से आए इकाई के जिला इकाई के अधिकारियों ने कार्यक्रम का शुरुआत मनोनीत इकाई के अधिकारियों का मनोनीत सूची से नाम की घोषणा और माला पहनने का कार्यक्रम शुरु किया गया। इकाई के सदस्य अचानक इस दृश्य को देखकर अचंभित हो रहे थे। लेकिन जिला इकाई के अधिकारियों के सम्मान करते हुए विधि सम्मत तरीके से अपना विरोध दर्ज करने लगे। सर्वप्रथम सर सैयद अहमद स्कूल के संचालक हरीश कमल के द्वारा विरोध दर्ज कराते हुए कहा गया कि गठित कमेटी समाज से बाहर है। इसमें साजिश किया गया जिससे काफी नुकसान दायक है जो



लोग इस संगठन में नहीं है उन्हें भी कमीटी में जगह दिया गया है। उन्होंने कहा कि सूची में ऐसे लोगों का नाम अधिकारी और सदस्य में घोषित किया गया जो अनुमंडल इकाई के सदस्य ही नहीं है।

सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर किया है। इसी प्रकार चंद्रमणि विद्यालय के संचालक रामाश्रय शर्मा ने कहा कि संगठन के घोषित सूची देखकर हास्य पद रह गए उन्होंने कहा कि मैं 60 वर्ष की नौकरी कर रिटायर हो रहा हूं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जैसे संगठन का बड़े पदधारक

रहा हूं लेकिन इस प्रकार का हास्य पद घोषणा कभी नहीं सुना। संगठन लोगों के मेल मोहब्बत से चलता है ना की राजनीति से जिस प्रकार संगठन के सूची घोषित किया जा रहे हैं, वह कहीं पर से सकारात्मक नजर नहीं आ रहा है, जबकि वर्तमान अध्यक्ष शशिकांत शर्मा ने भी घोषित सूची पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह सूची दो चार लोगों के साजिश का परिणाम है। इससे संगठन को कमजोर किया गया है जो चंद पैसों के खातिर जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किए गए स्वागत में चंद पैसों के लिए

नई एनडीए सरकार में नीतीश कुमार ने कल शपथ ली

प्रातः किरण संवाददाता

औरंगाबाद। बिहार की नई एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल शपथ ली साथ ही उपमुख्यमंत्री के रूप में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिंहा जी शपथ लिये। भाजपा कोटा से गया विधायक प्रेम कुमार जी ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद खासकर औरंगाबाद जिले के समस्त एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं उल्लास का वातावरण है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सह सासुराम लोकसभा प्रभारी प्रेम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मुरेठा भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए बांधा गया था हमारी एक मां जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनके स्वर्गवास के बाद हमने जो संकल्प लिया था और हमारी दूसरी मां भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान सिद्ध होगा। श्री सम्राट जी में कार्यकर्ताओं के प्रति खासकर युवा के प्रति जो सच है वह आने आने वाला समय में बिहार के विकास में अवश्य दिखेगा। पूरे बिहार के युवा



पीढ़ी उपमुख्यमंत्री सम्राट जी में अपना भविष्य तलाश रही थी, अब वह जल्द पूरा होगा। श्री मेहता ने बताया कि सम्राट जी भावुक होते हुए पटना में प्रेम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मुरेठा भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए बांधा गया था हमारी एक मां जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनके स्वर्गवास के बाद हमने जो संकल्प लिया था और हमारी दूसरी मां भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान सिद्ध होगा। श्री सम्राट जी में कार्यकर्ताओं के प्रति खासकर युवा के प्रति जो सच है वह आने आने वाला समय में बिहार के विकास में अवश्य दिखेगा। पूरे बिहार के युवा

में समर्पण करेंगे श्री मेहता ने कहा की श्री सम्राट सभी समाज सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाले सोच रखते हैं साथ ही किसान युवा एवं महिलाओं के प्रति उनकी विशेष एजेंडा होगी। नई सरकार गठन के उपरांत पूरे बिहार में खास तौर पर अमर शहीद जगदेव बाबू के अनुयायियों में विशेष उत्साह एवं उल्लास का वातावरण है। जगदेव बाबू की अनुयाई 2024 लोकसभा चुनाव में सत प्रतिशत एनडीए सरकार के साथ हैं। बघाई देने वाले में राजीव रंजन भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रवक्ता अश्वनी तिवारी, मंडल अध्यक्ष दिनेश वर्मा, राकेश पांडे, लाल सक्ती रूपेश सोनी, महामंत्री जितेंद्र कुशवाहा, प्रिंस पाठक, उपाध्यक्ष शंभू कुशवाहा, मिथलेश कुशवाहा, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष विजेंद्र कुशवाहा, मनोज उर्फ पप्पू अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष टैगोर जी, जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माननीय सम्राट जी को बिहार में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है अब जंगल राज से बिहार के लोगों को आजादी मिल चुकी है बिहार में एक बार पुनः फिर से तेज गति से विकास होगा। बिहार को जंगल

एनडीए की सरकार बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी, बांटी गई मिठाई



प्रातः किरण संवाददाता

औरंगाबाद। बिहार में एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनने पर औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार कुमार सिंहा जी को बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा की बिहार में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है अब जंगल राज से बिहार के लोगों को आजादी मिल चुकी है बिहार में एक बार पुनः फिर से तेज गति से विकास होगा। बिहार को जंगल

राज से बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुग्गु मंत्री अमित शाह सहित बिहार बीजेपी ने तैतुक को इसके लिए आभार। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने कहा की नीतीश कुमार को एनडीए में आने से गठबंधन और मजबूत होगी तथा आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीट पर विजय होगा तथा 400 से अधिक सीट से जीतकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। खुशी जाहिर एवं बधाई देने वाले में भाजपा नेता सुनील शर्मा विनोद कुमार शर्मा सुनील सिंह रघुनाथ राम विनोद सिंह जुगल किशोर सिंह राकेश कुमार देवान वीरेंद्र कुमार सिंह अविनाश कुमार रमाकांत सिंह तीर्थ नारायण अरविंद सिंह छोट्टू कुमार सहित अन्य लोग शामिल हैं।

नई सरकार में होगी तेजी से विकास : प्रकाश पटवा

प्रातः किरण संवाददाता

गया। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नवमी बार मुख्य मंत्री बनाए जाने पर गया जिला जनता दल यू के गया जिला व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रकाश राम पटवा ने उन्हे बधाई एवं शुभकामनाएं देते कहा कि नीतीश कुमार जी द्वारा एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार बनाने हेतु लिया गया फैसला जनहित में है मैं इसका स्वागत करता हूँ इसके साथ ही साथ गया जिला से आदरणीय प्रेम कुमार संतोष कुमार सुभम सहित अन्य मंत्रियों को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने पर उन्हे बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। नई सरकार के गठन से बिहार का विकास केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर त्वरित गति से किया जाएगा। इस बधाई व खुशी जाहिर बाले साथी



संजीत कु अधिवक्ता, जीतेन्द्र कु जि.तु, मयंक चरण पहाड़ी, सुरेंद्र कु, नरेश कु अग्रवाल, सुनील कु विमलेश गुप्ता, मुरारी मनोहर आजाद, निशांत कु, सुनीता कु शर्मा, दिनेश दिवाकर, नरेंद्र अठधारा, शम्भू गुप्ता, शांतनु कु, रौशन कु, राजू रजक, आशीष कु, आकाश कु पटेल, शिव शंकर, अर्जुन बिंद, विजय कु, धर्मेद कु गुप्ता, धनजय गुप्ता, संजय गुप्ता, लेखराज कु, उषेंद्र सिंह, सुजीत उर्फ जीतू और राज्य सरकार द्वारा मिलकर त्वरित गति से किया जाएगा। इस बधाई व खुशी जाहिर बाले साथी

मगध महोत्सव पुस्तक मेला सह सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन

प्रातः किरण संवाददाता

गया। गांधी मैदान में चल रहे मगध महोत्सव पुस्तक मेला सह सांस्कृतिक उत्सव में विद्यालय स्तरीय मगध मेधा कंपटीशन के अंतर्गत नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 11:00 बजे अपराह्न से हुआ जिसमें विभिन्न विद्यालयों के 50 से अधिक स्कूल नि विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है। बच्चों ने देश भक्ति गीत और लोकगीतों पर आधारित नृत्यों की प्रस्तुति देखकर उपस्थित जनसमूह को खूब आनंदित किया है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में वरिय शिक्षक जैनेंद्र कुमार मालवीय आदि ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हे अपनी कलाकारी, दिनेश दिवाकर, नरेंद्र अठधारा, शम्भू गुप्ता, शांतनु कु, रौशन कु, राजू रजक, आशीष कु, आकाश कु पटेल, शिव शंकर, अर्जुन बिंद, विजय कु, धर्मेद कु गुप्ता, धनजय गुप्ता, संजय गुप्ता, लेखराज कु, उषेंद्र सिंह, सुजीत उर्फ जीतू, रजनीश कु, रिशेश कु, अंकित शर्मा, सतीश कु, विकास कु, रवि साहू, प्रीति कुमारी, इत्यादि।



कॉलेज लेवल के विद्यार्थियों के बीच मगध मेधा कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही है जिसका परिणाम 6 फरवरी 2024 को प्रकाशित करते हुए सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ-साथ भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मगध मेधा कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सहित मेला परिसर में भी हो रहा है। संस्थाकालीन सत्र में इस विशेष सैनिकों को समर्पित कार्यक्रम एक सलाम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के माध्यम से भारत के वीर सपूतों और सेनानियों को श्रद्धांजलि

प्रस्तुत की गई है। किलकारी और अन्य संस्थाओं द्वारा भी दिवस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिकों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम किए गए जिसके अंतर्गत सैनिकों के सम्मान में सामूहिक दीप प्रज्वलन कर सैनिकों को अपनी भावांजलि प्रस्तुत की है। मंगलवार 30 जनवरी को मगध मेधा कंपटीशन के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर निबंध लेखन वाद्ययंत्र वादन और महाविद्यालय स्तर में निबंध लेखन और सिंगिंग कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। कल दिवस विशेष के अंतर्गत राष्ट्र और गौरवशाली पेंतहासिक परंपरा को समर्पित में विभिन्न कार्यक्रम किए जाने हैं। इस कार्यक्रम में मंच संचालन खुशी तिवारी, अविनाश आचाय वं विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है।

डीएम ने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन की अन्य योजनाओं का किया शिलान्यास



प्रातः किरण संवाददाता

करपी अरवल प्रखंड क्षेत्र के चौहर पंचायत में बने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन अरवल जिलाधिकारी वर्षा सिंह के द्वारा किया गया। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई उद्घाटन के बाद उनका निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कार्य स्थल पर उपस्थित स्थानिय मुखिया कंचन बाला व अन्य पदाधिकारियों से अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण व इसके

रख रखाव संबंधी बातों पर चर्चा की। वहां पर उपस्थित सफाई कर्मियों से भी जिलाधिकारी महोदय ने बात की। जिलाधिकारी अरवल ने चौहर पंचायत में विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास किया। चौहर पंचायत में हडब का उद्घाटन के मौके पर डीएम वर्षा सिंह सिंह को स्थानिय मुखिया कंचन बाला ने चादर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया। डीएम ने चौहर पंचायत के बर्दीगढ़ खेल मैदान का स्टेडियम निर्माण व चौहर पंचायत में

उप मुख्यमंत्री सम्राट, विजय सिन्हा बनने पर विकास की रफ्तार होगी

प्रातः किरण संवाददाता

गया। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष को उप मुख्यमंत्री एवं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा संतोष कुमार सुभो को बिहार सरकार में मंत्री बनने पर मगध के समाजिक कार्यकर्ता सह शांति निकेतन एकेडमी के डायरेक्टर हरी प्रपन्ना ने फोन पर बधाई दी है इस मौके पर हरी प्रपन्ना ने कहा कि बिहार कि जनता अब सकुन महसूस कर रही है। अब बिहार कि जनता को डबल इंजन की सरकार से हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी, केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर लोककल्याण योजनाएं को काम काफ़ी हर क्षेत्र में विकास होगा, जहा रहा जाब और नौकरी देने की बात उसपर भी यह सरकार युवाओं को रोजगार देगी, समाज के अंतिम पायदान पर अपना जीवन यापन गुजर बसर करने वाले गरीबों को भी लाभ मिलेगा। बघाई देने वाले मे डा नवनीत निश्चल, डा नीरज कुमार, डा मृत्युंजय कुमार, डा ऋषिकेश कुमार सिंह, श्रवण शांडिल्य, लव कुमार काफ़ी संख्या में लोग ने बधाई दी।



अच्छे अर्थरथी को जीताए : समिति



प्रातः किरण संवाददाता

औरंगाबाद। जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के पुरानी पुस्तकालय में बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति शाखा औरंगाबाद का अहम बैठक आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष नीरज कुमार मंटू सिंह ने किया और संचालन नवीन कुमार सिंह ने किया, जिसमें जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद में 13 फरवरी को होने वाली चुनाव पर चर्चा किया गया और वक्ताओ द्वारा कहा गया कि कर्मठ योग्य इमानदार और युवाओ के हीत के लिए संघर्षरत अर्थरथी को वोट देकर विजयी बनाए। इस बार भी युवा अधिवक्ता कल्याण समिति शाखा औरंगाबाद के प्रतिनिधित्व का जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के कार्यसमिति में अच्छे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पिछले चुनाव में बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के अधिकांश अर्थरथी चुनाव में जीत हासिल करने में सफल हुए थे। अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने आगे बताया कि सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और अगली बैठक 07 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर अधिवक्ता अंजलि कुमार सरोज, संतोष कुमार सिंह, अखिलेश पाठक, काली प्रसाद, सुजीत कुमार सिंह, मगध प्रमंडल उपाध्यक्ष नीरज कुमार श्रीवास्तव, रंजन मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा, संजय कुमार, चंद्रन कुमार पांडेय, अनुराग कुमार, रंजीत कुमार, सुरेंद्र प्रसाद पप्पू, सतीश कुमार स्नेही, इम्त्याज अंसारी, रणविजय कुमार, दीपक कुमार वर्मा, पवन कुमार दीपक कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

झांसा देकर दूसरी शादी रचाने मंदिर पहुंचा युवक, मचा बवाल

प्रातः किरण संवाददाता

बनियापुर (सारण) प्रखण्ड के पैगम्बरपुर स्थित मन्दिर वधु पक्ष को झांसा देकर शादी करने आए वर पक्ष की उस वक्त फजीहत हो गयी जब यह वधु पक्ष को ज्ञात हुआ कि झांसा देकर लड़का दूसरी शादी करने आया है। लड़का का दूसरी शादी होने का मामला का खुलासा हुआ, तब बवाल मच गया। मामला को भायते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, तब मौके पर पहुंच कर प्रशासन मामले की जानकारी ली। तो पता चला की लड़का का विवाह पहले से हो चुका है, यह दूसरी शादी करने पैगम्बरपु मंदिर में आया था। बता दे कि मेथवलीया गाव निवासी हरिंदर ठाकुर का पुत्र पहले से विवाहित था, जिसे बीचबचीन द्वारा लड़की के परिचय वालों से बात कर शादी ठीक कर दिया गया था। लेकिन वक्त पर जब पता चला कि लड़का पहले से विवाहित, तो वधु पक्ष का गुस्सा फूट गया। और लड़की पक्ष ने जो पैसा बीचबचीनों के द्वारा लड़का पार्टी को 20000 हजार नगद दिया था। शादी तय करने के समय उस नगद की वापसी की मांग गई इस पर वर का पक्ष की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पैसा नहीं मिलेगा इस पर बवाल जमकर हुआ अंत में स्थानीय लोगों की प्रयास से लड़की वालों का पैसा लौटाया गया जहा बीच बचाव कर दिनों पक्ष को हटाया गया।

बजरंग बली के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकली कलश यात्रा



प्रातः किरण संवाददाता

दरियापुर स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के रघुपुर में हनुमान जी की प्राणप्रतिष्ठा व नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिला - पुरुष श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ मही नदी का पवित्र जल कलश में ले कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ मंडप में स्थापित किए। कलश स्थापना के साथ ही 24 घंटे का अखंड अष्टयाम शुरू हो गई, पंचायत सचिव पंचायत भवन पर नहीं आते जिससे वार्ड सदस्य नौ दिनों तक वृंदावन की ख्यातिप्राप्त कथा वाचिका स्नेहा प्रिया का प्रवचन होगा कलश यात्रा का नेतृत्व पंडित मुरारी मिश्र ने किया। वही यात्रा में मुख्य रूप से सुभम मिश्रा, सुदीप मिश्रा, जितेंद्र ओझा, युवा भाजपा नेता धर्नंजय चतुर्वेदी, सीमा देवी, पुनम देवी अरविंद अनुज आदि श्रद्धालुओं ने भाग लिया

मुखिया व पंचायत सचिव पर लगा मनमानी का आरोप

प्रातः किरण संवाददाता

एकमा - एकमा प्रखंड के बनपुरा पंचायत के मुखिया भुषण साह पर वार्ड सदस्यों ने मनमानी करने का आरोप लगाकर बीडीओ से शिकायत की है। दिए गए आवेदन में वार्ड सदस्यों ने कहा है कि मुखिया व पंचायत सचिव वीर किसी बैठक तथा आमसभा का आयोजन किए व वार्ड सदस्यों को जानकारी दिए मनमानी कर पंचायत का कार्य करते हैं, पंचायत सचिव पंचायत भवन पर नहीं आते जिससे वार्ड सदस्य उन्हे पहचानते तक नहीं है। वार्ड सदस्यों ने मुखिया व पंचायत सचिव पर जाली हस्ताक्षर का आरोप करने का भी आरोप लगाया है। सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के सभी कार्य को पूर्णवता पर भी सवाल खड़े किए हैं। दिए गए आवेदन में उप मुखिया शिवशंकर पण्डित, उमेश प्रसाद, मिन्दू देवी, नन्द कुमार सिंह, कुसुम देवी, मालती देवी, दुन्दुन ठाकुर, मानी देवी आदि सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में मुखिया भुषण साह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है।

संक्षिप्त खबरें
मारपीट के मामले में हुई प्राथमिकी दर्ज

तारापुर (मुंगेर)। तारापुर थाना क्षेत्र के गौरगम्मा गाँव में मकान के पूराने दीवाल पर ही दिवाल उठाने के सवाल पर ग्रामीण के साथ मारपीट की घटना में गंभीर रूप से जखमी निरंजन झा को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार कहते हैं, जखमी के भाई नीरज झा ने तारापुर थाना में सोनू झा सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पुरानी दीवाल को तोड़कर इस तरी पर दीवार खड़ा कर रहा था। सोनू झा, भानु झा, पिंकी देवी एवं अन्य ग्रामीण आए भेदी भेदी गालियाँ दीं। धारदार हथियार एवं लाठी डंडा से आकर दीवार देने से मना किया। मेरे यह कहने पर की अपने दीवाल पर ही दीवाल दे रहे हैं, उन लोगों ने मेरे भाई निरंजन झा के सिर पर वार कर दिया। वह खून से लथपथ हो गए, पिता विनोद झा बचाने के लिए आए, तो उन पर भी जानलेवा हमला किया। मेरे बाएं हाथ पर पीट में भी गंभीर चोट आई है। सभी ने जान मारने की नीयत से हमला किया था। सुरक्षा के साथ आरोपितों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का गुहार लगाया है। पुलिस मामले दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीन दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन संपन्न

मुंगेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीन दिवसीय 65वें संयुक्त प्रांत अधिवेशन पटना में रविवार को संपन्न हुआ। जिसमें नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस नई कार्यकारिणी में हवेली खड़गपुर के तीन कार्यकर्ताओं को जगह मिली जिसमें मुंगेर जिला के जिला संयोजक के रूप में अंकित जायसवाल का चयन किया गया। सत्यम कुमार निराला को पुनः दक्षिण बिहार प्रदेश सोशल मीडिया सहसंयोजक का दायित्व दिया गया है। वहीं शुभम केशरी को भी एक वार पुनः एबीवीपी दक्षिण बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व दिया गया। बताया गया कि अंकित जायसवाल का संघर्ष परिषद में 2015 से रहा है। इसके पूर्व अंकित नगर कार्यकारिणी, नगर सोशल मीडिया सहसंयोजक, नगर मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व निभा चुके हैं। सत्यम कुमार निराला का संघर्ष परिषद से 2014 से रहा है। इसके पूर्व नगर कार्यकारिणी, नगर सोशल मीडिया प्रभारी, नगर सह मंत्री, जिला सोशल मीडिया प्रभारी एवं प्रदेश कार्यकारिणी का दायित्व में रहे हैं। इन नाम के घोषणा होने के बाद एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता दीपक यादव सहित छत्र-छात्रा व समाज के कई गणमान्य लोगों ने बधाई दिया।

पटना-बक्सर-पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल का पाली हाल्ट पर ठहराव

हाजीपुर। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर दानापुर मंडल के पाली हाल्ट पर गाड़ी संख्या 03293/03294 पटना-डीडीयू-पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल एवं 03375/03376 पटना-बक्सर-पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल का 30 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर ठहराव प्रदान किया जा रहा है। आज से पाली हाल्ट पर गाड़ी संख्या 03375 पटना-बक्सर मेमू पैसेंजर स्पेशल 15.08/15.09 बजे तथा गाड़ी संख्या 03376 बक्सर-पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल 09.38/09.39 बजे रुकते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इसी आज से पाली हाल्ट पर गाड़ी संख्या 03293 पटना-डीडीयू मेमू पैसेंजर स्पेशल 20.52/20.53 बजे तथा गाड़ी संख्या 03294 डीडीयू-पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल 11.44/11.45 बजे रुकते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेगी।

भागलपुर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने संभाला पदभार

प्रातः किरण ब्यूरो

भागलपुर। इन दिनों बिहार में आईएस और आईपीएस का जिला स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी कड़ी में निवर्तमान में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का तबादला मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के रूप में स्थानांतरित हुआ है। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर के नए जिलाधिकारी के पद पर डॉ. नवल किशोर चौधरी को समाहरणालय में विधिवत रूप से अपना पदभार सौंप दिया है। वहीं सुब्रत कुमार सेन के कार्य समय भागलपुर जिला में दिए गए कार्यकाल के दौरान काफी अच्छा रहा है। विरमशिला समानांतरपुर भोलानाथ पुल के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किये गए हैं, जिसमें स्थानीय लोगों और पदाधिकारी का भरपूर सहयोग मिला है, वहीं जिला प्रशासन की पूरी टीम का



गिनाते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी लोगों के सहयोग से विकास कार्य धरातल पर उतारे जा सके। एक तरफ जहां सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि 3 साल का कार्यकाल हमारा काफी अच्छा रहा है विक्रमशिला समानांतरपुर भोलानाथ पुल के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किये गए हैं, जिसमें स्थानीय लोगों और पदाधिकारी का भरपूर सहयोग मिला है, वहीं जिला प्रशासन की पूरी टीम का

अपार्टमेंट में रह रही इंटर की छात्रा ने की खुदकुशी

भागलपुर। जिले भर में सुसाइड करने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक और मामला स्थानीय तिलकामांड़ी थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर रोड स्थित एक अपार्टमेंट में इंटर की छात्रा ने अपने कमरे के पंखे से दुपट्टा बांध गले में फंदा लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक छात्रा मुस्कान कुमारी ने सुसाइड करने के पूर्व पत्र लिखा था। मृतिका छात्रा बांका जिला के बेलहर की रहने वाली बतायी जा रही है। वहीं मृतिका सुदरवती महिला महाविद्यालय में अपार्टमेंट में रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं घटना की सूचना के बाद मृतका की बहन और चाचा सहित कई परिवार के लोग अपार्टमेंट पहुंचे जहां उसके रूम में अपनी मृत बच्ची को देख पूरा अपार्टमेंट चीत्कार के माहौल में तब्दील हो गया था। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंच घटना की जांच में जुट गई है।

महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हुआ आयोजित

● जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सट्टर मुंगेर सहित अन्य पदाधिकारी ने किया रवाना

प्रातः किरण संवाददाता

मुंगेर। सदर प्रखंड अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय के मैदान में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम आयोजित की गई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन अंबेडकर आवासीय विद्यालय सदर मुंगेर के शिक्षक सुंदर ने किया। वहीं कार्यक्रम में अंबेडकर आवासीय विद्यालय एवं



पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय के छात्र द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा हत्या पर नुककड़ नाटक पेश कर समाज में हो रही भू हत्या पर रोक लगाने को जागरूकता करने का काम किया अंबेडकर आवासीय विद्यालय के छात्रों द्वारा पेंटिंग कर बेटा और बेटी में फर्क दिखाने का प्रयास किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एकता कुमारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी श्रवणी गुप्ता, सीडीपीओ मुंगेर ग्रामीण प्रियदर्शिनी एवं शहरी रंजना सिन्हा, अति पिछड़ा आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सुजाता कुमारी, अंबेडकर आवासीय विद्यालय के प्रभारी मुरारी कुमार, महिला पर्यवेक्षक का ज्योति सिंह, सोनी कुमारी सहित सदर प्रखंड के सैकड़ों आंगनवाड़ी सेविका उपस्थित रही।

विदाई सह सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन



प्रातः किरण संवाददाता

नवगछिया (भागलपुर)। नवगछिया पुलिस जिला परिक्षेत्र अंतर्गत पुलिस केन्द्र में पुलिस आरक्षी अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज का विदाई सह सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजन किया गया। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओमप्रकाश अरूण, पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार पाण्डेय और तमाम एस एच ओ से लेकर हवलदार सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे थे। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने एसपी सुशांत कुमार सरोज के विगत तीन वर्षों के कार्यकाल को याद कर उन्होंने भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर पुलिस आरक्षी अधीक्षक श्री सरोज ने कहा कि विगत तीन वर्षों में मेरे कार्य के उपलब्धि का कोई क्रैडिट मेरा नहीं रहा है, मैं तो सर्वोपरि पब्लिक को मानता हूँ, अगर पब्लिक का साथ और सपोर्ट हमें व हमारी पुलिस टीम

● पुलिस केन्द्र नवगछिया में पुलिस आरक्षी अधीक्षक को पुलिस कर्मियों ने दिया गावगीनी विदाई

को नहीं मिला होता तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती, हर समय, हर जगह पर मुझे स्थानीय पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहा है, तभी विगत तीन वर्षों में नवगछिया पुलिस दियारा परिक्षेत्र इलाके के साथ साथ हर जगह अपने कार्य को फलीभूत कर पाने में सफल रहे हैं। अगर हमारे एक्शन बरुण कारवाही से किसी भी व्यक्ति या पुलिस पदाधिकारी या चौकीदार तक किसी को कोई क्षोभ पहुंची हो तो इसके लिए छमा करें, इतना कहते ही सबों की आंखें भर आईं। सभी उपस्थित पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने अपनी मन आंखों से पुलिस आरक्षी अधीक्षक की विदाई दी। साथ ही नवगछिया के नए पुलिस आरक्षी अधीक्षक के रूप में पटना के एसपी पुरण झा अपना पदभार संभालेंगे।

इनामी रकम के मोस्ट वांटेड नक्सली कारे लाल कोड़ा उर्फ प्यारे लाल कोड़ा गिरफ्तार

● विभिन्न थानों में अब तक 11 नक्सल कांडों में दर्ज है गिरफ्तार नक्सली, पिछले 10 वर्षों से चल रहा था फरार

प्रातः किरण संवाददाता

सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, पटना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत 32वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत कारवाही करते हुए रविवार (28.01.2024) को दो लाख इनामी रकम के मोस्ट वांटेड नक्सली



कारे लाल कोड़ा उर्फ प्यारे लाल कोड़ा को कजरा पुलिस थाना क्षेत्र के कानिमोह गाँव से गिरफ्तार किया गया।

लखीसराय, सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय की अगुवाई में स्थानीय पुलिस के सहयोग से कजरा पुलिस थाना क्षेत्र के कानिमोह गाँव में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया और मोस्ट वांटेड नक्सली कारे लाल कोड़ा उर्फ प्यारे लाल कोड़ा को कानिमोह गाँव से गिरफ्तार है। गिरफ्तार नक्सली कारे लाल कोड़ा पर लखीसराय जिले के विभिन्न थानों में अब तक ज्ञात 11 नक्सल कांड दर्ज है तथा वह पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा था। गहन पूछताछ के बाद, उसे अगली कारवाही के लिए पुलिस थाना बन्नु बगीचा ने अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान)

बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा रहें तैयार: राजद प्रवक्ता

प्रातः किरण संवाददाता

नवगछिया (भागलपुर)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की बनी बनाई विकासशील सरकार से अपना समर्थन वापस ले व एनडीए के साथ नौवां बार शपथ लेने के बाद पूर्व राजद प्रवक्ता शुभम यादव ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों को आड़ लेकर दलबदल मुख्यमंत्री बनकर रह गये हैं।



तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क, पर्यटन सहित अन्य कार्यों को मजबूत करने पर राजद तेजस्वी यादव को पटरी पर लाने का काम किया है। उन्होंने बिहार के लाखों लाख बेरोजगार



बाबुल वर्तमान में गोपालपुर के लोकप्रिय एबीवीसी इंटरस्ट्रीय उच्च विद्यालय में कार्यरत हैं, जबकी श्री बाबुल नवगछिया स्थित गोसाईगाँव के इलाके में उनका निवासी स्थान हैं। वहीं शिक्षक बरुण बबलू को बेहतर कार्य से सम्मान प्रदान करने के बाद परिवार से उनके परिवारों के

एलजी ने की एक्सवैल्यूसिड ऑफर्स की पेशकश

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक खास कैम्पेन 26 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेंटिंग 26 लांच किया है। यह कैम्पेन देश के गणतंत्र दिवस की भावना से भी जुड़ा है। 15 से लेकर 31 जनवरी तक के लिये एक्सवैल्यूसिड डील को पेशकश कर रहा है जिसमें ग्राहकों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले नए-नए प्रोडक्ट्स अपने घर ले जाने के लिये आमंत्रित किया गया है। एलजी इंडिया के एमडी होंग जु जीयोंन ने कहा, हम गणतंत्र दिवस से पहले अपने उपभोक्ताओं के लिये कुछ रोमांचक ऑफर्स को पेशकश कर रोमांचित हैं। ग्राहकों के लिये स्पेशल 2626 फिक्स्ड ईएमआई प्लान है, जिसमें पूर्वानुमान और प्रबंधन के योग्य भुगतान विकल्प हैं। एक अलग ऑफर के तौर पर पेरुपीज 26 एंड टेक होम एलजी प्रोडक्ट्स में उपभोक्ता वेहद कम अग्रिम कीमत पर उत्पादों को अपने घर ला सकते हैं।

हम पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिटाई खिला एक दूसरे को दी बधाई

प्रातः किरण संवाददाता

भागलपुर। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर हम पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर पार्टी के समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिटाई खिलाकर बधाई दी। इस क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः 9वीं बार मुख्यमंत्री बनाये जाने के साथ ही नम के राष्ट्रीय संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री जीवन राम मांझी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार में मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन के बनने पर उनके तैलचित्र को मिटाई खिला कर अपनी खुशी का इजहार किया है। भागलपुर जिला इकाई हम पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक रजक, जिला प्रभारी सह मुखिया अजय कुमार राय, जयदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष



दिलीप मंडल, नाथनगर प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार, विजय कुमार रजक, तनकीर्ती प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमित कुमार साह, युवा के जिला अध्यक्ष सनोज यादव, रंजीत कुमार, मनोज कुमार, रोहित कुमार, विपिन मंडल, राजेश मंडल, भुवनेश्वर मंडल, दिलीप कुमार, दीपक कुमार इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिटाई खिलाकर नई सरकार

इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को स्वच्छ करने को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक

प्रातः किरण संवाददाता

मुंगेर। आगामी 01 से 12 फरवरी तक होने वाले इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर सोमवार को सभागृहलय सभागार में जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में ब्रिफिंग बैठक आयोजित की गयी। इस में परीक्षा के सफल संचालन एवं उससे संबंधित विधि व्यवस्था संधारण को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, उध विकास अनुमंडल अजीत कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने परीक्षा में किसी



भी प्रकार की कोई गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाने, केंद्र में प्रवेश के पूर्व छात्र-छात्राओं की जांच करने के अलावे परीक्षा भवन में प्रवेश के उपरांत भी उनकी सही से जांच करने का निर्देश दिया गया है इसके अलावे किसी भी प्रकार

18 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे:- इन केंद्र पर 18 हजार 671 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। इसमें सदर अनुमंडल मुंगेर अंतर्गत विभिन्न 15 परीक्षा केंद्रों में 9668 बालक तथा 4646 बालिका कुल 14314 परीक्षार्थी भाग लेंगे। जबकि हवेली खड़गपुर में 2332 तथा तारापुर में 2025 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। सदर अनुमंडल अंतर्गत बीआरएम कॉलेज, मुंगेर को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया जबकि खड़गपुर अनुमंडल में आरएसके +2 उच्च विद्यालय खड़गपुर तथा तारापुर अनुमंडल में आदर्श उच्च विद्यालय तारापुर को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी केंद्राधीक्षकों एवं वीक्षकों को परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि

किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की लापरवाही अथवा अन्य कोई सूचना प्राप्त हुई तो संबंधित केंद्राधीक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन परीक्षा केंद्र पर होगी परीक्षा:- अनुमंडल मुंगेर अंतर्गत 15 परीक्षा केंद्रों में टाउन उच्च विद्यालय, मुंगेर, सरस्वती शिशु मंदिर, शादीपुर, मुंगेर, आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर, बीआरबी हाईस्कूल माधोपुर मुंगेर, बीआरएम कॉलेज मुंगेर, डीएभी पब्लिक स्कूल पूरबसराय मुंगेर, उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी मुंगेर, बैजनाथ बालिका अनुमंडल में आदर्श उच्च विद्यालय तारापुर में आदर्श उच्च विद्यालय तारापुर को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी केंद्राधीक्षकों एवं वीक्षकों को परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि

बालू की अवैध ढुलाई से बालू माफियाओं की कट रही है चांदी

प्रातः किरण संवाददाता

हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। ओवरलोड ट्रैकों पर परिवहन विभाग व खनन विभाग की भ्रष्टाचार रवैया के कारण खुले आम अवैध बालू की ढुलाई माफिया के द्वारा की जा रही है। इस संबंध में सूत्र बताते हैं कि बालू लंदे ट्रक जमुई जिला मुख्यालय के कटौना एवं पटनेश्वरी स्थान और बरियारपुर के गंगा घाटों से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैकों की आवाजाही हो रही है। बरियारपुर के कल्याण टोला घाट भेरू मंडल टोला घाट कल्याण टोला घाट फुलकिया घाट मीरपुर घाट बंगाली टोला घाट से संफेद बालू का उठाव हो रहा है। वहीं हवेली खड़गपुर के डंगरी नदी अगैया नदी

और महाने नदी से लाल बालू का उठाव इन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं जमुई जिला के कली नदी के कटौना और पन ईश्वर के कारण बालू की ढुलाई हो रही है सूत्रों ने बताया कि सैकड़ों ट्रक दिन-रात ओवरलोड लेकर लक्ष्मीपुर घाट हवेली खड़गपुर श्यामपुर नया नगर बरियारपुर थाना से होकर कृष्णा सेतु उत्तर बिहार की नया घाटा से अधिक ट्रक गुजरती हैं। बताया जाता है कि इन में से 20 से 30% तक डंपरों में बिना परमिट का बालू होता है। वहीं लगभग 25 से 35% ट्रैकों में ओवरलोड बालू रहता है। आश्रय की बात है कि जनता थाना के पास खनन विभाग ने बालू ढुलाई को लेकर कैप स्थापित किया है फिर भी बिना परमिट और ओवरलोड ट्रैकों व डंपर ऑन पर बालू चल रहा है। खनन विभाग परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार के कारण बालू की ढुलाई हो रही है सूत्रों के अनुसार तारापुर मोड़ से लेकर कृष्णा सेतु मुंगेर तक के थानेदारों की प्रतिदिन को कमाई 50 हजार से 60 हजार की होती है। जिला खनन निरीक्षक रूपा कुमारी ने बताया कि पैरों मंडल टोला गंगा घाट से अवैध बालू ढुलाई पांच ट्रैक्टर तीन डंपर को जत किया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है उन्होंने बताया कि चालक डंपर और ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकलते हैं। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है।

इंग्लैंड से पहला टेस्ट गंवाकर बोले रोहित शर्मा 'यह बताना मुश्किल है कि गलती कहाँ हुई'




हैदराबाद (एजेंसी)। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को पांच मैच की श्रृंखला के पहले टेस्ट में मिली हार के लिए शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की विफलता पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनमें निचले क्रम के बल्लेबाजों द्वारा दिए गए जुझारूपन और जज्बे की कमी थी। भारतीय टीम को 231 रन का लक्ष्य मिला जिसके जवाब में टीम 202 रन पर आउट हो गयी और इंग्लैंड ने 28 रन की जीत से पांच मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनायी। हालांकि भारत ने पहली पारी में 190 रन की बड़ी बढ़त हासिल की थी।

रोहित ने मैच के बाद कहा, 'यह बताना मुश्किल है कि गलती कहाँ हुई। 190 रन की बढ़त से हमने दबदबा बनाया था लेकिन ओली पोप (196 रन) ने क्या शानदार बल्लेबाजी की जो शायद किसी विदेशी खिलाड़ी की भारतीय हालात में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी में से एक थी। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि 230 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें लगा कि हमने सही लाइन एवं लेंथ में गेंदबाजी की। लेकिन आपको कहना ही होगा कि बहुत बड़िया खेले ओली पोप।

रोहित ने कहा, 'एक या दो चीजों को देखना मुश्किल है। हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सके। 20-30 रन से कुछ भी संभव है। निचले क्रम ने अच्छा संघर्ष दिखाया और शीर्ष क्रम को दिखाया कि कैसे बल्लेबाजी की जाए। हमने कुछ मौकों का फायदा नहीं उठाया, लेकिन ऐसा हो सकता है। यह श्रृंखला का पहला मैच है। उन्होंने कहा, 'निचले क्रम ने वास्तव में अच्छा जज्बा दिखाया। आपको साहसिक होना चाहिए जो मुझे लगता है कि हम नहीं थे।

यह हमारी सबसे बड़ी जीत है, भारत को पहला टेस्ट हराकर बोले स्टोक्स



हैदराबाद (एजेंसी)। बेन स्टोक्स ने पांच मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में रविवार को यहां भारत पर 28 रन की जीत को इंग्लैंड के कप्तान के रूप में अपनी सबसे बड़ी सफलता करार दी। ओली पोप के शानदार 196 रन और पदार्पण कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर टॉम हार्टले के सात विकेट की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में 190 रन के बड़े अंतर से पिछड़ने के बाद भी मैच में वापसी की।

स्टोक्स ने मैच के बाद कहा, 'जब से मैंने कप्तानी संभाली है, एक टीम के रूप में हमने कई शानदार पल बिताए हैं। हमने कई शानदार जीत हासिल की हैं।% उन्होंने कहा, 'हमने कुछ अद्भुत मैच खेले हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह जीत निश्चित रूप से मेरे कप्तान होने के बाद से हमारी सबसे बड़ी जीत है।

बुमराह ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, फटकार के साथ लगा 'जुर्माना'

हैदराबाद (एजेंसी)। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए आधिकारिक फटकार और जुर्माने के रूप में एक डिमैट अंक जोड़ा गया है। भारत रविवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मैच 28 रन से हार गया था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा कि बुमराह को खिलाड़ियों और खिलाड़ी समर्थन कार्मिक के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो किसी खिलाड़ी, खिलाड़ी समर्थन कार्मिक, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से संबंधित है। इसमें यह भी कहा गया है कि बुमराह के अनुयायनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमैट अंक जोड़ा गया है, जिनके लिए यह 24 महीने की अवधि में पहला अपराध था।

भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मुकाबला जीता अमेरिका को 201 रन से हराया, अर्शिन कुलकर्णी का शतक, टेबल टॉप पर इंडिया



ब्लोमफोंटेन (एजेंसी)। भारतीय टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरा मुकाबला जीत लिया। टीम ने रविवार को रूफ स्टेज के आखिरी मुकाबले में अमेरिका को 201 रन से हराया।

ब्लोमफोंटेन में अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 326 रन बनाए। जवाब में अमेरिका 50 ओवर में 8 विकेट पर 125 रन ही बना सका।

भारत की ओर से अर्शिन कुलकर्णी ने शतक और मुशीर खान ने अर्धशतक लगाया। वहीं, नमन तिवारी ने 4 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत रूफ-ए की टेबल में टॉप पर आ गया है।

अर्शिन-मुशीर के बीच शतकीय साझेदारी- भारत ने पहले बल्लेबाजी की। टीम के लिए आदर्श सिंह और अर्शिन कुलकर्णी ने गेम की शुरुआत की। आदर्श 12वें ओवर में 25 रन बना कर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर मुशीर खान आए, जिन्होंने कुलकर्णी के साथ शतकीय साझेदारी की। 36वें ओवर तक चली इस साझेदारी में दोनों ने साथ 155 रन जोड़े और भारत को मजबूत स्थिति पर ला कर खड़ा कर दिया। मुशीर 36वें ओवर की पहली बॉल पर 73 रन बना कर आउट हुए।

अर्शिन ने शतक लगाया, आखिरी 10 ओवर में स्ट्राइक बैटिंग की

मुशीर के विकेट के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बड़े शॉट्स खेलना शुरू किया। कप्तान उदय सहारन 35 रन और सचिन दास 20 रन बना कर आउट हुए। वहीं, अर्शिन ने इस दौरान अपना शतक भी पूरी किया। उन्होंने 118 बॉल में 108 रन की पारी खेली। प्रियांशु मोलिया 27 रन और एरेवेली अविनाश क्रमशः 27 रन और 12 रन बना कर नाबाद रहे।

अमेरिका के अतींद्र सुब्रमणियन को 2 विकेट

अमेरिका की ओर से अतींद्र सुब्रमणियन को सबसे ज्यादा 2 विकेट मिले। वहीं, आरिन नदकर्णी, ऋषि रमेश और आर्या गर्ग को 1-1 विकेट मिला।

अमेरिका की शुरुआत खराब, धीमी बल्लेबाजी की

अमेरिका 327 रन का दिया टारगेट चेज करने उतरा। प्रणव चैत्तिपालयम और भव्य मेहता ने पारी की शुरुआत की। प्रणव 2 रन और भव्य 0 रन बना कर आउट हो गए। यहां से टीम की पारी स्लो हो गई। नंबर-3 पर आए सिद्धार्थ कप्पा ने 60 बॉल में 18 रन बनाए। वहीं, कप्तान ऋषि रमेश 8 रन बना कर पवेलियन लौटे।

उत्कर्ष ने सबसे ज्यादा रन बनाए

अमेरिका के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 73 बॉल में 40 रन की पारी खेली। उनके बाद आए मानव नायक 0 रन और पार्थ पटेल 2 रन बना कर आउट हो गए। वहीं, अमोघ एरेपल्ली 27 रन और अतींद्र सुब्रमणियन 3 रन बना कर नाबाद रहे। टीम टारगेट चेज नहीं कर सकी।

नमन तिवारी ने लिए 4 विकेट

भारतीय टीम के लेफ्ट आर्म पेसर नमन तिवारी ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं, राज लिंगबानी, मुरगन अभिषेक, सौम्य पांडे और प्रियांशु मोलिया को 1-1 विकेट हासिल हुआ।

गुयाना के सिक्वोरिटी गार्ड ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड

स्टार्क की यॉर्कर से अंगूठा टूटा हॉस्पिटल गए, इलाज कराया, 7 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को जिताया

ब्रिसबेन (एजेंसी)। वेस्टइंडीज ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। टीम ने कंगारूओं को ब्रिसबेन के द गाबा मैदान पर 36 साल बाद 8 रन से टेस्ट हरा दिया। विंडीज ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत हासिल की। इस जीत की इबारत लिखी गुयाना के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ ने, जो एक साल पहले तक सिक्वोरिटी गार्ड बनकर जीवन गुजारा रहे थे।



रविवार को इस गेंदबाज ने पैर के चोटिल अंगुठे के साथ बॉलिंग की और 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को ड्रिब्यू टेस्ट में 5 विकेट, सीरीज में 13 विकेट निकाले

स्मिथ के विकेट के बाद शमार ने मार्नस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन को भी पवेलियन भेजा। उन्होंने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट लिए लेकिन अपनी टीम को जीत के करीब नहीं पहुंचा सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 10 विकेट से जीता क्योंकि शमार ने दूसरी पारी में 12 बॉल पर 15 रन बनाकर अपनी टीम को पारी की हार से बचाया था। शमार ने फिर दूसरे टेस्ट में कुल 8 विकेट लेकर टीम को जिताया और 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से ड्रॉ करा दी। 2 मैच में 13 विकेट लेने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला। वह दूसरे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे।

2018 में पहली बार चलाया इंटरनेट

24 साल के शमार जोसेफ 3 बहनों और 5 भाइयों के परिवार में पले-बढ़े। वह गुयाना आईलैंड में बाराकारा के एक छोटे से समुदाय से आते हैं। यहां लगभग 350 लोग ही रहते हैं। यहां शहर से नाव के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। बाराकारा के घरों में साल 2018 तक इंटरनेट और टीवी भी नहीं था। पूरे समुदाय के बीच केवल एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था। लैंड-लाइन से ही दूसरे शहर के लोगों से बात कर सकते थे। यहां तक कि आईलैंड में हॉस्पिटल और स्कूल भी एक-एक ही थे, वो भी प्राइमरी। यानी गंभीर एक्सिडेंट का इलाज और स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था।

लकड़ी काटकर घर चलाते थे, एक्सिडेंट के बाद सिक्वोरिटी गार्ड बने

शमार एक समय तक बाराकारा के जंगल से लकड़ी काटकर अपना घर चलाते, उनका परिवार लकड़ी ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वह जंगल जाते और लकड़ी काटकर लाते। लकड़ी काटते हुए एक दिन वही पेड़ जमीन गिरा और उनकी जान बाल-बाल बची। तब से उन्होंने लकड़ी काटना छोड़ दिया। वह लकड़ी काटने के दौरान जंगल में टैप बॉल और कपड़े की बॉल के साथ-साथ नींबू, अमरूद और सेब जैसे फलों से गेंदबाजी करते थे। बाराकारा में इस तरह के खेल को जंगल-लैंड क्रिकेट कहते हैं। जोसेफ ने लकड़ी काटना छोड़ा और न्यू एम्स्टर्डम में रहने लगे। यहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी की। कुछ दिन बाद ही उन्हें सिक्वोरिटी गार्ड का काम मिल गया। यहां उन्हें 12 घंटे कीशिफ्ट में काम करना पड़ता और खाली समय में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी की सलाह पर नौकरी भी छोड़ दी।

द्रविड़ बोले- पहली पारी में 70-80 रन कम बनाए

इंग्लैंड ने 28 रन से हैदराबाद टेस्ट हराया, स्टोक्स ने कहा- उनकी सबसे बड़ी जीत

हैदराबाद (एजेंसी)। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि टीम पहली पारी में 70-80 रन कम बनाने के कारण हारी। भारत ने हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में 190 रन की बढ़त बनाने के बावजूद 28 रन से मुकाबला गंवा दिया।

दूसरी ओर, रविवार को मैच के बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि ये उनके कप्तानी करियर की सबसे बड़ी जीत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।

किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली- द्रविड़- द्रविड़ ने कहा, चौथे दिन पिच बैटिंग के लिए मुश्किल थी। मैं बल्लेबाजों की ज्यादा गलती नहीं मानूंगा लेकिन मुझे लगता है हमने दूसरे दिन पहली पारी में 70 रन कम बनाए, उस वक्त पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी। बैटर्स ने अच्छी शुरुआत की लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना सका। किसी ने शतक नहीं लगाया, कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका। इसलिए हम पहली पारी में 70-80 रन से पीछे रह गए।

पिच पर 196 रन बनाना शानदार है, वो भी तब जब टीम का कोई और बैटर फिफ्टी भी नहीं लगा सका। मैंने किसी टीम को इतने शानदार स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलते नहीं देखा। क्वालिटी बॉलिंग लाइन-अप के सामने ऐसे शॉट्स खेलना मुश्किल रहता है। हम अब इन शॉट्स के खिलाफ बेहतर प्लान के साथ बॉलिंग करेंगे।

हार्टले की बॉलिंग भी शानदार- द्रविड़ ने कहा, लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ चौथे दिन की पिच पर पैरों का इस्तेमाल करना रिस्की होता है। इन कंडीशन में स्वीप और रिवर्स स्वीप से ही ज्यादा रन बनते हैं। हम आगे के मैचों में बेहतर प्लान के साथ बैटिंग पर भी ध्यान देंगे।

स्टोक्स के लिए रही सबसे बड़ी जीत- इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि ये उनके कप्तानी करियर की सबसे बड़ी जीत है। स्टोक्स ने जून 2022 में इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तान संभाली थी। वह बोले, मेरी कप्तानी में हमने कई बेहतर मैच जीते, कुछ मैच तो बहुत ही शानदार रहे।

आईपीएल के लिए तैयार हैं दीपक चाहर

बोले- टी-20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, दिसंबर में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

मुंबई (एजेंसी)। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह पिछले दिनों साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे। वह पारिवारिक कारणों से टीम में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने कहा कि वह अब फिट हैं और भारत के लिए टी-20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। चाहर ने साथ ही कहा कि एमएस धोनी अब पूरी तरह फिट हैं और उन्हें 2-3 साल क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। चाहर ने भारत के लिए आखिरी टी-20 मुकाबला रायपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, ये मुकाबला पिछले साल दिसंबर में खेला गया।

पिता की देखभाल कर रहे थे चाहर- दीपक चाहर पिछले 2 महीने से अपने पिता की देखभाल कर रहे थे। जिन्हें दिसंबर में बेन-स्टोक आया था। उनके पिता अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया को अब कोई और टी-20 इंटरनेशनल नहीं खेलना है। इसलिए चाहर मार्च में



शुरू होने वाले टूर्नामेंट से ही क्रिकेट में वापसी करेंगे। वह 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स टीम का हिस्सा हैं।

चाहर बोले, पिता सबसे पहले- दीपक चाहर ने मीडिया को बताया, मेरे लिए पिता सबसे पहले हैं। मैं यहां तक सिर्फ उनकी वजह से पहुंच पाया हूँ। मैंने जो भी अचीव किया, सब उन्हीं के कारण। अगर उनके बुरे समय में मैं उनके साथ नहीं रह सका तो मैं किस तरह का भूटिका



इंग्लैंड से हार के बाद भारत को लगा एक और झटका

डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में बांग्लादेश से नीचे खिसका

हैदराबाद (एजेंसी)। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की नई रैंकिंग में झटका लगा है और टीम अंक तालिका में बांग्लादेश से नीचे खिसक गया है। पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैच में इंग्लैंड से करारी हार के बाद भारत वर्तमान में पांचवें स्थान पर है। भारत को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में 28 रन से हार का सामना करना पड़ा है।

शुरुआती टेस्ट मैच में जब भारत और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत हुई तो एक रोमांचक लड़ाई के लिए मंच तैयार हो गया था। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने शुरुआती दिनों में दबदबा बनाए रखा, लेकिन ओली पोप के लचीलेपन ने खेल का रुख पलट दिया। उनकी 196 रनों की शानदार पारी ने गति बदल दी जिससे भारत को 231 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला। रोमांचक फाइनल में भारतीय बल्लेबाजी

लाइनअप को नए टॉम हार्टले की स्पिन क्षमता का सामना करना पड़ा। युवा स्पिनर ने अंतिम पारी में 7 महत्वपूर्ण विकेट लेकर एक जाल बुना। अथक प्रयासों के बावजूद भारत 28 रन से चूक गया जिससे इंग्लैंड को एक यादगार जीत मिल गई।

अभी भारत इस हार से उभरा भी नहीं गया था कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग के आने के बाद भारत पांचवें स्थान पर खिसक गया। निराशा स्पष्ट है, विशेषकर मौजूदा टूर्नामेंट में उनके मिश्रित प्रदर्शन को देखते हुए। दो जीत, दो हार और एक ड्रॉ के साथ भारतीय टीम चैंपियनशिप में अहम मोड़ पर है। अब ध्यान विजिग में होने वाले आगामी टेस्ट मैच पर है, जहां घरेलू टीम के लिए वापसी का संकेत है। नंबर 3 स्थान पर अपने संघर्षों के लिए सुर्खियों में रहने वाले श्वभन गिल पर उम्मीदों का भार है। उस भूमिका में बिना अर्धशतक के पांच टेस्ट खेलने के बाद गिल को अपनी क्षमता साबित करने और भारत के पुनरुत्थान में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना करना पड़ रहा है।

अगले एक हफ्ते में सीएए भारत भर में लागू कर दिया जाएगा-केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर

संक्षिप्त समाचार

कर्नाटक में कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें जीतेगी-सिद्धारमैया

बेंगलुरु, एजेंसी बिहार की सियात में भारी उठापटक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा 2024 को लेकर एक भविष्यवाणी की है। सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कर्नाटक में कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें जीतेगी। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। सिद्धारमैया ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में लगभग 20 सीटें जीतेगी। हम भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, जो राज्य की सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हमें लगता है कि हम 15 से 20 सीटें जीत सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमने कुछ सर्वेक्षण कराये हैं। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी (मांड्या से सुमलता अंबरीश) ने एक सीट जीती। कांग्रेस और जनता दल (सेनयुधर) ने एक-एक सीट जीती थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और जद (एस) गठबंधन में थे, जबकि इस बार जद (एस) ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया है।

कवर्धा पहुंच कर मृतक गौ सेवक साधाराम के घर जमीन पर बैठ गए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

रायपुर, एजेंसी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का तीन दिवसीय कथा वाचन हुआ, उसके बाद वह कवर्धा जिले में 30 जनवरी तक कथा वाचन करने पहुंचे हुए हैं। इस दौरान 28 जनवरी की शाम कथा संपन्न करने के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मृतक गौ सेवक साधाराम के घर पहुंच गए। जहां वह जमीन में बैठकर मृतक के बेटे और उसकी पत्नी से घटना के बारे में चर्चा करने लगे। बता दें कि बीते 21 जनवरी को कवर्धा जिले में साधाराम की कुछ बर्माओं ने हत्या कर दी थी। इसके बाद मामला बेहद ही गर्म रहा, ग्रामीण और स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें से मुख्य आरोपी अजय खान के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। वही परिवार अब आरोपियों को फांसी की मांग कर रहा है। रविवार की रात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कवर्धा में कथा वाचन के बाद मृतक गौ सेवक के घर पहुंच गए। जहां उसके बेटे और पत्नी के साथ जमीन पर बैठकर उसकी पत्नी घटना के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ ही पंडित शास्त्री ने 5 लाख रुपए का चेक देते हुए आर्थिक सहायता भी की है।

दिग्गजों के लोकसभा चुनाव लड़ने पर बयानबाजी शुरू

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर तैयारी में जुटी है। इस बीच लोकसभा चुनाव में सबसे पहले भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद अब प्रदेश में दिग्गजों के चुनाव पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं आज की बैठक के बाद भूपेश बघेल का चुनाव लड़ने की बात से इंकार करने पर भाजपा ने तंज कसते हुए बघेल से चुटकी ली है। बता दें की कल यानी शुक्रवार को कांग्रेस भवन में हुई बैठक में पूर्व मंत्री अकबर ने भूपेश बघेल का राजनादागांव लोकसभा सीट? से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसके बात से ही प्रदेश में भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई थी। इस बीच आज यानी शनिवार को हुई प्रभारियों के साथ बैठक के बाद भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ने की बात से इंकार कर दिया है। बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में सभी दिग्गज लोकसभा का चुनब लड़ते हैं तो मुझे चुनाव लड़ने से कोई ऐतराज नहीं है। सभी दिग्गज के साथ मैं भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं? लेकिन मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बीच? भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश के इस बयान के बाद जोरदार चुटकी? ली है।

18.75 लाख श्रद्धालुओं ने किए श्रीरामलला के दर्शन

अयोध्या, एजेंसी श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन की कतार टूटने नहीं दी है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 18.75 लाख से अधिक रामभक्तों ने नव्य-भय मंदिर में दर्शन-पूजन कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशानिर्देश पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी की देखरेख में श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ दर्शन-पूजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन यानी 23 जनवरी को मंदिर के पट भक्तों के लिए खुले तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। रोजाना दो लाख से अधिक रामभक्त श्रीरामलला के दरबार में सुगमतापूर्वक पहुंचकर दर्शन-पूजन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या नगर से लेकर मंदिर परिसर में दिनभर जय श्रीराम का जयघोष गूंज रहा है। देश-विदेश, विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीरामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। रविवार को भी करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने श्रीरामलला के दर्शन किए। प्रशासन की तरफ जारी आंकड़ों के अनुसार राम-लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को - 5 लाख, 24 जनवरी को - 2.5 लाख, 25 जनवरी को - 2 लाख, 26 जनवरी को - 3.5 लाख, 27 जनवरी को - 2.5 लाख व 28 जनवरी - 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

नईदिल्ली, एजेंसी नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते में सीएए पूरे देश में लागू हो जाएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा, राम मंदिर का अनावरण पहले ही हो चुका है। अब अगले एक हफ्ते में सीएए भारत भर में लागू कर दिया जाएगा। आज मैं इस गारंटी के साथ मंच से उतर रहा हूं। मालूम हो कि शांतनु ठाकुर बंगाल के बर्गांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री ने सीएए को लेकर जो कहा है, अगर वैसा हुआ तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद 2024 में बीजेपी का यह एक और बड़ा कदम होगा।



शांतनु ठाकुर ने कहा, इस राज्य की मुख्यमंत्री कहती हैं कि अगर आपके पास वोट कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप नागरिक हैं। आप मतदान कर सकते हैं मगर मैंने यह सुना है कि हजारों

लोग इससे अभी तक वंचित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह क्यों कह रही हैं कि जो लोग आ चुके हैं, वे नागरिक हैं। अगर कोई नागरिक पासपोर्ट सत्यापन के लिए डीआईबी से संपर्क करता है, तो विभाग उससे 1971 से पहले का दस्तावेज क्यों मांग रहा है? इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। हमें पासपोर्ट का सत्यापन वोट कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड देखकर करना चाहिए। मगर, राज्य सरकार राजनीति करने में लगी हुई है। पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। मालूम हो कि सीएए कानून का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी तीन देशों के छह समुदायों को फास्ट ट्रैक नागरिकता देना है। इस कानून को मंजूरी मिल चुकी है मगर इसे लागू

करने के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

ममता बनर्जी पर गुमराह करने का आरोप

अमित शाह ने कहा, हमें अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम करना है। भाजपा सरकार का मतलब घुसपैठ, गौ तस्करी का अंत और सीएए के माध्यम से धार्मिक आधार पर सत्ताएं गए लोगों को नागरिकता प्रदान करना होगा। शाह ने सीएए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कभी-कभी वह लोगों, शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि क्या सीएए देश में लागू होगा या नहीं। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सीएए देश का कानून है और कोई भी इसे लागू करने से कोई रोक नहीं सकता है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है।

मराठाओं को आरक्षण देने पर सत्ताधारी गठबंधन में ही मच गई रात, फिर आंदोलन का ऐलान



मुंबई, एजेंसी महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में मतभेद नजर आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मराठा समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण पर नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्य सरकार ने अल्पेतराज अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बताया कि वह सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। राणे ने इस पोस्ट में कहा, मैं मराठा समुदाय के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के फैसले और दिए गए आश्वासन से सहमत नहीं हूँ। इससे राज्य में असंतोष फैल सकता है क्योंकि यह ऐतिहासिक परंपराओं वाले मराठा समुदाय और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिभ्रमण होगा। सोमवार को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इस बारे में विस्तार से बात करूंगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता छान भुजबल भी मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भुजबल ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक की, जिसमें ओबीसी विधायकों, नेताओं और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। भुजबल ने कहा कि इस बैठक में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तावित मसौदे को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री के मसौदे में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरागे की मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। छान भुजबल ने कहा, हम राज्य सरकार के मौजूदा फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर इकट्ठा होंगे।

30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक समूचे हिमाचल में बारिश व बर्फबारी की संभावना

शिमला, एजेंसी हिमाचल प्रदेश में अभी तक बहुत कम बर्फबारी हुई है। शिमला और मनाली में सर्दियों के इस मौसम में एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई। शिमला शहर में तो पिछले करीब दो वर्षों से बर्फ नहीं गिरी है। बारिश-बर्फबारी न होने से किसान मायूस हैं तो वहीं पर्यटकों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। ऐसे में एक राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले छह दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने पांच दिन तक कई जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है, तो कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप और

तेज होगा। मौसम विभाग ने 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक समूचे प्रदेश में बारिश व बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। राज्य के चार जिलों चम्बा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में 31 जनवरी को भारी बर्फबारी का ये लो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शिमला शहर में भी बर्फबारी के एक व दो स्पेल होने की प्रबल संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बर्फबारी से परिवहन, बिजली व पेयजल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका से शासन-प्रशासन को आगाह किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगर सटीक बैठता तो आगामी दिन राज्य के पर्वतीय इलाके बर्फबारी से ढके नजर आएंगे। इससे सुस्त पड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। बादलों के

बरसने से साथ ही सूखे की मार झेल रहे प्रदेश वासियों को राहत मिलेगी। फसलों व फलों के लिए बारिश-बर्फबारी संजीवनी साबित होगी। बता दें कि राज्य में पिछले करीब दो माह से शुष्क मौसम का दौर चल रहा है। जनवरी के महीने में सामान्य से 99 फीसदी कम बारिश-बर्फबारी हुई है। सूबे में यह स्थिति लगभग 58 वर्षों बाद पैदा हुई है। इससे पहले वर्ष 1966 में जनवरी में सामान्य से 99.5 फीसदी कम बारिश-बर्फबारी हुई थी। हिमाचल में बीते 24 घंटों के दौरान सर्दी के तीखे तेवरों में अब थोड़ी नरमी आई और कोहरे व सर्द हवाओं से आंशिक रूप से राहत मिली। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री का उछाल रहा, जिससे अति शीत लहर से निजात मिली।

भारतीय सेना में बदले फिटनेस के नियम, अब मोटापे के शिकार सैनिकों की कट सकती हैं छुट्टियां

नईदिल्ली, एजेंसी भारतीय सेना ने मोटापे या खराब जीवनशैली अपना रहे सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। खबर है कि सेना में अब नई नीति लागू की गई है, जिसके तहत कई नई जांचों को शामिल किया गया है। खास बात है कि नए मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले सैनिकों पहले सुधार के लिए 30 दिनों का भी समय दिया जाएगा और ऐसा नहीं होने पर छुट्टियों में कटौती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। नए नियमों के तहत हर कर्मों को एपीएसी यानी आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड भी तैयार रखना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सभी कमानों में पत्र भेज दिया गया है। इनमें कहा गया है कि नई नीति का मकसद



जांच की प्रक्रिया में समानता लाना, शारीरिक रूप से अयोग्य या मोटापे का शिकार और जीवनशैली के चलते हो रही बीमारियों से निपटना है। बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट (पीपीटी) होता है। बीपीटी की तहत एक शख्स को 5 किमी की दौड़, 60 मीटर की

सिप्रंट, रस्सी के बल ऊपर चढ़ना और तय समय में 9 फीट के गड्डे को पार करना है। यहां समय उम्र के आधार पर तय किया जाता है। पीपीटी में 2.4 किमी की दौड़, 5 मीटर शटल, पुश अप्स, चिन अप्स, सिट अप्स और 100 मीटर की सिप्रंट होती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर तैराकी जांच भी होती है। इन जांचों के नतीजों को एसीआर या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, जिसके जिम्मेदार कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों के तहत ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी दो कर्नल और एक मेडिकल अधिकारी के साथ मिलकर हर तीन महीनों में आंकलन करेंगे।

मालदीव की संसद में जमकर चले लात-घूंसे, सांसदों के बीच हुई मारपीट

माले एजेंसी। मालदीव की संसद में रविवार को चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के मंत्रिमंडल में चार सदस्यों को मंजूरी देने पर हुए मतभेद को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच झड़प हो गई। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, मुख्य विपक्षी दल 'मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)' ने कैबिनेट पर मतदान से पहले राष्ट्रपति मुइज्जू के मंत्रिमंडल के चार सदस्यों की संसदीय मंजूरी रोकने का फैसला किया। इसके बाद सरकार

समर्थक सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे संसदीय बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। खबरों के अनुसार, झड़प के दौरान कादिथीमु से सांसद अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम शहीम और केंदीकुलहू से सांसद अहमद ईसा के बीच हाथापाई हुई। खबरों में बताया गया कि हाथापाई के दौरान दोनों सांसद चैंबर के पास गिर गए, जिससे शहीम के सिर पर भी चोट आई। अल्पसंख्यक नेता मूसा सिराज ने विवाद को रोकने का प्रयास किया। खबरों के मुताबिक, शहीम को अस्पताल ले जाया गया।



भारत सोमाली समुद्री लुटेरों के कब्जे से छुड़ाएगा श्रीलंका के मछुआरे



कोलंबो, एजेंसी। भारत ने सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा भारत के सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा श्रीलंकाई मछुआरों को छुड़ाने में मदद करने का वादा किया है। श्रीलंका की नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी। श्रीलंकाई मछुआरों को छुड़ाने में मदद करने का वादा किया है। श्रीलंका की नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी। श्रीलंकाई मछुआरों को छुड़ाने में मदद करने का वादा किया है। श्रीलंका की नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी।

दिकोविटा बंदरगाह से रवाना हुई थी। श्रीलंका की नौसेना के प्रवक्ता गायन विक्रमसूर्या ने बताया कि श्रीलंका ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समुद्री कमान को मोगादिशू से दक्षिण पूर्व में करीब 840 नॉटिकल मील की दूरी पर सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा छह मछुआरों और उनकी नौका को कब्जा में ले लेने की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि भारत ने इन मछुआरों को मुक्त कराने में श्रीलंका की मदद करने का वादा किया है। श्रीलंका के मत्स्यकी राज्य मंत्री पियाल निशान्त ने संवाददाताओं को बताया कि समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाये गये मछुआरों को मत्स्यकी मंत्रालय से बातचीत करने की अनुमति दी है।

जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत से तिलमिलाए बाइडेन, बोले-करारा जवाब देंगे

कोलंबिया, एजेंसी। जॉर्डन में ईरान समर्थित समूह के ड्रोन हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत और कई सैनिकों के घायल होने से तिलमिलाए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को कहा कि अमेरिका इसका 'करारा जवाब देगा। इजराइल-हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से पश्चिम एशिया में अमेरिकी बलों के खिलाफ ऐसे समूहों द्वारा महीनों से जारी हमलों में पहली बार हुई अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए बाइडेन ने ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार उधारया। दक्षिण कैरोलाइना की यात्रा के दौरान बाइडेन ने बैपटिस्ट चर्च के बैकग्राउंड हॉल में एक सभा में क्षणभर का मौन रखा।



बाइडेन ने कहा, "पश्चिम एशिया में हमारे लिए पिछली रात मुश्किल थी। हमने अपने एक सैन्य अड्डे पर हुए हमले में तीन बहादुर सैनिकों को खो दिया। हम जवाब देंगे।" डे एंजोर 24 मीडिया के प्रमुख और यूरोप के कार्यकर्ता उमर अबू लैला के अनुसार, पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी हवाई हमलों के डर से अपनी चौकी खाली करनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र मयादीन और बौकामल के गढ़ हैं। अमेरिका के मध्य कमान ने कहा कि एकतरफा ड्रोन हमले में से कम से कम 34 सैनिक

घायल हो गए, जिनमें से आठ को उपचार के लिए जॉर्डन से बाहर भेजा गया। फिलहाल सभी आठ लोगों की हालत स्थिर है। एक बड़े आकार के ड्रोन ने जॉर्डन में 'टॉवर 22' के नाम से जाने जाने वाले 'लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस' पर हमला किया। वायु सेना के कर्मियों को इस बेस पर तैनात किया गया था। कई अमेरिकी अधिकारियों ने भी अधिकतर सेना के जवानों की शर्त पर बताया कि तीन सैनिक मारे गए और घायलों में भी अधिकतर सेना के जवान हैं। इस छोटे प्रतिष्ठान में अमेरिका के इंजीनियरिंग, विमान एवं रसद विभाग के कर्मियों के अलावा सुरक्षा सैनिक तैनात थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने

कहा, "अमेरिका अपने सैनिकों और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा। ऑस्टिन ने कहा कि सैनिकों को आतंकी संगठन आईएसआईएस को स्थायी रूप से हराने के लिए वहां तैनात किया गया था। तीन अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन ने सैनिकों के सोने के कक्ष के पास हमला किया, जिससे हताहतों की संख्या अधिक हो गई। सीरिया के अल-तन्फ में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा 'टॉवर 22' के उत्तर में सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जॉर्डन का यह प्रतिष्ठान सीरिया में अमेरिकी सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रसद केंद्र (लॉजिस्टिक हब) के रूप में कार्य करता है।

अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 25 साल के भारतीय छात्र की हथौड़े से पीटकर हत्या

न्यूयार्क एजेंसी। अमेरिका के जॉर्जिया में पढ़ाई कर रहे 25 साल के भारतीय छात्र की हथौड़े से पीटकर हत्या कर दी गई। इस खौफनाक वारदात का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपकी भी रूढ़ कांप उठेगी। दरअसल, मृतक छात्र की गलती यह थी कि उसने एक शख्स को स्टोर के अंदर आने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी ऐसे में उसने मदद की सोची लेकिन यह उस पर इतना भार पड़ेगा यह कभी नहीं सोचा। मृतक उस स्टोर में क्लर्क का काम करता था। वहीं, आरोपी की कुछ दिन से रक्षा न किसी तरह मदद करे कि था कभी कुछ खाने को दे रहा था तो कभी पहनने के लिए अपनी जैकेट दी। वहीं, जब राहगीरों ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में ली। प्राथमिक जांच में मृतक के भारतीय होने का पता चला है जो पढ़ाई करने के लिए आया था और जनरल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। खबरों के अनुसार, मृतक का नाम विवेक सैनी है। 18 जनवरी को यह वारदात हुई। जिसकी जानकारी अब सामने आई है। विवेक लिथोनिया में स्नेपफिंगर और क्लीवलैंड रोड पर शेवॉरॉन फूड मार्ट में क्लर्क था। उस पर 53 साल के जूलियन फॉकरन ने हथौड़े से हमला कर उसे जान से मार डाला।